

मुद्रक तथा प्रका
घनश्यामदास जा
गी ता प्रे स, गो र

सं० १९९३
प्रथम संस्करण
३२५०

मूल्य १) एक रुपया

श्रीहरिः

भूमिका



माण्डूक्योपनिषद् अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें कुल बारह मन्त्र हैं। कलेवरकी दृष्टिसे पहली दश उपनिषदोंमें यह सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है। भगवान् गौडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी बढ़ा दिया है। कारिका और शांकरभाष्यके सहित यह उपनिषद् अद्वैतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आदरणीया हो गयी है। गौडपादीय कारिकाओंको अद्वैतसिद्धान्तका प्रथम-निबन्ध कहा जा सकता है। इसी ग्रन्थरत्नके आधारपर भगवान् शंकराचार्यने अद्वैत-मन्दिरकी स्थापना की थी। यों तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है, किन्तु उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान श्रेय आचार्यप्रवर भगवान् शङ्करको है और उसका मूल ग्रन्थ गौडपादीय कारिका है।

कारिकाकार भगवान् गौडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन-कालके विषयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। बँगलामें 'वेदान्तदर्शनेर इतिहास' के लेखक स्वामी श्रीप्रह्लानानन्दजी सरस्वतीने उन्हें गौडदेशीय (बंगाली) बतलाया है। इस विषयमें वहाँ नैष्कर्म्य-सिद्धिकार भगवान् सुरेन्द्रराचार्यका यह श्लोक प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है—

एवं गौडैर्द्रविडैर्नः पूज्यैरर्थः प्रभाषितः ।

अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिदृगीश्वरः ॥*

(४ / ४४)

* इस प्रकार जो साक्षात् भगवान् ही अज्ञानोपाधिक होकर अहंकारादिका साक्षी (जीव) हुआ है उस परमार्थ तत्त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय और द्रविडदेशीय आचार्योंने वर्णन किया है। [यहाँ गौडदेशीय आचार्य श्रीगौडपादाचार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचार्यजीको] ।

श्रीगौडपादाचार्य भी संन्यासी ही थे। उनके शिष्य श्री-
गोविन्दपादाचार्य थे और गोविन्दपादाचार्यके शिष्य भगवान्
शाङ्कराचार्य थे। शाङ्करसम्प्रदायमें जो आचार्यवन्दनात्मक मंगला-
चरण प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर श्रीपद्मपादाचार्य आदि
भगवान् शाङ्करके शिष्योंपर्यन्त इस सम्प्रदायके आचार्योंकी शिष्य-
परस्परा इस प्रकार बतलायी है—

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ।
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥
श्रीशाङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादश्च हस्तामलकं च शिष्यम् ।
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुन्सन्ततमानतोऽस्मि ॥*

इससे विदित होता है कि श्रीगौडपादाचार्य भगवान् शुकदेव-
जीके शिष्य थे।

भगवान् गौडपादाचार्यके ग्रन्थोंमें उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध
हैं। उनका एक ग्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो चाणी-
विलास प्रेस श्रीरंगमसे प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका
महान् योगी होना सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुआ
एक सांख्यकारिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु वह उनका
रचा है या नहीं—इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद है। अस्तु, हमें तो
इस समय उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना है।

कारिकाओंकी रचना बड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्शिनी है।
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो
ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वैतसिद्धान्तकी आधारशिला
हैं। जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि
'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यच्छास्त्रविस्तरैः' उसी प्रकार अद्वैत-
बोधके लिये यह ढङ्गतापूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस
ग्रन्थरत्नका सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो
सकता है। इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत-

*शाङ्करसम्प्रदायमें शास्त्राध्ययनसे पूर्व आचार्य और शिष्यगण इस
मंगलाचरणका उच्चारण किया करते हैं।

संस्थापन-संभिका शोखसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह एक ही ग्रन्थ मुमुक्षुओंको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है।

इस ग्रन्थमें चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और १०० इस प्रकार कुल २१५ कारिकाएँ हैं। पहला आगमप्रकरण है। इसमें सम्पूर्ण माण्डूक्योपनिषद् और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओंके सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका खण्डन किया गया है। कोई भगवान्की इच्छामात्रको सृष्टिमें हेतु मानते हैं, कोई कालसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये सृष्टि स्वीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगत्की उत्पत्ति मानते हैं। इन सब पक्षोंको अस्वीकार करते हुए भगवान् कारिकाकार कहते हैं—‘देवस्यैप स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा’ (१।९) अर्थात् पूर्णकाम भगवान्को सृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है बिना हुआ ही भास रहा है। परमार्थदर्शियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता।

माण्डूक्योपनिषद्में ओंकारकी तीन मात्रा अ उ म के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तैजस और प्राणका वर्णन करते हुए उनका समष्टि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल सूक्ष्म और आनन्द हैं। जाग्रत् अवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रमें रहता है, स्वप्नावस्थामें कण्ठमें और सुषुप्तिके समय हृदयमें रहता है। इसीका नाम प्रपञ्च है। परमार्थतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ओंकारके चतुर्थपाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम बिना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चभ्रमका भी कोई अधिष्ठान होना चाहिये। वह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सर्वात्मा और सर्वसाक्षी है। वह प्रकाशस्वरूप है; उसमें अन्यथाग्रहणरूप स्वप्न और तत्त्वाग्रहणरूप सुषुप्तिका सर्वथा अभाव है। जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वप्न और निद्रासे रहित अद्वैत-

तत्त्वका बोध होता है। इसी बातको आचार्यप्रवर गौडपाद इस प्रकार कहते हैं—

अनादिमायया सुप्ती यदा जीवः प्रदुष्यते ।

अज्ञमनिद्रमत्सप्रमद्वैतं बुध्यते तदा ॥

(१।१६)

इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्मकी एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य-प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है। वहाँ सबसे पहले स्वप्नदृश्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि स्वप्नकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव है। स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बाहर जाकर स्वप्न पदार्थोंको देखता हो—यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन दूरके पदार्थ दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्थामें जिन व्यक्तियोंसे वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें देखा था। इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोंसे स्वप्नका मिथ्यात्व सिद्धकर उससे दृश्यत्वमें समानता होनेके कारण जाग्रत्कालीन दृश्यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है। वहाँ यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें चित्तमें कल्पना किये हुए पदार्थ असत्य और बाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी मानसिक और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। इस प्रकार जाग्रत् और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और बाह्य दृश्योंको देखता कौन है? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं—

कल्पयन्त्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया ।

स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥

(२।१२)

इस प्रकार भगवान् गौडपादाचार्यके मतमें प्रपञ्चकी प्रतीति मायाके ही कारण है। मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त

वासनारूपसे स्थित भेदसमूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत् है न असत् है और न सदसत् है; न मित्र है न अमित्र है और न मित्रामित्र है; यह न सावयव है न निरवयव है और न उभयरूप है। वस्तुतः स्वरूप-विस्मृति ही माया है; अतः स्वरूपज्ञानसे ही उसकी निवृत्ति होती है। जिस प्रकार मन्द अन्धकारमें रज्जुतत्त्वका निश्चय न होनेपर उसमें सर्प, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती है उसी प्रकार मायामोहित जीवको ही भेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही है; मायाका पर्दा हटते ही एकमात्र अखण्ड अद्वैत वस्तु ही अवशिष्ट रह जाती है।

इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद, तत्त्वात्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया है। वहाँ वे कहते हैं कि लोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा दे देते हैं वह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है, अर्थात् इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो जैसे स्वप्न, माया और गन्धर्वनगर होते हैं वैसे ही विज्ञान इन प्रपञ्चको देखते हैं। तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचार्यने इस कारिकासे दिया है—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

(२।३२)

तात्पर्य यह है कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, मुमुक्षु और मुक्त किसी भी प्रकारका व्यवहार नहीं है। यह तत्त्व अत्यन्त दुर्दर्श है, क्योंकि निरन्तर व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत वस्तुतक पहुँचनी बहुत ही कठिन है। जिन वेदके पारगामी मुनि-

जनोंके राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं उन्हींको इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदका बोध होता है। इसका बोध हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निर्द्वन्द्व और निर्भय हो जाता है तथा स्तुति, नमस्कार और स्वधाकारादि व्यवहार कोटिसे ऊँचा उठकर वह देह और आत्मामें ही विश्राम करनेवाला एवं यदृच्छालाभ-सन्तुष्ट हो जाता है। फिर बाहर-भीतर इसी तत्त्वको ओतप्रोत देख वह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमें रमण करता हुआ कभी तत्त्वच्युत नहीं होता।

इस प्रकार चैतन्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वैताभावका प्रतिपादन कर फिर आगमप्रकरणमें शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततत्त्वको युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वैतप्रकरणका आरम्भ किया गया है। वहाँ आरम्भमें ही यह बतलाया गया है कि 'मेरा उपास्य अन्य है और मैं अन्य हूँ; इस प्रकारका उपासनाश्रित धर्म जातब्रह्म (कार्यब्रह्म) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत् अजन्मा ब्रह्म ही है। अतः कार्यब्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक रूपण ही है। केनोपनिषद्में भी कई पर्यायोंमें मन वाणी और प्राणादिके साक्षीको ही ब्रह्म बतलाकर 'नेदं यदिदमुपासते' इस वाक्यसे उपासका अग्रब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार कार्पण्यका निर्देश कर 'अजातिसमतां गतम्' अर्थात् समभावमें स्थित अजाति—अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है—ऐसा कहा है। इसके पश्चात् घटाकाशादिके दृष्टान्तसे औपाधिक भेदका उल्लेख करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्त्वकी अनुत्पत्ति और असंगताका प्रतिपादन किया है। वहाँ यह बतलाया है कि जिस प्रकार एक घटाकाशके धूम और धूलि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त घटाकाश उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख-दुःखसे समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होते; और वस्तुतः तो धूलि आदिसे आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्माका भी सुख-दुःखादिसे कभी सम्पर्क नहीं होता। जीवके मरण, उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसे भी आत्मामें कोई विलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात स्वप्नके समान आत्माकी

मायासे ही कल्पित हैं। अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और निर्लेप है, इसीसे 'एकमेवाद्वितीयम्' 'इदं सर्वं यदयमात्मा' तथा 'द्वितीयाद्वै भयं भवति' 'उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति' आदि श्रुतियोंसे अभेद दृष्टिकी प्रशंसा और भेददृष्टिकी निन्दा की गयी है। छान्दोग्योपनिषद्में सृष्टिका-घट, अग्नि-विस्फुलिंग और लोह-नखनिकृन्तनादि दृष्टान्तोंसे जो सृष्टिका वर्णन किया गया है वह जिज्ञासुकी बुद्धिमें प्रपञ्चका ब्रह्मके साथ अभेद विटानेके लिये है; वस्तुतः प्रपञ्चभेद सिद्ध करनेके लिये नहीं है। अतः सिद्धान्त यही है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदृष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्ध भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण वह नित्य नहीं हो सकता। इसके सिवा यदि विचार किया जाय तो न तो सद्बस्तुका जन्म हो सकता है और न असत्का ही, क्योंकि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशशृङ्गके समान असत् है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह सारा द्वैत मनोदृश्यमात्र है मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वैतकी तनिक भी उपलब्धि नहीं होती।

इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त-संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता है। उसका यह अग्रह निरोधजनित नहीं होता बल्कि ग्राह्य वस्तुका अभाव होनेके कारण होता है। इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या वृत्ति-व्याप्ति भी कहते हैं। उस अवस्थाका कारिकाकारने तैत्तिरीयसे लेकर अड़तीसवीं कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यही बोध-स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रयत्न होता है और इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है। कारिकाकारने इसे 'अस्पर्शयोग' कहा है। इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हें आत्मनाश दिखायी देता है। यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति दुःखक्षय, बोध और अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अधीन हैं। वह मनोनिग्रह

भी बड़े धीर-वीरका काम है उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत अभ्यवसाय और परम धैर्यकी आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकारके विघ्न आते हैं। भगवान् कारिकाकारने ब्यालीससे लेकर पैतालीसवाँ कारिकातक उन विघ्नोंकी निवृत्तिके उपाय बतलाये हैं। उनके अनुसार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो बोधका उदय होता है। उस स्थितिका वर्णन आचार्यने श्लोक ४६ और ४७ में किया है। इस प्रकार अद्वैततत्त्व और उसकी उपलब्धिके साधनोंका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित श्लोकसे इस प्रकरणका उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है—

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥

(३।४८)

इसके पश्चात् अलातशान्ति नामक चौथे प्रकरणमें आचार्यने अन्य सतावलम्बियोंके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हींकी युक्तियोंसे उनका खण्डन किया है। 'अलात' शब्दका अर्थ उल्का या मसाल है। मसालको घुमानेपर अग्निकी तरह-तरहकी आकृतियाँ दिखायी देती हैं और उसका घुमाना बन्द करते ही उनका दिखायी देना बन्द हो जाता है। यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे मसालसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं अन्यत्रसे ही उनका आना-जाना होता है। उनकी प्रतीति केवल मसालके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार यह दृश्य प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है और मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता है। किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित हैं; परमार्थदृष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है और न लय। इस भ्रान्तिका आधार परब्रह्म है, क्योंकि कोई भी भ्रान्ति निराधार नहीं हो सकती। अतः रज्जुमें सर्प अथवा शुकुलमें रजतके समान परब्रह्ममें ही इस प्रपञ्चभ्रमकी प्रतीति हो रही है। यही इस प्रकरणका संक्षिप्त तात्पर्य है। इस प्रकरणमें आचार्यने सद्वाद, असद्वाद, बीजाह्वरसन्ततिवाद, चिदान्नावाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतों-

का खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है। वे एक ही कारिका-
में सारे पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं—

स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ।

सदसत्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ।

(४।२२)

अर्थात् कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत् असत् अथवा सदसत्-रूपसे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति होगी ? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी सम्भव नहीं है। अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सब प्रकारके कार्य-कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं—

नास्त्यसद्भेतुकमसत्सदसद्भेतुकं तथा ।

सच्च सद्भेतुकं नास्ति सद्भेतुकमसत्कुतः ॥

(४।४०)

अर्थात् न तो आकाशकुसुमादि असत् कारणवाला कोई आकाशकुसुमादिरूप असत् पदार्थ हो सकता है और न ऐसे असत्कारणसे कोई सद्भेतु ही उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा—ऐसी तो सम्भावना ही कहाँ है ?

इस प्रकार अनेकों युक्तियोंसे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वैतका अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशून्य परमार्थतत्त्वको जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्पसे मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं—

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।

विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥
(४१८०)

अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् ।

सकृद्विमानो ह्येवैष धर्मो धातुस्वभावतः ॥
(४१८१)

इस प्रकार उस निरालम्ब स्थितिका वर्णन कर भगवान् गौड-पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह सर्वविशेषदूष्य परमार्थतत्त्व अनायासही आच्छादित हो जाता है और फिर वह पर्दा बड़ी कठिनातासे हटता है। इसीसे यह भगवान् अत्यन्त दुर्दर्श है। इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौनसी कोटियाँ हैं—उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं—

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः ।

चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव वालिशः ॥
(४१८३)

अर्थात् कोई कहते हैं भगवान् 'है', कोई कहते हैं 'नहीं है' किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है' और कोई कहते हैं 'नहीं है, नहीं है'। इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य पदार्थोंसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता नहीं है; अस्ति-नास्तिभाव (सदसद्वाद) उभयरूप है और नास्ति-नास्तिभाव अभावरूप है। भगवान् इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस सर्वभावातीत भगवान्को जो जानता है वही सर्वज्ञ है—सर्वज्ञ इसलिये, कि वह सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता है उसे अन्वयस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही। जिसे ऐसा ज्ञान है उस अद्भ्यत्राह्यपदमें स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसका शम-दम आदि सात्त्विक व्यवहार भी लोकसंग्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है। वस्तुतः उनकी गहनगतिका अवगाहन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। उन्हींकी अलौकिक स्थितिको लक्ष्यमें रखकर भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

(२।६९)

जो संसार संसारी पुरुषोंकी दृष्टिमें ध्रुवसत्य है उसका वे अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिद्घनसत्तामें उनकी अविचल स्थिति रहती है उसतक वहिर्दर्शी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती । इसीसे उनकी दृष्टिमें दिन-रातका अन्तर बतलाया गया है ।

इस प्रकार समस्त वादियोंकी कुदृष्टियोंका खण्डन कर आचार्य-
ने एक अद्वय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसी-
की वन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है । वहाँ वे कहते हैं—

दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् ।
बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथावलम् ॥

(४।१००)

इन कारिकाओंके द्वारा भगवान् गौडपादाचार्यने अज्ञातवादकी स्थापना की है । इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊँचे अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते हैं । जिनके चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे— इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेकी भी सम्भावना है । यह तत्त्व अत्यन्त दुर्बोध है—ऐसा तो स्वयं आचार्यचरणने ही कह दिया है—‘दुर्दर्शमतिगम्भीरम्’ । किन्तु जिस महाभाग महापुरुषकी दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता । वह स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है और दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है । वह महामुनि सबका वन्दनीय है, सबका गुरु है और सभीका परम सुहृद् है । भगवान् हमें ऐसे महापुरुषोंके चरणकमलोंका आश्रय देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करें ।

—अनुवादक



श्रीहरिः
विषय-सूची



विषय	पृष्ठ
१. शान्तिपाठ	१
आगसप्रकरण	
२. माध्यकारका मङ्गलाचरण	२
३. सम्बन्धभाष्य	३
४. ॐ ही सब कुछ है	६
५. ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता	८
६. आत्माका प्रथम पाद—वैश्वानर	१०
७. आत्माका द्वितीय पाद—तैजस	१३
८. आत्माका तृतीय पाद—प्राज्ञ	१५
९. प्राज्ञका सर्वकारणत्व	१८
१०. एक ही आत्माके तीन भेद	१९
११. विश्वादिके विभिन्न स्थान	२०
१२. विश्वादिका त्रिविध भोग	२६
१३. त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल	२६
१४. प्राण ही सबकी सृष्टि करता है	२७
१५. सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्प	२९
१६. चतुर्थ पादका विवरण	३२
१७. तुरीयका स्वरूप	३५
१८. तुरीयका प्रभाव	४२
१९. विश्व और तैजससे तुरीयका भेद	४३
२०. प्राज्ञसे तुरीयका भेद	४४
२१. तुरीयका स्वप्न-निद्राक्षन्त्यत्व	४६
२२. बोध कब होता है ?	४८
२३. प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव	५०
२४. शुब-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है	५१
२५. आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और उसकी मात्राओंका तादात्म्य	५२

विषय	पृष्ठ
२६. अकार और विश्वका तादात्म्य	५३
२७. उकार और तैजसका तादात्म्य	५४
२८. मकार और प्राणका तादात्म्य	५६
२९. मात्राओंकी विश्वादिरूपता	५७
३०. ओंकारोपासकका प्रभाव	५९
३१. ओंकारकी व्यस्तोपासनाके फल	५९
३२. अमात्र और आत्माका तादात्म्य	६०
३३. समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना	६२
३४. ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है	६५

वैतथ्यप्रकरण

३५. स्वप्नदृष्ट पदार्थोंका मिथ्यात्व	६७
३६. जाग्रद्दृश्य पदार्थोंके मिथ्यात्वमें हेतु	७१
३७. स्वप्नमें मनःकल्पित और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं	७६
३८. जाग्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं	७७
३९. इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ?	७८
४०. इनकी कल्पना करनेवाला और इनका साक्षी आत्मा ही है	७९
४१. पदार्थकल्पनाकी विधि	७९
४२. आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं	८०
४३. आन्तरिक और बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित है	८२
४४. पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है	८३
४५. जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है	८४
४६. अज्ञाननिवृत्ति ही आत्मज्ञान है	८५
४७. विकल्पकी मूल साया है	८६
४८. मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद	८७
४९. आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है	९१
५०. द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है	९२
५१. परमार्थ क्या है ?	९४
५२. अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है	१००
५३. तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है	१०१
५४. इस रहस्यके साक्षी कौन थे ?	१०३

विषय	पृष्ठ
५५. तत्त्वदर्शनका आदेश	... १०४
५६. तत्त्वदर्शिका आचरण	... १०४
५७. अविचल तत्त्वनिष्ठाका विधान	... १०६

अद्वैतप्रकरण

५८. भेददर्शी कृपण है	... १०८
५९. अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा	... ११०
६०. जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त	... ११२
६१. जीवके विलीन होनेमें दृष्टान्त	... ११३
६२. आत्माकी असंगतामें दृष्टान्त	... ११४
६३. व्यावहारिक जीवभेद	... १२०
६४. जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है	... १२१
६५. आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है	... १२२
६६. आत्मैकत्व ही समीचीन है	... १२७
६७. श्रुत्युक्त जीव-ब्रह्मभेद गौण है	... १२८
६८. दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था	... १३१
६९. त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि	... १३४
७०. अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है	... १३६
७१. अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु	... १३८
७२. आत्मामें भेद मायाहीके कारण है	... १३९
७३. जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है	... १४१
७४. उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता	... १४२
७५. सृष्टिश्रुतिकी संगति	... १४३
७६. श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है	... १४७
७७. अनात्मप्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है	... १५०
७८. सद्ब्रह्मकी उत्पत्ति मायिक होती है	... १५१
७९. असद्ब्रह्मकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है	... १५३
८०. स्वप्न और जाग्रति मनके ही विलास हैं	... १५४
८१. तत्त्वबोधसे अमनीभाव	... १५६
८२. आत्मज्ञान किसे होता है ?	... १५७
८३. शान्तश्रुतिका स्वरूप	... १५८
८४. सुषुप्ति और समाधिकी भेद	... १६०
८५. ब्रह्मका स्वरूप	... १६१

विषय

पृष्ठ


८६.	अस्पर्शयोगकी दुर्गमता १६७
८७.	अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिग्रहके अधीन है १६८
८८.	मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है १६९
८९.	मनोनिग्रहके विग्रह १६९
९०.	मन कब ब्रह्मरूप होता है ? १७३
९१.	परमार्थ सत्य क्या है ? १७५

अलातशान्तिप्रकरण

९२.	नारायण-नमस्कार १७८
९३.	अद्वैतदर्शनकी वन्दना १८०
९४.	द्वैतवादियोंका पारस्परिक विरोध १८१
९५.	द्वैतवादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन १८३
९६.	स्वभावविपर्यय असम्भव है १८४
९७.	जीवका जरामरण माननेमें दोष १८६
९८.	सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति १८७
९९.	हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष १९१
१००.	अजातवाद-निरूपण १९८
१०१.	सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति १९८
१०२.	हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुपपत्तिका सूचक है २०१
१०३.	बाह्यार्थवाद-निरूपण २०२
१०४.	विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादानिषेध २०४
१०५.	विज्ञानवादका खण्डन २०८
१०६.	उपक्रमका उपसंहार २१०
१०७.	प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु २१२
१०८.	स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण २१३
१०९.	स्वप्न और जाग्रत्का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है २१५
११०.	जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है ? २२०
१११.	सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति २२१
११२.	उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता २२२
११३.	परमार्थ वस्तु क्या है ? २२३
११४.	विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका दृष्टान्त २२५
११५.	आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ? २३०
११६.	हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल २३१

विषय		पृष्ठ
११७.	हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष	२३२
११८.	जीवोंका जन्म मायिक है	२३४
११९.	आत्माकी अनिर्वचनीयता	२३६
१२०.	द्वैताभावमें स्वप्नका दृष्टान्त	२३७
१२१.	अजाति ही उत्तम सत्य है	२४१
१२२.	चित्तकी असंगता	२४२
१२३.	व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती	२४३
१२४.	आत्मा अज है—यह कल्पना भी व्यावहारिक है	२४४
१२५.	द्वैताभावसे जन्माभाव	२४५
१२६.	विद्वान्की अभयपदप्राप्ति	२४७
१२७.	सनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार	२४९
१२८.	आत्माकी दुर्दर्शताका हेतु	२५०
१२९.	परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश	२५१
१३०.	ज्ञानीका नैष्कर्म्य	२५३
१३१.	त्रिविध ज्ञेय	२५५
१३२.	त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है	२५८
१३३.	जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न हैं	२६०
१३४.	आत्मतत्त्वनिरूपण	२६१
१३५.	आत्मज्ञ ही अकृपण है	२६३
१३६.	आत्मज्ञका महाज्ञानित्व	२६४
१३७.	जातवादमें दोषप्रदर्शन	२६६
१३८.	आत्माका स्वाभाविक स्वरूप	२६७
१३९.	अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है	२६८
१४०.	परमार्थपद-वन्दना	२७०
१४१.	भाष्यकारकर्तृक वन्दना	२७०
१४२.	शान्तिपाठ	२७३





ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्

ॐ

तत्सद्ब्रह्मणे नमः

माण्डूक्योपनिषद्

गौडपादीयकारिका, मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य
और भाष्यार्थसहित



जाग्रदादिवयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ।
ओङ्कारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाग्यहम् ॥



शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममें समर्थ होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरोंसे स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान् [अथवा परम धनवान्] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों (आपत्तियों) के लिये चक्रके समान [घातक] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें, त्रिविध तापकी शान्ति हो ।



अहङ्कार-प्रकरण



भाष्यकारका मङ्गलाचरण

ब्रह्मानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिमिव्याप्य लोकान्
भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपि धिषणोद्भासितान्कामजन्यान् ।
पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो
मायासंख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽसि ॥१॥

जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरश्मियोंके विस्तारसे सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त कर [जाग्रत्-अवस्थामें] स्थूल विषयोंका भोग करनेके अनन्तर फिर [स्वप्नावस्थामें] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण भोगोंका पानकर मायासे हम सब जीवोंको भोग कराता हुआ [स्वयं] आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' (चौथी) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥

यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगान्स्थविष्ठान्
पश्चाच्चायान्स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् ।
सर्वानैतान्पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा
हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः ॥२॥

जो सर्वात्मा [जाग्रत्-अवस्थामें] शुभाशुभ कर्मजनित स्थूल भोगोंको भोगकर फिर [स्वप्नकालमें] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको [सूर्य आदि ब्राह्म ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण] अपने ही प्रकाशसे भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण विशेषोंको छोड़कर निर्गुणरूपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे ॥ २ ॥



सम्बन्धभाष्य

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् ।

तस्योपव्याख्यानं

अनुबन्ध-
विमर्शः

वेदान्तार्थसारसंग्रह-

भूतमिदं प्रकरण-

चतुष्टयमोमित्येतदक्षरमित्याद्या-

रभ्यते । अत एव न पृथक्सम्बन्धा-

भिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि ।

यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभि-

धेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु-

मर्हन्ति । तथापि प्रकरणव्या-

चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि ।

तत्र प्रयोजनवत्साधनाभि-

व्यञ्जकत्वेनाभिधेयसम्बद्धं शास्त्रं

पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धाभिधेय-

प्रयोजनवद्भवति । किं पुनस्त-

त्प्रयोजनमित्युच्यते, रोगा-

र्तस्येव रोगनिवृत्तौ स्वस्थता ।

तथा दुःखात्मकस्यात्मनो द्वैत-

‘ॐ’ यह अक्षर ही यह सब कुछ है । उसका व्याख्यानरूप तथा वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार प्रकरणोंवाला ग्रन्थ ‘ओमित्येतदक्षर-मिदम्’ आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ किया जाता है । इसीलिये इसके सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनका पृथक् वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है । वेदान्तशास्त्रमें जो-जो सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस ग्रन्थमें भी हो सकते हैं । तो भी [व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि] जिन्हें किसी प्रकरण-ग्रन्थकी व्याख्या करनेकी इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन कर ही देना चाहिये ।

तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूल साधन अभिव्यक्त करनेके कारण अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध रखनेवाला शास्त्र परम्परासे विशिष्ट सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला हुआ करता है । अच्छा तो, [इस शास्त्रका] वह क्या प्रयोजन है ? सो बतलाया जाता है—जिस प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति होनेपर स्वस्थता होती है उसी प्रकार दुःखामिमानी आत्माको द्वैत-

प्रपञ्चोपशमे स्वस्थता । अद्वैत-
भावः प्रयोजनम् ।

द्वैतप्रपञ्चस्याविद्याकृतत्वादि-
द्यया तदुपशमः स्यादिति
ब्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यारम्भः
क्रियते । “यत्र हि द्वैतमिव भवति”
(वृ० उ० २ । ४ । १४) “यत्र
वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्प-
श्येदन्योऽन्यद्विजानीयात्” (वृ०
उ० ४ । ३ । ३१) “यत्र वास्य
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्ये-
त्केन कं विजानीयात्” (वृ० उ०
२ । ४ । १४) इत्यादिश्रुतिभ्यो-
ऽस्यार्थस्य सिद्धिः ।

तत्र तावदोङ्कारनिर्णयाय प्रथमं

प्रकरण-
चतुष्टय-
प्रतिगणार्थ-
निरूपणम्

प्रकरणभागमप्रधानम्
आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्यु-
पायभूतम् । यस्य
द्वैतप्रपञ्चस्योपशमे-

द्वैतप्रतिपत्ती रज्जुमिव सर्पा-
दित्रिकल्पोपशमे रज्जुतत्त्व-

प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर स्वस्थता
मिलती है । अतः अद्वैतभाव ही इसका
प्रयोजन है ।

द्वैतप्रपञ्च अविद्याजनित है इस-
लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो
सकती है । अतः ब्रह्मविद्याको
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका
आरम्भ किया जाता है । “जहाँ
द्वैतके समान होता है” “जहाँ
भिन्नके समान हो वहाँ कोई दूसरा
दूसरेको देख सकता है अथवा दूसरा
दूसरेको जानता है” “जहाँ इसके
लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया
है वहाँ वह किसके द्वारा किसे देखे ?
और किसके द्वारा किसे जाने ?”
इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी सिद्धि
होती है ।

उन (चारों प्रकरणों) में पहला
प्रकरण तो ओंकारके स्वरूपका निर्णय
करनेके लिये है । वह आगम-
(श्रुति) प्रधान और आत्मतत्त्वकी
प्राप्तिका उपायभूत है । रज्जुमें
सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर
जिस प्रकार रज्जुके स्वरूपका ज्ञान
हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वैत-
प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर अद्वैत

प्रतिपत्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो
वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं
प्रकरणम् । तथाद्वैतस्यापि
वैतथ्यप्रसङ्गप्राप्तौ युक्तितत्त्वा-
त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम् ।
अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष-
भूतानि यानि वादान्तराण्यवैदि-
कानि तेषामन्योन्यविरोधि-
त्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव
निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् ।

कथं पुनरोङ्कारनिर्णय आत्म-

ओंकारस्य तत्त्वप्रतिपत्त्युपा-
आत्मप्रतिपत्ति- यत्वं प्रतिपद्यत
साधनत्वम् इत्युच्यते—

“ओमित्येतत्” (क० उ० १।२।
१५) “एतदालम्बनम्” (क० उ०
१।२।१७) “एतद्वै सत्य-
काम” (प्र० उ० ५।२) “ओमि-
त्यात्मानं युञ्जीत” (मैत्र्यु० ६।
३) “ओमिति ब्रह्म” (तै० उ०
१।८।१) “ओङ्कार एवेदं
सर्वम्” (छा० उ० २।२३।
३) इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

रज्ज्वादिखि

सर्पादि-

तत्त्वका बोध होता है उसी द्वैतका
युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने-
के लिये [वैतथ्यनामक] द्वितीय
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वैतके भी
मिथ्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये
तृतीय (अद्वैत) प्रकरण है । तथा
अद्वैतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका
खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अलात
शान्ति) प्रकरण है ।

ओंकारका निर्णय किस प्रकार
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता
है, सो अब बतलाया जाता है—
“ॐ यही [वह पद] है” “यही
आलम्बन है” “हे सत्यकाम ! यह
[जो ओंकार है वही पर और अपर
ब्रह्म है]” “आत्माका ॐ इस प्रकार
ध्यान करे” “ॐ यही ब्रह्म है” “यह
सब ओंकार ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे
यही बात जानी जाती है ।

सर्पादि विकल्पकी अधिष्ठानभूत

विकल्पस्यास्पदो- रज्जु आदिके समान जिस प्रकार
 द्वय आत्मा पर- अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने-
 मर्थः सन्प्राणा- पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय
 दिविकल्पस्यास्पदो यथा तथा है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको
 सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणा- विषय करनेवाला सम्पूर्ण वाग्विलास
 घात्मविकल्पविषय ओङ्कार ओङ्कार ही है । और वह (ओंकार)
 एव । स चात्मस्वरूपमेव, आत्माका प्रतिपादन करनेवाला
 तदभिधायकत्वान् । ओङ्कार- होनेसे उसका स्वरूप ही है । तथा
 विकारशब्दाभिधेयश्च सर्वः ओङ्कारके विकाररूप शब्दोंके प्रति-
 प्राणादिरात्मविकल्पोऽभिधान- पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त
 व्यतिरेकेण नास्ति । “वाचा- प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे
 रूभणं विकारो नामधेयम्” भिन्न नहीं हैं, जैसा कि “विकार
 (छा० उ० ६।१।४) “तदस्येदं केवल वाणीका विलास और नाम-
 वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः नात्र है” “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण
 सर्वसितम्” “सर्वं हीदं नामनि” जगत् वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी
 इत्यादिश्रुतिभ्यः । ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध
 होता है ।

अत आह—

इसीलिये कहते हैं—

ॐ हीं सत्र कुञ्ज हं

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं
 भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्य-
 त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥

ॐ यह अक्षर हीं सत्र कुञ्ज हं है । यह जो कुञ्ज भूत, भविष्यत् और
 वर्तमान है उसीकी व्याख्या है; इसीलिये यह सत्र ओङ्कार ही है । इसके
 सिद्धा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओङ्कार ही है ॥ १ ॥

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व-
मिति । यदिदमर्थजातमभिधेय-
भूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्,
अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरेका-
दोङ्कार एवेदं सर्वम् । परं च
ब्रह्माभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेव
गम्यत इत्योङ्कार एव ।

तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्या-
क्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम् ;
ब्रह्मप्रतिपत्त्युपायत्वाद्ब्रह्मसमीप-
तया विस्पष्टं प्रकथनमुपव्याख्यानं
प्रस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यशेषः ।

भूतं भवद्भविष्यदिति काल-
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार
एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्रि-
कालातीतं कार्याधिगम्यं काला-
परिच्छेद्यमव्याकृतादि तद-
प्योङ्कार एव ॥ १ ॥

ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है ।
यह अभिधेय (प्रतिपाद्य) रूप
जितना पदार्थसमूह है वह अपने
अभिधान (प्रतिपादक) से अभिन्न
होनेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान
भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण
यह सत्र कुछ ओंकार ही है । पर-
ब्रह्म भी अभिधान-अभिधेय (वाच्य-
वाचक) रूप उपायके द्वारा ही
जाना जाता है, इसलिये वह भी
ओंकार ही है ।

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर
ॐ है, उसका उपव्याख्यान—ब्रह्मकी
प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके
समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम
उपव्याख्यान है वही—यहाँ प्रस्तुत
जानना चाहिये । इस वाक्यमें
'प्रस्तुतं वेदितव्यम् (प्रस्तुत जानना
चाहिये)' यह वाक्यशेष है ।

भूत, वर्तमान और भविष्यत् इन
तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेद्य है
वह भी उपर्युक्त न्यायसे ओंकार ही
है । इसके सिवा जो तीनों कालोंसे
परे, अपने कार्यसे ही विदित होने-
वाला और कालसे अपरिच्छेद्य
अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार
ही है ॥ १ ॥

ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता

अभिधानाभिधेययोरेकत्वेऽप्य-
 मिधानप्राधान्येन निर्देशः कृतः ।
 ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादि ।
 अभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य
 पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशो-
 ऽभिधानाभिधेययोरेकत्वप्रति-
 पत्त्यर्थः । इतरथा ह्यभिधान-
 तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यभिधे-
 यस्याभिधानत्वं गौणमित्याशङ्का
 स्यात् । एकत्वप्रतिपत्तेश्च प्रयो-
 जनमभिधानाभिधेययोरेकेनैव
 प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त-
 द्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति ।
 तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा
 मात्राश्च पादाः” (मा० उ० ८)
 इति । तदाह—

वाचक और वाच्यका अभेद होने-
 पर भी वाचककी प्रधानतासे ही ॐ
 यह अक्षर ही सब कुछ है
 इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया
 है । वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट
 वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे
 किया हुआ निर्देश वाचक और
 वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके
 लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति
 वाचकके अधीन होनेके कारण
 वाच्यका वाचकरूप होना गौण
 ही होगा—ऐसी आशंका हो सकती
 है । किन्तु वाच्य (ब्रह्म) और
 वाचक (ओंकार) की एकत्व-
 प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि
 उन दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक
 साथ लीन करके उनसे विलक्षण
 ब्रह्मको प्राप्त किया जाय । ऐसा ही
 “पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही
 पाद हैं” इस श्रुतिसे कहेंगे भी ।
 अब वही बात कहते हैं—

सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा
 चतुष्पात् ॥२॥

यह सब ब्रह्म ही है । यह आत्मा भी ब्रह्म ही है । वह यह
 आत्मा चार पादों (अंशों) वाला है ॥ २ ॥

सर्वं ह्येतद्ब्रह्मेति । सर्वं यदुक्त-
 मोङ्कारमात्रमिति तदेतद्ब्रह्म । तच्च
 ब्रह्म परोक्षाभिहितं प्रत्यक्षतो
 विशेषेण निर्दिशति—अयमात्मा
 ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पात्त्वेन
 प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाभि-
 नयेन निर्दिशति—अयमात्मेति ।
 सोऽयमात्मोङ्काराभिधेयः पराप-
 त्त्वेन व्यवस्थितश्चतुष्पात्कार्पा-
 षणवन्न गौरिवेति । त्रयाणां
 विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रविलापनेन
 तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण-
 साधनः पादशब्दः । तुरीयस्य
 पद्यत इति कर्मसाधनः पाद-
 शब्दः ॥ २ ॥

यह सब ब्रह्म ही है । अर्थात् यह
 सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है,
 ब्रह्म है । अबतक परोक्षरूपसे
 ब्रतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे
 प्रत्यक्षतया 'यह आत्मा ब्रह्म है'
 ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ
 'अयम्' शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे
 विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने
 अन्तरात्मस्वरूपसे अभिनय (अंगुलि-
 निर्देश) पूर्वक 'अयमात्मा ब्रह्म' ऐसा
 कहकर बतलाते हैं । ओंकार नामसे
 कहा जानेवाला तथा पर और अपर-
 रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा
 कार्पाषणके* समान चार पाद (अंश)
 वाला है, गौके समान नहीं । विश्व
 आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूर्व-
 कालय करते हुए अन्तमें तुरीय ब्रह्मकी
 उपलब्धि होती है । अतः पहले
 तीन पादोंमें 'पाद' शब्द करणवाच्य
 है और तुरीयमें 'जो प्राप्त किया
 जाय' इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥

कथं चतुष्पात्त्वमित्याह—

वह किस प्रकार चार पादोंवाला
 है सो बतलाते हैं—

* किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्केका नाम कार्पाषण है । यह
 सोलह पणका होता है । जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार
 पौंवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं ।

आत्माका प्रथम पाद—वैश्वानर

जागरितस्थानो वहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन-
विंशतियुक्तः स्थूलभुवैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥

जाग्रत् अवस्था जिस [की अभिव्यक्ति] का स्थान है, जो वहिः-
प्रज्ञ (बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला) सात अंगोंवाला, उन्नीस
मुखोंवाला और स्थूल विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है ।३।

जागरितं स्थानमस्येति
जागरितस्थानः । वहिष्प्रज्ञः
स्यात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा
यस्य स वहिष्प्रज्ञो वहिर्विषयेषु
प्रज्ञाविद्याकृतायभासत इत्यर्थः ।
तथा सप्ताङ्गान्यस्य "तस्य ह वा
एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव
सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः
पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो
वक्तिरेव रश्मिः पृथिव्येव पादौ"
(छा० उ० ५ । १८ । २) इत्य-
ग्निहोत्रकल्पनाशेषत्वेनाहवनीयो-
ऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता-
ङ्गानि यस्य स सप्ताङ्गः ।

तथैकोनविंशतिर्मुखान्यस्य
दुर्दान्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च
दश वायवश्च प्राणादयः पञ्च

जाग्रत्-अवस्था जिसका स्थान
है उसे जागरितस्थान कहते हैं ।
जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोंमें प्रज्ञा
है उसे वहिष्प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात्
जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य
विषयोंसे सन्नद्ध-सो भासती है । इसी
प्रकार जिसके सात अंग हैं अर्थात्
"इस उस वैश्वानर आत्माका बुलोक
शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है,
आकाश मध्यस्थान (देह) है, अन्न
(अन्नका कारणरूप जल) ही मूत्र
स्थान है और पृथिवी ही चरण है" इस
श्रुतिके अनुसार अग्निहोत्रकल्पनामें
अंगभूत होनेके कारण आहवनीय
अग्नि उसके मुखरूपसे बतलाया
गया है । इस प्रकार जिसके सात
अंग हैं उसे ही सप्तांग कहते हैं ।

तथा जिसके उन्नीस मुख हैं,
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय,
पाँच प्राणादि वायु, तथा मन, बुद्धि,

मनो बुद्धिरहङ्कारचित्तमिति
 मुखानीव मुखानि तान्युपलब्धि-
 द्वाराणीत्यर्थः, स एवंविशिष्टो
 वैश्वानरो यथोक्तैर्द्वारैः शब्दा-
 दीन्स्थूलान्त्रिपयान्भुङ्क्त इति
 स्थूलभुक् । विशेषां नराणा-
 मनेकधा नयनाद्वैश्वानरः ।
 यद्वा विश्वश्चासौ नरश्चेति
 विश्वानरः । विश्वानर एव
 वैश्वानरः । सर्वपिण्डात्मानन्य-
 त्वात् स प्रथमः पादः ।
 एतत्पूर्वकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य
 प्राथम्यमस्य ।

कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य-
 गात्मनोऽस्य चतुष्पात्त्वे प्रकृते
 द्युलोकादीनां मूर्धाद्यङ्गत्वमिति ।

नैष दोषः । सर्वस्य प्रप-
 वैश्वानरस्य समाद्-
 त्वादिप्रतिपादने
 हेतुः
 चतुष्पात्त्वस्य विवक्षितत्वात् ।

अहंकार और चित्त—ये जिसके
 मुखके समान मुख अर्थात् उपलब्धि-
 के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंवाला
 वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि
 स्थूल त्रिपयोंको भोगता है इसलिये
 वह स्थूलभुक् है । सम्पूर्ण नरोंको
 [अनेक प्रकारकी योनियोंमें] नयन
 (वहन) करनेके कारण वह 'वैश्वा-
 नर' कहलाता है; अथवा वह विश्व
 (समस्त) नररूप है इसलिये
 विश्वानर है । विश्वानर ही [स्वार्थमें
 तद्धित अण् प्रत्यय होनेसे] वैश्वानर
 कहलाता है । समस्त देहोंसे अभिन्न
 होनेके कारण वही पहला पाद है ।
 परवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका
 ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये
 यह प्रथम है ।

शंका—“अयमात्मा ब्रह्म” इस
 श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको
 चार पादोंवाला बतलानेका प्रसङ्ग
 था । उसमें द्युलोकादिको उसके मूर्धा
 आदि अंगरूपसे कैसे बतलाने लगे ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं
 है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही
 अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु-
 ष्पात्त्वका प्रतिपादन करना इष्ट है ।

एवं च सति सर्वप्रपञ्चोपशमे-
 ष्चैतसिद्धिः । सर्वभूतस्थश्चात्मैको
 दृष्टः स्यात् सर्वभूतानि चात्मनि ।
 “यस्तु सर्वाणि भूतानि” (ई० उ०
 ६) इत्यादिश्रुत्यर्थं उपसंहृतश्चैवं
 स्यात् । अन्यथा हि स्वदेहपरि-
 च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या-
 दिभिरिव दृष्टः स्यात्तथा च
 सत्यद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो
 न स्यात्, सांख्यादिदर्शनेना-
 विशेषात् । इष्यते च सर्वोपनिषदां
 सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम् । अतो
 युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा-
 त्मनो द्युलोकाद्यङ्गत्वेन विराडा-
 त्मनाधिदैविकेनैकत्वमभिप्रेत्य
 सप्ताङ्गत्ववचनम् । “मूर्धा ते
 व्यपतिष्यत्” (छा० उ० ५ ।
 १२ । २) इत्यादिलिङ्गदर्शनाच्च ।

विराजैकत्वमुपलक्षणार्थं हिरण्य-
 गर्भाव्याकृतात्मनोः । उक्तं चैतन्

ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके
 निषेधपूर्वक अद्वैतकी सिद्धि हो
 सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक
 आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका
 साक्षात्कार हो सकेगा और इसी
 प्रकार “जो सारे भूतोंको [आत्मामें
 ही देखता है]” इत्यादि श्रुतियोंके
 अर्थका उपसंहार हो सकेगा । नहीं
 तो सांख्यदर्शन आदिके समान
 अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्माका
 ही दर्शन होगा । ऐसा होनेपर
 ‘अद्वैत है’ इस श्रुतिप्रतिपादित
 विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी;
 क्योंकि सांख्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा
 इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी ।
 परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके
 एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है ।
 इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा-
 का द्युलोक आदिके अंगरूपसे आधि-
 दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व
 प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस-
 का सप्ताङ्गत्व प्रतिपादन उचित ही
 है । इसके सिवा [आत्माकी व्यस्तो-
 पासनाके निन्दक] “तेरा शिर गिर
 जाता” आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैं ।

यहाँ जो विराट्के साथ एकत्व
 प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ
 और अव्याकृतके एकत्वको उपलक्षित

मधुब्राह्मणे “यश्चायमस्यां पृथिव्यां
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय-
मध्यात्मम्” (वृ० उ० २।५।१)
इत्यादि । सुषुप्ताव्याकृतयोस्त्वे-
कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात् ।
एवं च सत्येतत्सिद्धं भविष्यति
सर्वद्वैतोपशमे चाद्वैतमिति ॥ ३ ॥

करानेके लिये है । मधुब्राह्मणमें ऐसा
कहा भी है—“यह जो इस पृथिवीमें
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा
यह जो अध्यात्मपुरुष है [वे दोनों
एक हैं]” इत्यादि । कोई विशेषता
न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष
और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध
ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध
होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति
होनेपर अद्वैत ही है ॥ ३ ॥

—६३—

आत्माका द्वितीय पाद—तैजस

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशति-
मुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अंगोंवाला, उन्नीस
मुखवाला और सूक्ष्म विषयोंका भोक्ता है वह तैजस [इसका] दूसरा पाद है ।

स्वप्नः स्थानमस्य तैजसस्य
स्वप्नस्थानः । जाग्रत्प्रज्ञानेक-
साधना वहिर्विषयेवावभासमाना
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं
संस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा
संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्य-
साधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः

स्वप्न इस तैजसका स्थान है,
इसलिये यह स्वप्नस्थानवाला [कहा
जाता] है । अनेक साधनवती
जाग्रत्कालीना बुद्धि मनका स्फुरण-
मात्र होनेपर भी बाह्यविषय-
सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई
मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती
है । चित्रित वस्त्रके समान इस
प्रकारके संस्कारोंसे युक्त हुआ वह
मन अविद्या कामना और कर्मके
कारण बाह्यसाधनकी अपेक्षाके बिना

प्रेर्यमाणं जाग्रदवभासते । तथा चोक्तम्—“अस्य लोकस्य सर्वावृतो मात्रासपादाय” (वृ० उ० ४।३।९) इति । तथा “परे देवे मनस्येकीभवति” (प्र० उ० ४।२) इति प्रस्तुत्य “अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति” (प्र० उ० ४।५) इत्याथर्वणे ।

इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वान्मनसस्तद्वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्येत्यन्तःप्रज्ञः । विषयशून्यायां केवलप्रकाशस्वरूपायां विषयित्वेन भवतीति तैजसः । विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया भोज्यत्वम् । इह पुनः केवला वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति प्रविविक्तो भोग इति । समानमन्यत् । द्वितीयः पादस्तैजसः ॥४॥

हा प्रेरित होकर जाग्रत्-सा भासने लगता है । ऐसा ही कहा भी है—“इस सर्वसाधन-सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके [स्वप्न देखता है]” इत्यादि । तथा आथर्वगश्रुतिमें भी [समस्त इन्द्रियाँ] “परम (इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट) देव (प्रकाशनशील) मनमें एकरूप हो जाता है” इस प्रकार प्रस्तावनाकर कहा है “यहाँ—स्वप्नावस्थामें यह देव अपनी महिमाका अनुभव करता है ।”

अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन अधिक अन्तःस्थ है, स्वप्नावस्थामें जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की वासनाके अनुरूप रहती है उसे अन्तःप्रज्ञ कहते हैं; वह अपनी विषयशून्य और केवल प्रकाशस्वरूप प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करनेवाला) होनेके कारण ‘तैजस’ कहा जाता है । विश्व वाङ्मविषययुक्त होता है, इसलिये जागरित अवस्थामें स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है । किन्तु तैजसके लिये केवल वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है; इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है । शेष अर्थ पहलेहीके समान है । यह तैजस ही दूसरा पाद है ॥ ४ ॥

दर्शनादर्शनवृत्त्योस्तत्त्वाप्रबोध-
लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्
सुषुप्तिग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादि
विशेषणम् । अथ वा त्रिष्वपि
स्थानेषु तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणः
स्वापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां
सुषुप्तं विभजते—

[तत्त्वज्ञानका अभावरूप] स्वापा-
वस्थाके दर्शन (जाग्रत्स्थान) और
अदर्शन (स्वप्नस्थान) इन दोनों ही
वृत्तियोंमें समान होनेके कारण सुषुप्ति
अवस्थाको [उससे पृथक्] ग्रहण
करनेके लिये 'यत्र सुप्तः' इत्यादि
विशेषण दिये जाते हैं । अथवा तीनों
ही अवस्थाओंमें तत्त्वका अज्ञानरूप
निद्रा समान ही है इसलिये पहले
दो स्थानोंसे सुषुप्तिका विभाग
करते हैं—

आत्माका तृतीय पाद—प्राज्ञ

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन
स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान एकीभूतः
प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता
और न कोई स्वप्न ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं । वह सुषुप्ति जिसका
स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप होता हुआ ही आनन्दमय,
आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखवाला है वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है ॥५॥

यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा
सुप्तो न कञ्चन स्वप्नं पश्यति न
कञ्चन कामं कामयते । न हि
सुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं

जहाँ यानी जिस स्थान अथवा
समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई
स्वप्न देखता और न किसी भोगकी
ही इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्ता-
वस्थामें पहली दोनों अवस्थाओंके
समान अन्यथा ग्रहणरूप स्वप्नदर्शन

स्वप्नदर्शनं कासो वा कश्चन विद्यते ।
तदेतत्सुषुप्तं स्थानमस्येति
सुषुप्तस्थानः ।

स्थानद्वयप्रविभक्तं मनःस्पन्दितं
द्वतजातं तथारूपापरित्या-
गेनाविवेकापन्नं नैशतमोग्रस्तमि-
वाहः सप्रपञ्चमेकीभूतमित्युच्यते ।
अत एव स्वप्नजाग्रन्मनःस्पन्दनानि
प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव-
स्थाविवेकरूपत्वात्प्रज्ञानघन
उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन
तमसाविसृज्यमानं सर्वं घनमिव
तद्वत्प्रज्ञानघन एव । एवशब्दान्न
जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेणा-
स्तीत्यर्थः ।

मनसो विषयविषय्याकार-
स्पन्दनायासद्दुःखाभावादानन्द-
स्य आनन्दप्रायो नानन्द एव ।

अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं
होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही
जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान
कहते हैं ।

जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे
दिन आच्छादित हो जाता है उसी
प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न
रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फुरण-
रूप द्वैतसमूह [इस अवस्थामें] प्रपञ्च-
के सहित अपने उस (विशिष्ट) स्वरूप-
का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित
हो जाता है; इसलिये इसे 'एकीभूत'
ऐसा कहा जाता है । अतः जिस
अवस्थामें स्वप्न और जाग्रत्—ये मनके
स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो
जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेक-
रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही
जाती है । जिस प्रकार रात्रिमें
रात्रिके अन्धकारसे पृथक्त्वकी प्रतीति
न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च
घनीभूत-सा जान पड़ता है उसी
प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है । 'एव'
शब्दसे यह तात्पर्य है कि उस
समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य
जाति नहीं रहती ।

मनका जो विषय और विषयी-
रूपसे स्फुरित होनेके आयासका
दुःख है उसका अभाव होनेके
कारण यह आनन्दमय अर्थात्
आनन्दबहुल है; केवल आनन्दमात्र

अनात्यन्तिकत्वात् । यथा लोके
निरायासस्थितः सुख्यानन्द-
भुगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा
हीयं स्थितिरनेनानुभूयत इत्या-
नन्दमुक्, “एषोऽस्य परम
आनन्दः” (वृ० उ० ४ । ३ ।
३२) इति श्रुतेः ।

स्वप्नादिप्रतिबोधचेतः प्रति
द्वारीभूतत्वाच्चेतोमुखः । बोध-
लक्षणं वा चेतो द्वारं मुखमस्य
स्वप्नाद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः ।
भूतभविष्यज्ज्ञातृत्वं सर्वविषय-
ज्ञातृत्वमस्यैवेति प्राज्ञः । सुषुप्तोऽपि
हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते ।
अथ वा प्राज्ञसिमात्रमस्यैवासा-
धारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो-
र्विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति । सोऽयं
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है;
जिस प्रकार लोकमें अनायासरूपसे
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग
करनेवाला कहा जाता है, उसी
प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह
आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा
स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये
यह आनन्दमुक् कहा जाता है;
जैसा कि “यह इसका परम आनन्द
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

स्वप्नादिज्ञानरूप चेतनाके प्रति
द्वारस्वरूप होनेके कारण यह
चेतोमुख है । अथवा स्वप्नादिकी
प्राप्तिके लिये ज्ञानस्वरूप चित्त ही
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये
यह चेतोमुख है । भूत-भविष्यत्का
तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही
है, इसलिये यह प्राज्ञ है ।
सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे
‘प्राज्ञ’ कहा जाता है । अथवा
केवल प्राज्ञप्ति (ज्ञान) मात्र इसीका
असाधारणरूप है, इसलिये यह
प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंको (विश्व
और तैजसको) तो विशिष्ट विज्ञान
भी होता है । वह यह प्राज्ञ ही
तीसरा पाद है ॥ ५ ॥

प्राज्ञका सर्वकारणत्व

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनिः
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥६॥

यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान होनेके कारण यह सबका कारण भी है ॥ ६ ॥

एष हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः
साधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्ये-
शिता नैतस्माज्जात्यन्तरभूतोऽ-
त्येषामिह । “प्राणबन्धनं हि
सोम्य मनः” (छा० उ० ६ । ८ ।
२) इति श्रुतेः । अयमेव हि सर्वस्य
सर्वभेदावस्थो ज्ञातेत्येष सर्वज्ञः ।
एषोऽन्तर्याम्यन्तरनुप्रविश्य सर्वेषां
भूतानां नियन्ताप्येष एव । अत
एव यथोक्तं सभेदं जगत्प्रसूयत
इत्येष योनिः सर्वस्य । यत् एव
प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवाप्ययौ हि
भूतानामेष एव ॥ ६ ॥

अपने स्वरूपमें स्थित यह (प्राज्ञ) ही सर्वेश्वर है, अर्थात् अधिदैविके सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईश्वर— ईशान (शासन) करनेवाला है । “हे सोम्य ! यह मन (जीव) प्राण (प्राणसंज्ञक ब्रह्म) रूप बन्धनवाला है” इस श्रुतिसे अन्य मतावलम्बियोंके सिद्धान्तानुसार [सर्वज्ञ परमेश्वर] इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ नहीं है । सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ यही सबका ज्ञाता है; इसलिये यह सर्वज्ञ है । [अतएव] यह अन्तर्यामी है अर्थात् समस्त प्राणियोंके भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन करनेवाला भी यही है । इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा जगत् उत्पन्न होता है; इसलिये यही सबका कारण है । क्योंकि ऐसा है, इसलिये यही समस्त प्राणियोंका उत्पत्ति और लयस्थान भी है ॥६॥

एक ही आत्माके तीन भेद

अत्रैते श्लोका भवन्ति—

इसी अर्थमें ये श्लोक हैं—

अत्रैतस्मिन्यथोक्तेऽर्थ एते | यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये श्लोक
श्लोका भवन्ति । हैं—

बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः ।

घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १ ॥

विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ (प्रज्ञानघन) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥१॥

बहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण | बहिष्प्रज्ञ इत्यादि । इस श्लोकका
त्रिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन
प्रतिसन्धानाच्च स्थानत्रयव्यतिरि- स्थानोंवाला होनेसे और 'मैं वही हूँ'
क्तत्वमेकत्वं शुद्धत्वमसङ्गत्वं च इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान
सिद्धमित्यभिप्रायः। महामत्स्यादि- किया जानेके कारण आत्माका तीनों
दृष्टान्तश्रुतेः ॥ १ ॥ स्थानोंसे पृथक्त्व, एकत्व, शुद्धत्व
और असंगत्व सिद्ध होता है, जैसा
कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन
करनेवाली श्रुति * बतलाती है ॥१॥

* जिस प्रकार किसी नदीमें रहनेवाला कोई बलवान् मत्स्य उसके प्रवाहसे विचलित न होकर उसके दोनों तटोंपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन तटोंसे पृथक् होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी आकाशमें स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न और जाग्रत् दोनों स्थानोंमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असंग और शुद्ध है— ऐसा मानना उचित ही है । (देखिये वृ० उ० ४।३।१८, १९)

विश्वादिके विभिन्न स्थान

जागरितावस्थायामेव विश्वा-
दीनां त्रयाणामनुभवप्रदर्शनार्थोऽ-
यं श्लोकः—

जाग्रत् अवस्थामें ही विश्व आदि
तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये
यह श्लोक कहा जाता है—

दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः ।

आकाशे च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २ ॥

दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, प्राज्ञ हृदयाकाशमें उपलब्ध होता है । इस प्रकार यह [एक ही आत्मा] शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित है ॥ २ ॥

दक्षिणमक्ष्येव मुखं तस्मिन्
प्राधान्येन द्रष्टास्थूलानां विश्वोऽ-
नुभूयते । “इन्धो ह वै नामैष
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः” (वृ०
उ० ४ । २ । २) इति श्रुतेः ।
इन्धो दीप्तिगुणो वैश्वानरः ।
आदित्यान्तर्गतो वैराज आत्मा
चक्षुषि च द्रष्टैकः ।

दक्षिण नेत्र ही मुख (उपलब्धि-
का स्थान) है; उसीमें प्रधानतासे
स्थूल पदार्थोंके साक्षी विश्वका
अनुभव होता है । “यह जो दक्षिण
नेत्रमें स्थित पुरुष है ‘इन्ध’ नामसे
प्रसिद्ध है” इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित
होता है । दीप्तिगुणविशिष्ट वैश्वानरको
‘इन्ध’ कहते हैं । आदित्यान्तर्गत
वैराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोंमें स्थित
साक्षी—ये दोनों एक ही हैं ।

नन्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो
दक्षिणेऽक्षण्धक्षोर्नियन्ता द्रष्टा
चान्यो देहस्वामी ।

शंका—हिरण्यगर्भ अन्य है तथा
दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका
नियन्ता और साक्षी देहका स्वामी
क्षेत्रज्ञ अन्य है । [उन दोनोंकी
एकता कैसे हो सकती है ?]

१. जो जागरित अवस्थामें स्थूल पदार्थोंका भोक्ता होनेके कारण इन्द्र-दीप्त
होता है ।

न, स्वतो भेदानभ्युपगमात् ।
 “एको देवः सर्वभूतेषु शूढः”
 (श्वे० उ० ६ । ११) इति
 श्रुतेः । “क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि
 सर्वक्षेत्रेषु भारत” (गीता १३ ।
 २) “अविभक्तं च भूतेषु विभक्त-
 मित्र च स्थितम्” (गीता १३ ।
 १६) इति स्मृतेः । सर्वेषु करणे-
 ष्वविशेषेऽपि दक्षिणाक्षण्युप-
 लब्धिपाटवदर्शनाच्चत्र विशेषेण
 निर्देशो विश्वस्य ।

दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्ट्वा नि-
 मोलिताक्षस्तदेव स्मरन्मनस्यन्तः-
 स्वप्न इव तदेव वासनारूपाभि-
 व्यक्तं पश्यति । यथात्र तथा
 स्वप्ने । अतो मनस्यन्तस्तु तैजसो-
 ऽपि विश्व एव ।

आकाशे च हृदि स्मरणाख्य-
 व्यापारीपरमे प्राज्ञ एकीभूतो

समाधान—नहीं [ऐसी बात
 नहीं है], क्योंकि उनका सामाविक
 भेद नहीं माना गया, क्योंकि
 “सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा
 हुआ है” इस श्रुतिसे तथा “हे भारत !
 समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान”
 “[यह वस्तुतः] विभक्त न होकर
 भी विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि
 स्मृतियोंसे भी [यही बात सिद्ध
 होती है] । सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें समान-
 रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण
 नेत्रमें उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता
 देखनेसे वहाँ विश्वका विशेषरूपसे
 निर्देश किया जाता है ।

दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप-
 को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें
 उसीका स्मरण करता हुआ वासना-
 रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका स्वप्नमें
 उपलब्धिकी तरह दर्शन करता है ।
 जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है,
 ठीक वैसा ही स्वप्नमें होता है ।
 [इसलिये यह जाग्रतमें स्वप्न ही है]
 अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी
 विश्व ही है ।

तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त
 हो जानेपर हृदयाकाशमें स्थित प्राज्ञ
 मनोव्यापारका अभाव हो जानेके

घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापारभावात् । दर्शनस्मरणे एव हि मनःस्पन्दिते; तदभावे हृद्येवाविशेषेण प्राणात्मनावस्थानम् । “प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृड्क्ते” (छा० उ० ४।३।३) इति श्रुतेः । तैजसो हिरण्यगर्भो मनःस्थत्वात् । “लिङ्गं मनः” (वृ० उ० ४।४।६) । “मनोमयोऽयं पुरुषः” (वृ० उ० ५।६।१) इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते ।

तदात्मकानि करणानि भवन्ति ।

ऋथमव्याकृतता ?

कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही हो जाता है । दर्शन और स्मरण ही मनका स्फुरण हैं, उनका अभाव हो जानेपर जो जीवका हृदयके भीतर ही निर्विशेष प्राणरूपसे स्थित होना है [वही जाग्रतमें सुषुप्ति है] । “प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन कर लेता है” इस श्रुतिसे यहाँ प्रमाणित होता है । मनःस्थित होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ है ।* “[सत्रह अवयववाला] लिङ्गरूप मन” “यह पुरुष मनोमय है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी [तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता सिद्ध होती है] ।

शंका—सुषुप्तिमें भी प्राण तो व्याकृत (विशेषभावपन्न) ही होता है † तथा [‘प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृड्क्ते’ इस श्रुतिके अनुसार] इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही हो जाती हैं । फिर उसकी अव्याकृतता कैसे कही गयी ?

* क्योंकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समष्टि मन तथा समष्टि-व्यष्टिका परस्पर अमेद है ।

†—यहाँ हिरण्यगर्भको ही ‘पुरुष’ कहा गया है ।

‡—क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए लोगोंको वह ऐसा ही दिखायी देता है ।

नैप दोषः, अव्याकृतस्य

देशकालविशेषाभा-
वात् । यद्यपि प्राणा-
भिमाने सति व्या-

कृतत्वं प्राणस्य तथापि पिण्ड-
परिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोधः
प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः
सुषुप्ते परिच्छिन्नाभिमानवताम् ।

यथा प्राणलये परिच्छिन्ना-
भिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा
प्राणाभिमानिनोऽप्यविशेषापचाव-
व्याकृतता समाना प्रसवबीजात्म-
कत्वं च तदध्यक्षश्चैकोऽव्याकृता-
वस्थः । परिच्छिन्नाभिमानिना-
मध्यक्षाणां च तेनैकत्वमिति
पूर्वोक्तं विशेषणमेकीभूतः प्रज्ञान-
घन इत्याद्युपपन्नम् । तस्मिन्नुक्त-
हेतुत्वाच्च ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश-
कालरूप विशेष भावका अभाव होता
है । यद्यपि [जैसा कि खभावस्थामें
होता है] प्राणका अभिमान रहते हुए
तो उसकी व्याकृतता ही तथापि
सुषुप्तावस्थामें प्राणमें पिण्डपरि-
च्छिन्न विशेषका अभिमान [अर्थात्
यह मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण
है—ऐसा अभिमान] नहीं रहता; अतः
परिच्छिन्नदेहाभिमानियोंके लिये भी
उस समय वह अव्याकृत ही है ।

जिस प्रकार प्राणका लय [अर्थात्
मृत्यु] होनेपर परिच्छिन्न देहा-
भिमानियोंका प्राण अव्याकृतरूपमें
रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों-
को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त
होनेपर उसकी अव्याकृतता और
प्रसव-बीजरूपता वैसी ही है । अतः
[अव्याकृत और सुषुप्ति] इन दोनों
अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत
अवस्थामें रहनेवाला एक ही [चेतन
आत्मा] है । परिच्छिन्न देहोंके
अभिमानि और उनके साक्षियोंकी
उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके
लिये] 'एकीभूतः प्रज्ञानघनः' आदि
पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं;
विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि इसमें
[अधिदैव अव्याकृत और अध्यात्म
प्राज्ञकी एकतारूप] उपर्युक्त हेतु
भी विद्यमान है ।

कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य ।

“प्राणश्च न हि सोम्य मनः”
(छा० उ० ६।८।२) इति श्रुतेः ।

ननु तत्र “सदेव सोम्य”
(छा० उ० ६।२।१) इति

प्रकृतं सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम् ।

नैष दोषः, वीजात्मकत्वशु-

प्यभात्सतः । यद्यपि

प्राणशब्दत्वं
बीजात्मकता-
परत्वं

सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यं

तत्र तथापि जीवप्रसव-

वीजात्मकत्वमपरित्य-

ज्यैव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्द-

वाच्यता च । यदि हि निर्वाजरूपं

विदधितं ग्रहाशुष्यत् “नेति

नेति” (दृ० उ० ४।४।२२,

४।५।१५) “यतो वाचो

निवर्तन्ते” (तै० उ० २।९)

“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि-

दितात्” (क्रे० उ० १।३)

इत्यवश्यत् “न सत्तन्नासदुच्यते”

(गीता १३।१२) इति स्मृतेः ।

शंका—किन्तु अव्याकृत ‘प्राण’
शब्दवाच्य कैसे हुआ ?

समाधान—“हे सोम्य ! मन
प्राणके ही अधीन है” इस श्रुतिके
अनुसार ।

शंका—किन्तु वहाँ तो “सदेव
सोम्य” इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्ग-
प्राप्त सद्ब्रह्म ही ‘प्राण’ शब्दका
वाच्य है ।

समाधान—वहाँ यह दोष नहीं
हो सकता, क्योंकि [उस प्रसङ्गमें]
सद्ब्रह्मकी वीजात्मकता स्वीकार की
है । यद्यपि वहाँ ‘प्राण’ शब्दका
वाच्य सद्ब्रह्म है तथापि जीवोंकी
उत्पत्तिकी वीजात्मकताका त्याग
न करते हुए ही उस सद्ब्रह्ममें
प्राणशब्दत्व और ‘सत्’ शब्दका
वाच्यत्व माना गया है । यदि वहाँ
‘सत्’ शब्दसे निर्वाजरह्य कहना
इष्ट हो तो उसे “यह नहीं है,
यह नहीं है” “जहाँसे वाणी लौट
आती है” “वह विदितसे अन्य है
और अविदितसे भी ऊपर है”
इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा
कि “वह न सत् कहा जाता है और
न असत्” इस स्मृतिसे भी सिद्ध
होता है ।

निर्वीजतयैव चेतसति लीनानां
सुपुप्तप्रलययोः पुनरुत्थानानु-
पपत्तिः स्यात् । मुक्तानां च
पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, बीजाभावा-
विशेषात् । ज्ञानदाह्यबीजाभावे च
ज्ञानानर्थक्यप्रसङ्गः । तस्मात्सबीज-
त्वाभ्युपगमेनैव सतः प्राणत्व-
व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व-
व्यपदेशः ।

अत एव “अक्षरात्परतः परः”
(मु० उ० २।१।२) ।
“सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” (मु०
उ० २।१।२) । “यतो
वाचो निवर्तन्ते” (तै० उ० २।
९) । “नेति नेति” (बृ० उ०
४।४।२२) इत्यादिना बीज-
वन्त्वापनयनेन व्यपदेशः ।
तामबीजावस्थां तस्यैव प्राज्ञशब्द-

और यदि वहाँ [‘सत्’
शब्दसे] ब्रह्मका निर्वीजरूपसे
ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति
और प्रलय (मरण) अवस्थामें सत्में
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना [अर्थात्
उत्पन्न होना] सम्भव नहीं होगा तथा
मुक्त पुरुषोंके पुनः उत्पन्न होनेका
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा, * क्योंकि
[मुक्त और सत्में लीन हुए पुरुषोंमें]
बीजत्वका अभाव समान ही है ।
तथा ज्ञानसे दग्ध होनेवाले बीजका
अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका
भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । अतः
सब्रह्मकी सबीजता स्वीकार करके
ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है ।

इसीलिये “वह पर अक्षरसे भी
पर है” “वह वाङ्मय (कार्य) और
अभ्यन्तर (कारण) के सहित
[उनका अधिष्ठान होनेके कारण]
अजन्मा है” “जहाँसे वाणी लौट
आती है” “यह नहीं है यह नहीं
है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा शुद्ध ब्रह्मका
निर्देश बीजवत्त्वका निरास करके
ही किया गया है । उस ‘प्राज्ञ’
शब्दवाच्य जीवकी, देहादिसम्बन्ध
तथा जाग्रत् आदि अवस्थासे रहित,

* क्योंकि निर्वीज ब्रह्ममें लीन हुए मुक्तोंका पुनर्जन्म माना नहीं गया
और यदि उस अवस्थामें भी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्तिये भी
पुनर्जन्म होना मानना पड़ेगा ।

वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध-
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं
पृथग्वक्ष्यति । नीजावस्थापि न
किञ्चिदवेदिपमित्युत्थितस्य
प्रत्ययदर्शनाद्देहेऽनुभूयत एवेति
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते । २।

उस पारमार्थिकी अबीजावस्थाका
तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे ।
बीजावस्था भी जाग्रत् होनेपर 'मुझे
कुछ भी पता नहीं रहा' ऐसी प्रतीति
देखनेसे शरीरमें अनुभव होती ही
है । इसीसे 'वह देहमें तीन प्रकारसे
स्थित है' ऐसा कहा गया है ॥२॥

विश्वादिना त्रिविध भोग

विश्वो हि स्थूलभुङ्नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक् ।

आनन्दभुक्त्या प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥ ३ ॥

विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थोंको ही भोगनेवाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थों-
का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका
तीन तरहका भोग जानो ॥३॥

स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् ।

आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत ॥ ४ ॥

स्थूल पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने-
वाला है तथा आनन्द प्राज्ञकी; इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी
समझो ॥४॥

उक्ताथौ श्लोकौ ॥ ३-४ ॥

इन दोनों श्लोकोंका अर्थ कहा
जा चुका है ॥ ३-४ ॥

त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः ।

वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५ ॥

[जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—इन] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और भोक्ता बतलाये गये हैं—इन दोनोंको जो जानता है, वह [भोगोंको] भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५ ॥

<p>त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्यं भोज्य- मेकं त्रिधाभूतम् । यश्च विश्व- तैजसप्राज्ञाख्यो भोक्तैकः सोऽह- मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानाद्द्रष्टृ- त्वाविशेषाच्च प्रकीर्तितः; यो वेदै- तदुभयं भोज्यभोक्तृतयानेकधा भिन्नं स युञ्जानो न लिप्यते; भोज्यस्य सर्वस्यैकस्य भोक्तृ- भोज्यत्वात् । न हि यस्य यो विषयः स तेन हीयते वर्धते वा; न ह्यग्निः स्वविषयं दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत् ॥ ५ ॥</p>	<p>जाग्रत् आदि तीन स्थानोंमें जो स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन भेदोंमें बँटा हुआ एक ही भोज्य है और 'वह मैं हूँ' इस प्रकार एकरूपसे अनुसंधान किये जाने तथा द्रष्टृत्वमें कोई विशेषता न होनेके कारण विश्व, तैजस और प्राज्ञनामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है— इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों (भोक्ता और भोज्य) को जो जानता है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ताका भोग है । जैसे अग्नि अपने विषय काष्ठादिको जलाकर [न्यूना- धिक नहीं होता अपने स्वरूपमें सदा समान रहता है] उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है वह उस विषयके कारण हास अथवा वृद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥</p>
---	---

प्राण ही सबकी सृष्टि करता है

प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः ।

सर्वं जनयतिः प्राणश्चेतोऽशून्यपुरुषः पृथक् ॥ ६ ॥

यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चैतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको अलग-अलग प्रकट करता है ॥६॥

सतां विद्यमानानां स्वैनाविद्या-
कृतनामरूपमायास्वरूपेण सर्व-
भावानां विश्वतैजसप्राज्ञभेदानां
प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च—
“वन्ध्यापुत्रो न तच्चेन मायया
वापि जायते” इति । यदि
ह्यसतामेव जन्म स्याद्ब्रह्मणो-
ऽव्यवहार्यस्य ग्रहणद्वाराभावाद-
सत्त्वप्रसङ्गः । इष्टं च रज्जुसर्पादी-
नामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां
रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम् । न हि
निरास्पदा रज्जुसर्पमृगानृष्णि-
कादयः क्वचिदुपलभ्यन्ते
केनचित् । यथा रज्ज्वां
प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः
सन्नेवासीत्, एवं सर्वभावा-
नामुत्पत्तेः प्राक्प्राणबीजात्मनैव
सत्त्वम् । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति—
“ब्रह्मैवेदम्” (सु० उ० २।२।११)
“आत्मैवेदमग्र आसीत्” (बृ० उ०
१।४।१) इति ।

सत् अर्थात् अपने अविद्याकृत
नामरूपात्मक मायिक स्वरूपसे
विद्यमान विश्व, तैजस और प्राज्ञ
भेदवाले सम्पूर्ण पदार्थोंकी उत्पत्ति
हुआ करती है । आगे (प्रक० ३ का०
२८ में) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापुत्र
न तो वस्तुतः और न मायासे ही उत्पन्न
होता है ।” यदि असत् (स्वरूपसे
अविद्यमान) पदार्थोंकी ही उत्पत्ति
हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्मको
ग्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे
उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित
हो जाता । अविद्याकृत मायामय
बीजसे उत्पन्न हुए रज्जुसर्पादिकी भी
रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है ।
किती भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसर्प
अथवा मृगानृष्णा आदि कभी नहीं
देखे । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे
पूर्व वह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत् ही
था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी
उत्पत्तिसे पूर्व प्राणात्मक बीजरूपसे
सत् ही थे । इसीसे श्रुति भी कहती
है—“यह ब्रह्म ही है” “पहले यह
आत्मा ही था” इत्यादि ।

सर्वं जनयति प्राणश्चेतो-
 शूनंशव इव रवेश्चिदात्मकस्य
 पुरुषस्य चेतोरुपा जलार्कसमाः
 प्राज्ञतैजसविश्वभेदेन देवतिर्य-
 गादिदेहभेदेषु विभाव्यमाना-
 श्चेतोशवो ये तान्पुरुषः पृथग्विषय-
 भावविलक्षणानग्निविस्फुलिङ्गवत्
 सलक्षणाञ्जलार्कवच्च जीवलक्षणां-
 स्त्वितरान् सर्वभावान् प्राणो
 वीजात्मा जनयति “यथोर्ण-
 नाभिः” (मु० उ० १।१।७) “यथा-
 येः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” (वृ० उ०
 २।१।२०) इत्यादिश्रुतेः ॥६॥

सब पदार्थोंको [वीजरूप] प्राण
 ही उत्पन्न करता है। तथा जो
 जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके
 समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि
 विभिन्न शरीरोंमें प्राज्ञ, तैजस एवं
 विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक
 पुरुषके किरणरूपचिदाभास हैं, उन
 विषयभावसे विलक्षण तथा अग्निकी
 चिनगारी और जलमें प्रतिबिम्बित
 सूर्यके समान सजातीय जीवोंको
 पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है।
 उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों-
 को वीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है,
 जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी
 [जाल बनाती है]” तथा “जैसे
 अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ
 निकलती हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे
 सिद्ध होता है ॥६॥

सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्पः

विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः ।

स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ॥ ७ ॥

सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे लोग भगवान्की विभूतिको
 ही जगत्की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगोंद्वारा यह सृष्टि स्वप्न और
 मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥

विभूतिविस्तार ईश्वरस्य सृष्टि-
 रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न
 तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टावादर-
 इत्यर्थः। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप
 ईयते” (वृ० उ० २।५।१९)
 इति श्रुतेः। न हि मायाविनं
 सूत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन
 नायुधमाह्वय चक्षुर्गोचरतामतीत्य
 युद्धेन खण्डयच्छिन्नं पतितं
 पुनरुत्थितं च पश्यतां तच्छत-
 मायादिसतत्रचिन्तायासादरो
 भवन्ति। तथैवायं मायाविनः सूत्र-
 प्रसारणरूपः सुषुप्तस्वप्नादिविका-
 सस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्यः
 प्राज्ञतैजसादिः। सूत्रतदारूढाभ्या-
 मन्यः परमार्थमायावी स एव
 भूमिष्ठो मायाछन्नोऽदृश्यमान एव
 चिन्तो यथा तथा तुरीयाख्यं

यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी
 उसका विस्तार है—ऐसा सृष्टिके
 विषयमें विचार करनेवाले लोग मानते
 हैं। तात्पर्य यह है कि परमार्थ-
 चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषय-
 में आदर नहीं होता; जैसा कि “इन्द्र
 (परमात्मा) मायासे अनेक रूप-
 वाला हो जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध
 होता है, [केवल वहिर्मुख पुरुरूप ही
 उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह-
 तरहकी कल्पना किया करते हैं]।
 आकाशमें सूत फेंककर उसपर
 शस्त्रोंसहित आरूढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी
 पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा
 अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे
 हुए मायावीको पुनः उठता देखने-
 वाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया
 आदिके स्वरूपके चिन्तनमें आदर
 नहीं होता। उस मायावीके सूत्र-
 विस्तारके समान ही ये सुषुप्ति एवं
 स्वप्नादिके विकास हैं; तथा उस
 (सूत्र) पर चढ़े हुए मायावीके
 समान ही उन (सुषुप्ति आदि
 अवस्थाओं) में स्थित प्राज्ञ एवं
 तैजस आदि हैं। किन्तु वास्तविक
 मायावी तो सूत्र और उसपर चढ़े
 हुए मायावीसे भिन्न है और वही
 जैसे मायासे आच्छादित रहनेके
 कारण दिखलायी न देता हुआ ही
 पृथिवीपर स्थित रहता है वैसा ही

परमार्थतत्त्वम् । अतस्तच्चिन्ताया-
मेवादरो सुसुक्ष्णामार्याणां न
निष्प्रयोजनायां सृष्ट्यावादर इत्यतः
सृष्टिचिन्तकानामेवैते विकल्पा
इत्याह—स्वप्नमायासरूपेति ।
स्वप्नरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥

तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है ।
अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषोंका उसी-
के चिन्तनमें आदर होता है ।
प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आदर
नहीं होता । अतः ये सब विकल्प
सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही
हैं; इसीसे कहा है—'स्वप्नमायासरूपा
इति' अर्थात् [दूसरे इसे] स्वप्नरूपा
और मायारूपा [बतलाते हैं] ॥७॥

इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः ।

कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ ॥

कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा ही सृष्टि है ।' तथा कालके विषयमें विचार करनेवाले [ज्योतिषी लोग] कालसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८ ॥

इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकल्प-
त्वात्सृष्टिर्घटादिः संकल्पनामात्रं
न संकल्पनातिरिक्तम् । कालादेव
सृष्टिरिति केचित् ॥८॥

भगवान् सत्यसंकल्प हैं; अतः
घटादिकी सृष्टि प्रभुका संकल्पमात्र
है—उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है ।
तथा कोई-कोई 'सृष्टि कालहीसे हुई
है' ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे ।

देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ ९ ॥

कुछ लोग 'सृष्टि भोगके लिये है' ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रीडाके लिये है' ऐसा समझते हैं । [परन्तु वास्तवमें तो] यह भगवान्का स्वभाव ही है क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकती है? ॥ ९ ॥

भोगार्थं क्रीडार्थमिति चान्ये
सृष्टिं मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो-
र्दूषणं देवस्यैव स्वभावोऽयमिति
देवस्य स्वभावपक्षदाश्रित्य, सर्वेषां
वा पक्षाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति ।
न हि रज्ज्वादीनामधिद्यास्वभाव-
व्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे
कारणं शक्यं वक्तुम् ॥९॥

दूसरे लोग सृष्टिको 'यह भोगार्थ
अथवा क्रीडार्थ है'—ऐसा मानते हैं ।
'देवस्यैव स्वभावोऽयम्' इस वाक्यसे
देवके स्वभावपक्षका आश्रय लेकर
इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतलाते
हैं । अथवा 'आप्तकामस्य का स्पृहा'
यह चौथा पाद सभी पक्षोंको दोष-
युक्त बतलानेवाला है; क्योंकि
अविचारूप अपने स्वभावके विना
रज्जु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति-
में कारणत्व नहीं बतलाया जा
सकता ॥ ९ ॥

चतुर्थ पादका विवरण

चतुर्थः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य
इत्याह—नान्तःप्रज्ञमित्यादिना ।
सर्वशब्दप्रवृत्तिनिमित्तशून्यत्वा-
त्तस्य शब्दानभिधेयत्वमिति
विशेषप्रतिषेधेनैव च तुरीयं
निर्दिदिक्षति ।

शून्यमेव तर्हि तत् ।

नः मिथ्याविकल्पस्य

अत्र क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा
पाद भी बतलाना है, अतः यही
वात 'नान्तःप्रज्ञम्' इत्यादि मन्त्रसे
कहते हैं । वह (चौथा पाद)
सम्पूर्ण शब्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहित
है, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं
किया जा सकता । इसलिये श्रुति
[अन्तःप्रज्ञत्व आदि] विशेष भावका
प्रतिषेध करके ही उस तुरीयका
निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है ।

पूर्व०—तव तो वह शून्यरूप ही
हुआ ।

सिद्धान्ती—नहीं; क्योंकि मिथ्या

निनिमित्तत्वानुपपत्तेः । न हि रजतसर्पपुरुषमृगतृष्णिकादिविकल्पाः शुक्तिकारञ्जुस्थानूपरादिव्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः कल्पयितुम् ।

एवं तर्हि प्राणादिसर्वविकल्पास्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम् इति न प्रतिषेधैः प्रत्याग्र्यत्वम् उदकाधारादेश्च घटादेः ।

नः प्राणादिविकल्पस्यासत्त्वाच्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । न हि सदसतोः सम्बन्धः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात् । नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत् ; आत्मनो निरुपाधिकत्वात् । गवादिवन्नापि जातिमन्त्रमद्वितीयत्वेन सामान्यविशेषाभावात् । नापि क्रियावत्त्वं पाचकादिवदविक्रियत्वात् ।

विकल्पका विना किसी निमित्तके होना सम्भव नहीं है । चाँदी, सर्प, पुरुष और मृगतृष्णा आदि विकल्प [क्रमशः] सीपी, रस्सी, ठूँठ और ऊसर आदिके विना निराश्रय ही कल्पना नहीं किये जा सकते ।

पूर्व०—यदि ऐसी बात है तब तो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका आश्रय होनेके कारण वह तुरीय शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जलके आधारभूत घट आदिके समान [अन्तःप्रज्ञत्वादिके] प्रतिषेधद्वारा उसकी प्रतीति नहीं करायी जा सकती ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है; क्योंकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होनेवाली चाँदी आदिके समान प्राणादि विकल्प असद्रूप है । तथा सत् और असत्का सम्बन्ध अवस्तरूप होनेके कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं हो सकता; और न गौ आदिके समान वह स्वरूपसे किसी अन्य प्रमाणका ही विषय हो सकता है, क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है । इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके कारण सामान्य अथवा विशेष भावका अभाव होनेसे उसमें गौ आदिके समान जातिमत्त्व भी नहीं है । और न अधिकारी होनेके कारण उसमें पाचकादिके समान क्रियावत्त्व तथा

नापि गुणवत्त्वं नीलादिव-
न्निर्गुणत्वात् । अतो नाभिधानेन
निर्देशमर्हति ।

शशत्रिपाणादिसमत्वान्निरर्थ-
कत्वं तर्हि ।

न; आत्मत्वावगमे तुरीय-
स्यानात्मतृष्णाव्या-
वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति-
कावगम इव रजत-
तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्म-
त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदो-
षाणां सम्भवोऽस्ति । न च तुरीयस्या-
त्मत्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो-
पनिषदां तादर्थ्येनोपक्षयात् ।
“तत्त्वमसि” (छा० उ० ६।८-१६) ।
“अयमात्मा ब्रह्म” (वृ० उ० २।
५।१९) । “तत्सत्यं स
आत्मा” (छा० उ० ६।८।१६)
“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म” (वृ०
उ० ३।४।१) । “सत्राह्या-
भ्यन्तरो ह्यजः” (मु० उ० २।
१।२) । “आत्मैवेदं सर्वम्”
(छा० उ० ७।२५।२)
इत्यादीनाम् ।

निर्गुण होनेके कारण नीलता आदि-
के समान गुणवत्त्व ही है । इसलिये
उसका किसी भी नामसे निर्देश
नहीं किया जा सकता ।

पूर्व०—तत्र तो शशशृङ्गादिके
समान [असद्रूप होनेके कारण]
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है ।

सिद्धान्ती—नहीं; क्योंकि शुक्तिका
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [उस-
में आरोपित] चाँदीकी तृष्णा नष्ट
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा
आत्मा है—ऐसा ज्ञान होनेपर वह
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त
करनेका कारण होता है । तुरीयको
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या एवं
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं
रहती । और तुरीयको अपने आत्म-
स्वरूपसे न जाननेका कोई कारण भी
नहीं है, क्योंकि “तत्त्वमसि” “अय-
मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्यं स आत्मा”
“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म” “स-
त्राह्याभ्यन्तरो ह्यजः” “आत्मैवेदं
सर्वम्” इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्यों-
का पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है ।

सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थ-
रूपश्चतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थ-
रूपमविद्याकृतं रज्जुसर्पादि-
सममुक्तं पादत्रयलक्षणं वीजाङ्-
कुरस्थानीयम् । अथेदानीम-
वीजात्मकं परमार्थस्वरूपं रज्जु-
स्थानीयं सर्पादिव्यानीयोक्तस्थान-
त्रयनिराकरणेनाह—नान्तःप्रज्ञ-
मित्यादि ।

वह यह आत्मा परमार्थ और
अपरमार्थरूपसे चार पादवाला है—
ऐसा कहा है । उसका वीजाङ्कुर-
स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ-
रूप रज्जुसर्पादिके समान अविद्या-
जनित कहा गया है । अब सर्पादि-
स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा-
करणकर 'नान्तःप्रज्ञम्' इत्यादि
रूपसे उसके रज्जुस्थानीय
अवीजात्मक परमार्थस्वरूपका वर्णन
करते हैं—

तुरीयका स्वरूप

नान्तःप्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञान-
घनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यम-
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो-
पशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा
स विज्ञेयः ॥७॥

[त्रिवेकीजन] तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःप्रज्ञ है, न वहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः (अन्तर्वहिः) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है, और न अप्रज्ञ है । बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव और अद्वैतरूप है । वही आत्मा है और वही साक्षात् जाननेयोग्य है ॥७॥

नन्वात्मनश्चतुष्पात्त्वं प्रतिज्ञाय
पादत्रयकथनेनैव चतुर्थस्थान्तः-

पूर्व—किन्तु आत्मा चार पादों-
वाला है—ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके
तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही

प्रज्ञादिभ्योऽन्यत्वे सिद्धे नान्तः-
प्रज्ञमित्यादिप्रतिषेधोऽनर्थकः ।

न; सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनैव

आत्मावगतौ
अनात्मप्रतिषेध
एव प्रमाणम्

रज्जुस्वरूपप्रतिपत्ति-

वत्त्रयवस्थस्यैवात्म-

नस्तुरीयत्वेन प्रति-

पिपादयिषितत्वात्;

तत्त्वमसीतिवत् । यदि हि त्रयव-

स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्प्र-

तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्त्रोपदेशा-

नर्थक्यं शून्यतापत्तिर्वा ।

रज्जुरिव सर्पादिभिर्विकल्प-

माना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तः-

प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते यदा

तदान्तःप्रज्ञत्वादिप्रतिषेधविज्ञान-

प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनर्थप्रप-

ञ्चनिवृत्तिलक्षणफलं परिसमाप्तम्,

इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं

साधनान्तरं वा नः सृग्यम् ।

चौथे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों-
से भिन्न होना तो सिद्ध ही है; अतः
यह “नान्तःप्रज्ञम्” इत्यादि प्रतिषेध
तो व्यर्थ ही है ।

सिद्धान्तां—ऐसी बात नहीं है;
क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प-
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके
स्वरूपका ज्ञान हो जाता है उसी
प्रकार, जैसा कि “तत्त्वमसि” इत्यादि
वाक्यमें देखा जाता है, यहाँ
[जाग्रदादि] तीनों अवस्थाओंमें स्थित
आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन
करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा
अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा
भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका
कोई उपाय न रहनेके कारण
शास्त्रोपदेशकी व्यर्थता अथवा
शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब
कि सर्पादि (सर्प, धारा, भूच्छिद्रादि)
रूपसे विकल्पित रज्जुके समान
[जाग्रदादि] तीनों स्थानोंमें एक ही
आत्मा अन्तःप्रज्ञादिरूपसे विकल्पित
हो रहा है तब तो अन्तःप्रज्ञत्वादिके
प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति-
के समकाल ही आत्मामें अनर्थ-
प्रपञ्चकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध हो
जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार
करनेके लिये इसके सिवा किसी
अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज
करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे

रज्जुगोपिविवेकसमकाल इव कि रज्जु और सर्पका विवेक होनेके
 रज्ज्वां सर्पनिवृत्तिफले सति समानकालमें ही रज्जुमें सर्पनिवृत्ति-
 रज्ज्वधिगमस्य । रूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुका
 ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहाँ
 समझना चाहिये] ।

येषां पुनस्तमोऽप्यन्यव्यतिरेकेण किन्तु जिनके मतमें घटज्ञानमें
 घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते अन्धकारकी निवृत्तिके सिवा किसी
 तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग- और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति
 व्यतिरेकेणान्यतरावयवोपि- होती है उनका तो मानों ऐसा कथन
 छिदिद्विर्याप्रियत इत्युक्तं स्यात् । है कि छेद्य पदार्थोंके अवयवोंका
 सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी
 छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक
 अवयवमें कोई व्यापार होता है ।*

यदा पुनर्वटतमसोर्विवेककरणे छेद्य^१ अवयवोंका सम्बन्धच्छेद
 प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादित्सिततमो- करनेमें प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस
 निवृत्तिफलावसानं छिदिद्विर्य- प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त
 च्छेद्यावयवसम्बन्धविवेककरणे हो जानेमें समाप्त होनेवाली
 प्रवृत्ता तदवयवद्वैधीभावफला- है उसी प्रकार जब कि घट
 और अन्धकारका पार्थक्य करनेमें
 प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी

* तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान
 प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी
 क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें
 आरोपित अन्तःप्रगल्वादि का निषेध ही कर्त्तव्य है। जो लोग घटज्ञानमें अन्धकार-
 निवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई और व्यापार भी स्वीकार करते
 हैं वे मानों ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदार्थके अवयवोंका सम्बन्धच्छेद
 करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमें कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्तु
 यह वात सर्वसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविच्छेदणके सिवा कोई अन्य
 व्यापार नहीं होता। इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है।

१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो

वसाना तदा नान्तरीयकं घट-
विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम् ।

न च तद्वदप्यात्मन्यध्यारो-
पितान्तःप्रज्ञत्वादिविवेककरणे
प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य
अनुपादित्सितान्तःप्रज्ञत्वादिनि-
वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो-
पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि-
वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि-
भेदनिवृत्तेः । तथा च वक्ष्यति—
“ज्ञाते द्वैतं न विद्यते” (माण्डू०
का० १ । १८) इति । ज्ञानस्य
द्वैतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा-
न्तरानवस्थानात् । अवस्थाने
चानवस्थाप्रसङ्गाद्द्वैतानिवृत्तिः ।

निवृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जाने-
वाला है तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी
है, वह प्रमाणका फल नहीं है ।

उसीके समान आत्मामें आरोपित
अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका,
अनुपादित्सित (जिसका स्वीकार
करना इष्ट नहीं है उस) अन्तःप्रज्ञत्वादि-
की निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मामें
कोई अन्य व्यापार होना सम्भव
नहीं है, क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातृत्वादि
भेदकी निवृत्ति हो जाती है । ऐसा
ही “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं
रहता” इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति
द्वैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे
क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग*
उपस्थित हो जानेसे द्वैतकी निवृत्ति

कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये—
ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं ।

* अद्वैत-बोधके लिये जिन-जिन प्रमाणोंका आश्रय लिया जाता है वे
सब द्वैतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं । निखिलद्वैतकी निवृत्ति करनेवाला वृत्तिज्ञान भी
वृत्तिरूप होनेके कारण द्वैतके ही अन्तर्गत है । यदि वह सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति
करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिके लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपेक्षा होगी
और उसके लिये किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो
जायगा और द्वैतकी निवृत्ति कभी न हो पावेगी । इसलिये निखिलद्वैतकी निवृत्ति

तस्मात्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा-

रसमकालैवात्मन्यध्यारोपितान्तः-

प्रज्ञत्वाद्यनर्थनिवृत्तिरिति सिद्धम्।

नान्तःप्रज्ञमिति तैजसप्रतिषेधः।

न बहिष्प्रज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः।

नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्स्वभयोः

अन्तरालावस्थाप्रतिषेधः। न

प्रज्ञानघनमिति सुषुप्तावस्थाप्रति-

षेधः। वीजभावाविवेकरूपत्वात्।

न प्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयप्रज्ञा-

तृत्वप्रतिषेधः। नाप्रज्ञमित्य-

चैतन्यप्रतिषेधः।

कथं पुनरन्तःप्रज्ञत्वादीना-

मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादौ

सर्पादिवत्प्रतिषेधादसत्त्वं गम्यत

इत्युच्यते। ज्ञस्वरूपाविशेषेऽपि

ही नहीं होगी। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनर्थकी निवृत्ति हो जाती है।

‘अन्तःप्रज्ञ नहीं है’ ऐसा कहकर तैजसका प्रतिषेध किया है; ‘बहिष्प्रज्ञ नहीं है’ इससे विश्वका निषेध किया है; ‘उभयतःप्रज्ञ नहीं है’ इस वाक्यसे जाग्रत् और स्वप्नके बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है; ‘प्रज्ञानघन नहीं है’ इससे सुषुप्तिका प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज-भावमय-अविवेकस्वरूपा है; ‘प्रज्ञ नहीं है’ इससे एक साथ सब विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है; तथा ‘अप्रज्ञ नहीं है’ इससे अचेतनताका निषेध किया है।

किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि धर्म आत्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं तो केवल प्रतिषेधके ही कारण उनका रज्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्पादिके समान असत्यत्व कैसे सिद्ध हो सकता है? इसपर कहते हैं— रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प,

करनेके उत्तर-क्षणमें ही वृत्तिज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है—यही मत समीचीन है।

इतरेतरव्यभिचाराद्रज्ज्यादात्रिव
सर्षधारादिविकल्पितभेदवत्
सर्वत्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य
सत्यत्वम् ।

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न ।
सुषुप्तस्थानुभूयमानत्वात् । “न
हि विज्ञानुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो
विद्यते” (बृ० उ० ४।३।३०)
इति श्रुतेः ।

अत एवादृष्टम् । यस्माददृष्टं
तस्मादव्यवहार्यम् । अग्राह्यं कर्म-
न्द्रियैः । अलक्षणमलिङ्गमित्येतद-
ननुमेयमित्यर्थः । अत एवा-
चिन्त्यम् । अत एवाव्यपदेश्यं
शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसारं
जाग्रदादिस्थानेष्वेकोऽयमात्मेत्य-
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु-
सरणीयम् । अथ वैक आत्मप्रत्ययः

धारा आदि विकल्पभेदोंके समान
उनके चित्स्वरूपमें कोई भेद न
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका
व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रूप
हैं । किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी
व्यभिचार नहीं है; इसलिये वह
सत्य है ।

यदि कहो कि सुषुप्तिमें उसका
व्यभिचार होता है तो ऐसा कहना
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिका
भी अनुभव हुआ करता है; जैसा कि
“विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप नहीं
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

इसीलिये वह अदृश्य है । और
क्योंकि अदृश्य है इसलिये अव्यवहार्य
है तथा कर्मन्द्रियोंसे अग्राह्य और
अलक्षण यानी लिङ्गरहित है ।
तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह
अचिन्त्य है अतएव शब्दोंद्वारा
अकथनीय है । वह एकात्मप्रत्ययसार
है । अर्थात् जाग्रत् आदि स्थानोंमें
एक ही आत्मा है—ऐसा जो
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे
अनुसरण किये जाने योग्य है ।

सारं प्रमाणं यत्तुरीयस्याधिगमे
तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम् ।
“आत्मेत्येवोपासीत” (वृ० उ०
१ । ४ । ७) इति श्रुतेः ।

अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधर्म-

प्रतिषेधः कृतः । प्रपञ्चोपशममिति

जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते ।

अत एव शान्तमविक्रियम्,

शिवं यतोऽद्वैतं भेदविकल्प-

रहितम् । चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते;

प्रतीयमानपादत्रयरूपवैलक्षण्यात् ।

स आत्मा स विज्ञेय इति

प्रतीयमानसर्पभूच्छिद्रदण्डादिव्य-

तिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा

तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थ आत्मा

“अदृष्टो द्रष्टा” (वृ० उ० ३ । ७ ।

२३) “न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो

विद्यते” (वृ० उ० ४ । ३ । २३)

इत्यादिभिरुक्तो यः । स विज्ञेय

अथवा “आत्मा है—इस प्रकार ही
उपासना करे” इस श्रुतिके अनुसार
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें
एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण
है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है ।


अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियों (जाग्रत्
आदि अवस्थाओंके अभिमानियों)
के धर्मोंका प्रतिषेध किया गया,
अब ‘प्रपञ्चोपशमम्’ इत्यादिसे
जाग्रत् आदि स्थानों (अवस्थाओं) के
धर्मोंका अभाव बतलाया जाता
है । इसीलिये वह शान्त यानी
अधिकारी है; और क्योंकि वह अद्वैत
अर्थात् भेदरूप विकल्पसे रहित है,
इसलिये शिव है । उसे चतुर्थ यानी
तुरीय मानते हैं; क्योंकि यह प्रतीत
होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण
है । वही आत्मा है और वही
ज्ञातव्य है । अतः जिस प्रकार रज्जु
अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड
और भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न है
उसी प्रकार ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि
वाक्योंका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका
कि “अदृश्य होकर भी देखनेवाला है”
“द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता”
इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया है,
[अपनेमें अद्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं-
से सर्वथा भिन्न है] । वही ज्ञातव्य है

इति भूतपूर्वगत्याः

ज्ञाते

—ऐसा भूतपूर्वगतिसे* कहा जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर द्वैतका अभाव हो जाता है ॥ ७ ॥

द्वैताभावः ॥ ७ ॥



तुरीयका प्रभाव

अत्रैते श्लोका भवन्ति—

इसी अर्थमें ये श्लोक हैं—

निवृत्ते सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः ।

अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः ॥ १० ॥

तुरीय आत्मा सत्र प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान—प्रभु (समर्थ) है । वह अविकारी, सत्र पदार्थोंका अद्वैतरूप, देव, तुरीय और व्यापक माना गया है ॥ १० ॥

प्राज्ञतैजसविश्वलक्षणानां

सर्वदुःखानां निवृत्तेरीशानस्तुरीय आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं प्रभुरिति । दुःखनिवृत्तिं प्रति प्रभुर्भवतीत्यर्थः । तद्विज्ञान-निमित्तत्वाद्दुःखनिवृत्तेः ।

अव्ययो न व्येति स्वरूपान्न

व्यभिचरतीति यावत् । एतत्कृतः

यस्मादद्वैतः । सर्वभावानां रज्जु-

तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान है । 'ईशान' इस पदकी व्याख्या 'प्रभु' है । तात्पर्य यह है कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति-का कारण है ।

अव्यय—जो व्यय (विकार) को प्राप्त नहीं होता; अर्थात् जो स्वरूपसे व्यभिचरित यानी च्युत नहीं होता । क्यों च्युत नहीं होता ? क्योंकि वह अद्वैत है । अन्य सब

* अर्थात् अविद्यावस्थामें आत्मामें जो ज्ञेयत्व मान रखा था उसीका आश्रय लेकर तुरीयको 'ज्ञातव्य' कहा जाता है । वास्तवमें तो जो अव्यवहार्य और अप्रमेय है उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता ।

<p>सर्पवन्मृपात्वात्स एष देवो द्योतनात्तुरीयश्चतुर्थो विभुर्व्यापी स्मृतः ॥१०॥</p>	<p>पदार्थ रज्जुमें अध्यक्ष सर्पके समान मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील होनेके कारण वह यह देव तुर्य यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक माना गया है ॥ १० ॥</p>
--	---



विश्व और तैजससे तुरीयिका भेद

<p>विश्वादीनां सामान्यविशेष- भावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या- वधारणार्थम्—</p>	<p>तुरीयिका यथार्थ स्वरूप समझनेके लिये विश्व आदिके सामान्य और विशेष भावका निरूपण किया जाता है—</p>
---	--

कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसौ ।


प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ये न सिध्यतः ॥ ११ ॥

विश्व और तैजस—ये दोनों कार्य (फलवस्था) और कारण (बीजावस्था) से बँधे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवल कारणावस्था-से ही बद्ध है । तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं ॥ ११ ॥

<p>कार्यं क्रियत इति फलभावः । कारणं करोतीति बीजभावः । तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां बीजफलभावाभ्यां तौ यथोक्तौ विश्वतैजसौ बद्धौ संगृहीताविष्येते । प्राज्ञस्तु बीजभावेनैव बद्धः ।</p>	<p>जो किया जाय उसे कार्य कहते हैं; वह फलभाव है । और जो करता है उसे कारण कहते हैं; वह बीज- भाव है । ये उपर्युक्त विश्व और तैजस तत्त्वके अग्रहण एवं अन्यथा- ग्रहणरूप बीजभाव और फलभावसे बँधे अर्थात् सम्यक् प्रकारसे पकड़े हुए माने जाते हैं । किन्तु प्राज्ञ केवल बीजभावसे ही बँधा हुआ है ।</p>
--	---

तत्त्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि वीजं
प्राज्ञत्वे निमित्तम् । ततो द्वौ तौ
वीजफलभावौ तत्त्वाग्रहणान्यथा-
ग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न विद्येते
न सम्भवत इत्यर्थः ॥११॥

तत्त्वका अप्रतिबोधरूप वीज ही
उसके प्राज्ञत्वमें कारण है । इससे
तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे वीज
और फलभावरूप तत्त्वका अग्रहण
एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं
रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी
सम्भावना ही नहीं है ॥ ११ ॥



प्राज्ञसे तुरीयका भेद

कथं पुनः कारणवद्भवं प्राज्ञस्य
तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण-
लक्षणौ बन्धौ न सिध्यत इति ।
यस्मात्—

किन्तु प्राज्ञकी कारणवद्धता
किस प्रकार है ? तथा तुरीयमें
तत्त्वका अग्रहण और अन्यथाग्रहण-
रूप बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ?
इसपर कहते हैं, क्योंकि—

नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम् ।

प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक्सदा ॥ १२ ॥

प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वदृक् है ॥ १२ ॥

आत्मविलक्षणमविद्यावीजप्रसृतं
बाह्यं द्वैतं प्राज्ञो न किञ्चन संवेत्ति
यथा विश्वतैजसौ । तत्त्वासाँ तत्त्वा-
ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणवीज-
भूतेन बद्धो भवति । यस्मात्तुरीयं
तत्सर्वदृक्सदा तुरीयादन्यस्या-

प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप वीज-
से उत्पन्न हुए वहिःस्थित वेद्यपदार्थरूप
द्वैतको कुछ भी नहीं जानता, जैसा
कि विश्व और तैजस उसे जानते हैं ।
इसीलिये यह अन्यथाग्रहणके वीज-
भूत तत्त्वाग्रहणरूप अन्धकारसे बँधा
रहता है । और क्योंकि तुरीयसे
भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके

भावात्सर्वदा सदैवेति सर्वं च
तद्दृक्चेति सर्वदृक्त्वस्मान्न
तत्त्वाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र ।
तत्प्रसूतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत
एवाभावो न हि सवितरि सदा
प्रकाशात्मके तद्विरुद्धप्रकाशन-
मन्यथाप्रकाशनं वा सम्भवति ।
“न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते”
(वृ० उ० ४ । ३ । २३) इति
श्रुतेः ।

अथ वा जाग्रत्स्वप्नयोः सर्व-
भूतावस्थः सर्ववस्तुद्वगाभास-
स्तुरीय एवेति सर्वदृक्सदा ।
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ” (वृ०
उ० ३ । ८ । ११) इत्यादि-
श्रुतेः ॥ १२ ॥

कारण वह सदा-सर्वदा सर्वदृक्स्वरूप
ही है—जो सर्वरूप और उसका
साक्षी भी हो उसे ‘सर्वदृक्’ कहते
हैं—इसलिये उसमें तत्त्वका अग्रहण-
रूप बीजावस्था नहीं है और इसी-
लिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाले
अन्यथाग्रहणका भी अभाव है,
क्योंकि सदा प्रकाशस्वरूप सूर्यमें
उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा
अन्यथा-प्रकाशन सम्भव नहीं है,
जैसा कि “द्रष्टाकी दृष्टिका विपरिलोप
नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध
होता है ।

अथवा जाग्रत् एवं स्वप्नावस्थाके
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और समस्त
पदार्थोंके साक्षीरूपसे तुरीय ही
भासमान है इसलिये वह सर्वदा
सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न
और कोई द्रष्टा नहीं है” इस श्रुतिसे
प्रमाणित होता है ॥ १२ ॥



द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः ।

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३ ॥

द्वैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु
प्राज्ञ बीजस्वरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥ १३ ॥

निमित्तान्तरप्राज्ञाशङ्कानि-
वृत्त्यर्थोऽयं श्लोकः । कथं द्वैता-
ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणवद्वत्त्वं
प्राज्ञस्यैव न तुरीयस्येति प्राज्ञा-
शङ्का निवर्च्यते ।

यस्माद्बीजनिद्रायुतस्तत्त्वा-
प्रतिबोधो निद्रा, सैव च विशेष-
प्रतिबोधप्रसवस्य बीजम्; सा
बीजनिद्रा, तथा युतः प्राज्ञः ।
सदा द्वस्वभावत्वात्तत्त्वाप्रति-
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न
विद्यते । अतो न कारणवन्ध-
स्तस्मिन्नित्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

यह श्लोक निमित्तान्तरसे प्राप्त
आशंकाकी निवृत्तिके लिये है ।
भला द्वैताग्रहणकी समानता होनेपर
भी प्राज्ञकी ही कारणवद्धता क्यों
है ? तुरीयकी क्यों नहीं है ?—इस
प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ही
निवृत्त किया जाता है ।

[इसका यह कारण है] क्यों-
कि वह (प्राज्ञ) बीजनिद्रासे युक्त
है—तत्त्वके अज्ञानका नाम निद्रा
है, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका
बीज है; अतः उसे 'बीजनिद्रा'
कहते हैं—प्राज्ञ उससे युक्त है ।
किन्तु सर्वदा सर्वद्वस्वरूप होनेके
कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं
है; अतः उसमें कारणवद्धता नहीं
है—यह इसका तात्पर्य है ॥ १३ ॥

तुरीयका स्वप्न-निद्राशून्यत्व

स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ।

न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः ॥ १४ ॥

त्रिच और तैजस—ये स्वप्न और निद्रासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ स्वप्नरहित
निद्रासे युक्त हैं; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और
न स्वप्न ही ॥ १४ ॥

स्वप्नोऽन्यथाग्रहणं सर्प इव । रज्जुमें सर्प-ग्रहणके समान
रज्ज्वाम् । निद्रोक्ता तत्त्वाप्रति- । अन्यथाग्रहणका नाम स्वप्न है; तथा

बोधलक्षणं तम इति । ताभ्यां
स्वप्ननिद्राभ्यां युक्तौ विश्वतैजसौ ।
अतस्तौ कार्यकारणवद्वावित्युक्तौ ।
प्राज्ञस्तु स्वप्नवर्जितकेवलयैव
निद्रया युत इति कारणवद्
इत्युक्तम् । नोभयं पश्यन्ति तुरीये
निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात्
सवितरीव तमः । अतो न कार्य-
कारणवद् इत्युक्तस्तुरीयः ॥१४॥

तत्त्वके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा कहते हैं । उन स्वप्न और निद्रासे विश्व और तैजस युक्त हैं; अतः वे कार्यकारणवद्द कहें गये हैं । किन्तु प्राज्ञ तो स्वप्नरहित केवल निद्रासे ही युक्त है; इसलिये उसे कारणवद्द कहा है । निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता-लोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके समान वे उससे विरुद्ध हैं । अतः तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँधा हुआ नहीं है—ऐसा कहा गया है ॥ १४ ॥

कदा तुरीये निश्चितो
भवतीत्युच्यते—

अब यह बतलाया जाता है कि मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता है—

अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः ।

विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥ १५ ॥

अन्यथा ग्रहण करनेसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वको न जाननेसे निद्रा होती है । और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥

स्वप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां
सर्प इव गृह्णतस्तत्त्वं स्वप्नो भवति ।

निद्रा तत्त्वमजानतस्तिष्ठ-

रज्जुमें सर्पग्रहणके समान स्वप्न और जागरित अवस्थाओंमें तत्त्वके अन्यथाग्रहणसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वके न जाननेसे निद्रा होती है,

वस्थासु तुल्या । स्वप्ननिद्रयो-
स्तुल्यत्वाद्विश्रुतैजसयोरेकराशि-
त्वम् । अन्यथाग्रहणप्राधान्याच्च
गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपर्यासः
स्वप्नः । तृतीये तु स्थाने तत्त्वा-
ज्ञानलक्षणा निद्रैव केवला
विपर्यासः ।

अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपर्यासे
कार्यकारणबन्धरूपे परमार्थ-
तत्त्वप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं
पदमश्नुते । तदोभयलक्षणं बन्ध-
रूपं तत्रापश्यंस्तुरीये निश्चितो
भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

जो दोनों अवस्थाओंमें तुल्य है ।
इस प्रकार स्वप्न और निद्रामें तुल्य
होनेके कारण विश्रु और तैजसकी
एक राशि है । उनमें अन्यथा-
ग्रहणकी प्रधानता होनेके कारण
निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं-
में स्वप्नरूप विपरीत ज्ञान रहता है ।
किन्तु तृतीय स्थान (सुषुप्ति) में
केवल तत्त्वाग्रहणरूप निद्रा ही
विपर्यास है ।

अतः उन कार्यकारणरूप स्थानों-
के अन्यथाग्रहण और तत्त्वाग्रहण-
रूप विपर्यासोंका परमार्थतत्त्वके
बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी
प्राप्ति होती है । तब उस अवस्थामें
दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे
पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जाता
है—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १५ ॥

बोध कब होता है ?

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ १६ ॥

जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [अर्थात्
तत्त्वज्ञान लाभ करता है] उसी समय उसे अज, अनिद्र और स्वप्नरहित
अद्वैत आत्मतत्त्वका बोध प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

योऽयं संसारी जीवः स उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबोधरूपेण बीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च अनादिकालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन स्वप्नेन समायं पिता पुत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं पशवोऽहमेपां स्वामी सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन वर्धितश्चानेनेत्येवंप्रकारान्स्वप्नान् स्थानद्वयेऽपि पश्यन्सुप्तः ।

यदा वेदान्तार्थतत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं त्वं हेतुफलात्मकः किं तु तत्त्व-मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदैवं प्रतिबुध्यते—


कथम्? नास्मिन्वाह्यमाभ्यन्तरं वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो-
ऽजं सवाह्याभ्यन्तरसर्वभावविकार-
वर्जितमित्यर्थः । यस्माज्जन्मादि-
कारणभूतं नास्मिन्नविद्यातमोबीजं
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्रं

यह जो संसारी जीव है वह तत्त्वाप्रतिबोधरूप बीजात्मिका एवं अन्यथाग्रहणरूप अनादिकालसे प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण [स्वप्न और जागरित] दोनों ही अवस्थाओंमें 'यह मेरा पिता है, यह पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, गृह और पशु हैं, मैं इनका स्वामी हूँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी, क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता हूँ' इत्यादि प्रकारके स्वप्न देखता हुआ सो रहा है ।

जिस समय वेदान्तार्थके तत्त्वको जाननेवाले किसी परम कारुणिक गुरुके द्वारा 'तू इस प्रकार हेतु एवं फलस्वरूप नहीं है, किन्तु तू वही है' इस प्रकार जगाया जाता है उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है—

किस प्रकारका बोध होता है ? [सो बतलाते हैं—] इसमें बाह्य अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित है । और क्योंकि इसमें जन्मादिकी कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्ध-कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है इसलिये यह अनिद्र है । वह तुरीय

हि तत्तुरीयमत एवास्वप्नम् : अनिद्र है, इसीलिये अस्वप्न भी है; क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [तत्त्वा-
 तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य । प्रतिबोधरूप] निद्राहीके कारण
 यस्मान्निद्रमस्वप्नं तस्मादजन्तैतं : हुआ करता है । इस प्रकार क्योंकि
 तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥१६॥ वह अनिद्र और अस्वप्न है इसलिये
 ही उस समय अजन्ना और अद्वैत
 तुरीयआत्माका बोध होता है ॥१६॥



प्रपञ्चनिवृत्त्या चेत्प्रतिबुध्यते— यदि बोंव प्रपञ्चनिवृत्तिसे ही
 अनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वैतमि- होता है तो जबतक प्रपञ्चकी
 न्युच्यते— निवृत्ति न हो तबतक अद्वैत कैसा ?
 इत्तर कहा जाता है—

प्रपञ्चका कल्पन्तामान

प्रपञ्चो यदि विद्येत नियतं न संशयः ।

मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥ १७ ॥

प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता—इसमें सन्देह नहीं ।
 किन्तु [कल्पने] वह द्वैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत
 ही है ॥ १७ ॥

सत्यमेवं स्यात्प्रपञ्चो यदि— यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो
 विद्येत, रज्ज्वां सर्प इव सचक्षुष पेसा ही होता; किन्तु वह
 कल्पितत्वान्न तु स विद्यते । तो रज्जुमें सर्पके समान कल्पित
 विद्यमानश्चेन्नियतं न संशयः । होनेके कारण [वस्तुतः] है ही
 न हि रज्ज्वां भ्रान्तिबुद्ध्या नहीं । यदि वह होता तो, इसमें
 कल्पितः सर्पो विद्यमानः हुआ सर्प [वस्तुतः] विद्यमान
 हुआ सर्प [वस्तुतः] विद्यमान

सन्निवेकतां निवृत्तः । नैव साया	रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं
मायाविना प्रवृत्ता तद्दर्शिनां	होता । मायावीद्वारा फैलायी हुई
चक्षुर्वन्धापगमे विद्यमाना सती	माया, देखनेवालोंके दृष्टिवन्धनके
निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चारूपं	हटाये जानेपर, पहले विद्यमान
मायामात्रं द्वैतं रज्जुवन्मायावि-	रहती हुई निवृत्त नहीं होती । इसी
वचाद्वैतं परमार्थतस्तस्मान्न	प्रकार यह प्रपञ्चसंज्ञक द्वैत भी
कश्चिन्प्रपञ्चः प्रवृत्तो निवृत्तो	मायामात्र ही है; परमार्थतः तो
चार्न्तीत्यभिप्रायः ॥ १७ ॥	रज्जु अथवा मायावीके समान अद्वैत
	ही है । अतः तात्पर्य यह है कि
	कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा निवृत्त
	होनेवाला नहीं है ॥ १७ ॥



गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है

ननु शास्ता शास्त्रं शिष्य इति	यदि कहो कि शासक, शास्त्र
विकल्पः कथं निवर्तते इत्युच्यते—	
	और शिष्य—इस प्रकारका विकल्प
	किस प्रकार निवृत्त हो सकता है ?
	तो इसपर कहा जाता है—

विकल्पो विनिवर्तते कल्पितो यदि केनचित् ।

उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ १८ ॥

इस [गुरु-शिष्यादि] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता । यह [गुरु-शिष्यादि] वाद तो उपदेशके ही लिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता ॥ १८ ॥

विकल्पो विनिवर्तते यदि	यदि किसीने इसकी कल्पना
केनचित्कल्पितः स्यात् । यथायं	
प्रपञ्चो मायारज्जुसर्पवत्तथायं	
	की होती तो यह विकल्प निवृत्त
	हो जाता । जिस प्रकार यह प्रपञ्च
	माया और रज्जुसर्पके सदृश है उसी

शिष्यादिभेदविकल्पोऽपि प्राक्
प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तोऽत
उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता
शास्त्रमिति । उपदेशकार्ये तु
ज्ञाने निर्वृत्ते ज्ञाते परमार्थतत्त्वे
द्वैतं न विद्यते ॥ १८ ॥

प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प
भी आत्मज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके
निमित्तसे है । अतः शिष्य, शासक
और शास्त्र—यह वाद उपदेशके
ही लिये हैं । उपदेशके कार्यस्वरूप
ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्
परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो जानेपर
द्वैतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ ॥

आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और
उसकी मात्राओंका तादात्म्य

अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्च-
तुष्पादात्मेति न्याख्यातो यः-

अबतक जिस ओंकाररूप चतु-
ष्पाद् आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ)
की प्रधानतासे वर्णन किया है—

सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मा अक्षरदृष्टिसे ओंकार है; वह मात्राओंको विषय करके
स्थित है । पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार,
उकार और मकार हैं ॥ ८ ॥

सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमधि-
कृत्याभिधानप्राधान्येन वर्ण्य-
मानोऽध्यक्षरम् । किं पुनस्तद-
क्षरमित्याह, ओङ्कारः । सोऽय-
मोङ्कारः पादशः प्रविभज्यमानः,

वह यह आत्मा अध्यक्षर है;
अक्षरका आश्रय लेकर जिसका
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया
जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं ।
किन्तु वह अक्षर है क्या ? इसपर
कहते हैं—वह ओंकार है । वह
यह ओंकार पादरूपसे विभक्त
किये जानेपर अधिमात्र यानी

अधिमात्रं मात्रामधिकृत्य वर्तत इत्यधिमात्रम् । कथम् ? आत्मनो ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः । कास्ताः ? अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥	मात्राको आश्रय करके वर्तमान रहता है, इसलिये इसे 'अधिमात्र' कहते हैं । सो किस प्रकार ? क्यों- कि आत्माके जो पाद हैं वे ही ओंकारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ कौन-सी हैं ? अकार, उकार और मकार—ये ही [वे मात्राएँ हैं] ॥८॥
---	---



अकार और विश्वका तादात्म्य

तत्र विशेषनियमः क्रियते— अव उनमें विशेष नियम किया
जाता है—

**जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा-
क्षेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति
य एवं वेद ॥ ९ ॥**

जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्वके
कारण [ओंकारकी] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार
जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [महापुरुषोंमें]
आदि (प्रधान) होता है ॥ ९ ॥

जागरितस्थानो वैश्वानरो यः
स ओङ्कारस्याकारः प्रथमा मात्रा ।
केन सामान्येनेत्याह—आप्तेराप्ति-
व्याप्तिरेकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता
“अकारो वै सर्वा वाक्” (ऐ०
आ० २ । ३ । ६) इति श्रुतेः ।

जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर
है वही ओंकारकी पहली मात्रा
अकार है । किस समानताके कारण
पहली मात्रा है—इसपर कहते हैं—
आप्तिके कारण, आप्तिका अर्थ व्याप्ति
है । “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण
वाणी है” इस श्रुतिके अनुसार
अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है ।

तथा वैश्वानरेण जगत्; “तस्य
ह वा एतस्वात्मनो वैश्वानरस्य
सूर्ध्वं सुतेजाः” (छा० उ० ५ ।
१८ । २) इत्यादिश्रुतेः ।

अभिधानाभिधेययोरेकत्वं

चाबोचाम । आदिरस्य विद्यत
इत्यादिमद्यथैवादिमदकाराख्यस-
क्षरं तथैव वैश्वानरस्तस्माद्वा
सामान्यादकारत्वं वैश्वानरस्य ।
तदेकत्वविदः फलमाह—आप्नोति
ह वै सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च
भवति महतां य एवं वेद,
यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥

तथा “उस इस वैश्वानर आत्माका
मस्तक ही दुलोक है” इस श्रुतिके
अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत्
व्याप्त है ।

अभिधान (वाचक) और
अभिधेय (वाच्य) की एकता तो
हम कह ही चुके हैं । जिसमें आदि
(प्रथमता) हो उसे आदिमत्
कहते हैं । जिस प्रकार अकार
नामक अक्षर आदिमान् है उसी
प्रकार वैश्वानर भी है । उसी
समानताके कारण वैश्वानरकी
अकाररूपता है । उनकी एकता
जाननेवालेके लिये फल बतलाया
जाता है—‘जो पुरुष ऐसा जानता
है अर्थात् उपर्युक्त एकत्वको जानने-
वाला है वह समस्त कामनाओंको
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें
आदि—प्रथम होता है’ ॥ ९ ॥

उकार और तैजसका तादात्म्य

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा-
दुभयत्वाद्बोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति
नास्यात्रह्यवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥

स्वप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥

स्वप्नस्थानस्तैजसो यः स
ओङ्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा ।
केन सामान्येनेत्याह—उत्कर्षात् ।
अकारादुत्कृष्ट इव हुकारस्तथा
तैजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारम-
कारयोर्मध्यस्थ उकारस्तथा
विश्वप्राज्ञयोर्मध्ये तैजसोऽत
उभयभाक्त्वसामान्यात् ।

विद्वत्फलमुच्यते—उत्कर्षति
हवैज्ञानसन्ततिम् । विज्ञानसन्तति
वर्धयतीत्यर्थः । समानस्तुल्यश्च
मित्रपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्यप्र-
द्वेष्यो भवति । अब्रह्मविदस्य
कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥

जो स्वप्नस्थानवाला तैजस है वह ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है। किस समानताके कारण दूसरी मात्रा है—इसपर कहते हैं—उत्कर्षके कारण। जिस प्रकार अकारसे उकार उत्कृष्ट-सा है उसी प्रकार विश्वसे तैजस उत्कृष्ट है। अथवा मध्यवर्तित्वके कारण [उन दोनोंमें समानता है]। जिस प्रकार उकार अकार और मकारके मध्यमें स्थित है उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञके मध्यमें तैजस है। अतः उभयपरत्वरूप समानताके कारण भी [उनमें अभिन्नता है]।

अब इस प्रकार जाननेवालेको जो फल मिलता है वह बतलाया जाता है—जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञानसन्तति अर्थात् विज्ञानसन्तानका उत्कर्ष यानी वृद्धि करता है, सबके प्रति समान—तुल्य होता है अर्थात् मित्रपक्षके समान शत्रुपक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा उसके कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥



मकार और प्राज्ञका तादात्म्य

**सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा
मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति
य एवं वेद ॥ ११ ॥**

सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लयके कारण ओंकार-
की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस
सम्पूर्ण जगत्का मान—प्रमाण कर लेता है और उसका लयस्थान हो
जाता है ॥ ११ ॥

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स
ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा ।
केन सामान्येनेत्याह सामान्य-
मिदमत्र; मितेर्मितिर्मानं मीयते
इव हि विश्वतैजसौ प्राज्ञेन
प्रलयोत्पत्त्योः प्रवेशनिर्गमाभ्यां
प्रस्थेनेव यत्राः । यथोङ्कारसमाप्तौ
पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत
इवाकारोकारौ मकारे ।

अपीतेर्वा । अपीतिरप्यय एकी-
भावः । ओङ्कारोच्चारणे ह्यन्त्ये-
ऽक्षर एकीभूताविवाकारोकारौ ।

सुषुप्तिस्थानवाला जो प्राज्ञ है
वह ओंकारकी तीसरी मात्रा मकार
है। किस समानताके कारण ? सो
बतलाते हैं—यहाँ इनमें यह
समानता है—ये मितिके कारण
[समान हैं]। मिति मानको कहते हैं;
जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट)
से जौ तौले जाते हैं उसी प्रकार
प्रलय और उत्पत्तिके समय मानों
प्रवेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे
विश्व और तैजस मापे जाते हैं;
क्योंकि ओंकारकी समाप्तिपर उसका
पुनः प्रयोग किये जानेपर मानों
अकार और उकार मकारमें प्रवेश
करके उससे पुनः निकलते हैं ?

अथवा अपीतिके कारण भी
उनमें एकता है। अपीति अप्यय
अर्थात् एकीभावको कहते हैं। क्योंकि
[जिस प्रकार] ओंकारका उच्चारण
करनेपर अकार और उकार अन्तिम
अक्षरमें एकीभूत-से हो जाते हैं

तथा विश्वतैजसौ सुष्टुप्तकाले
प्राज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्वं
प्राज्ञमकारयोः ।

विद्वत्फलमाहः मिनोति ह

वा इदं सर्वं जगद्धाथात्म्यं
जानातीत्यर्थः । अपीतिश्च
जगत्कारणात्मा भवतीत्यर्थः ।

अत्रावान्तरफलवचनं प्रधान-
साधनस्तुत्यर्थम् ॥ ११ ॥

उसी प्रकार सुष्टुप्तिके समय विश्व
और तैजस प्राज्ञमें लीन हो जाते
हैं । सो, इस समानताके कारण भी
प्राज्ञ और मकारकी एकता है ।

अब इस प्रकार जाननेवालेको जो
फल मिलता है वह बतलाते हैं—
[जो ऐसा जानता है] वह इस
सम्पूर्ण जगत्को माप लेता है,
अर्थात् इसका यथार्थ स्वरूप जान
लेता है; तथा अपीति यानी जगत्का
कारणस्वरूप हो जाता है । यहाँ
जो अवान्तर फल बतलाये गये हैं वे
प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये
हैं ॥ ११ ॥



मात्राओंकी विश्वादिरूपता

अत्रैते श्लोका भवन्ति—

इसी अर्थमें ये श्लोक भी हैं—

विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम् ।

मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादातिसामान्यमेव च ॥ १६ ॥

जिस समय विश्वका अत्व—अकारमात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात्
वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी न्यातिरूप समानता भी स्फुट
ही है ॥ १९ ॥

विश्वस्यात्प्रकारमात्रत्वं यदा
विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य-
मुक्तन्यायेनोत्कटमुद्भूतं दृश्यत
इत्यर्थः । अत्वविवक्षायामित्यस्य
व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति
विश्वस्याकारमात्रत्वं यदा
संप्रतिघृत इत्यर्थः । आसिसा-
मान्यमेव चोत्कटमित्यनुवर्तते
चशब्दात् ॥ १९ ॥

जिस समय विश्वका अत्व यानी
अकारमात्रत्व कहना इष्ट होता
है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके
प्राथमिकत्वकी समानता उत्कट
अर्थात् उद्भूत (प्रकटरूपसे)
दिखायी देती है । 'मात्रासम्प्रति-
पत्तौ'—यह 'अत्वविवक्षायाम्'
इस पदकी ही व्याख्या है ।
तात्पर्य यह है कि जिस समय
विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता
है उस समय उनकी व्याप्तिकी
समानता तो स्पष्ट ही है । यहाँ 'च'
शब्दसे 'उत्कटम्' इस पदकी
अनुवृत्ति की जाती है ॥ १९ ॥



तैजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् ।

मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधम् ॥ २० ॥

तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात् तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा
जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है । तथा उनका उभयत्व भी
स्पष्ट ही है ॥ २० ॥

तैजसस्योत्वविज्ञान उकारत्व-
विवक्षायामुत्कर्षो दृश्यते स्फुटं
स्पष्ट इत्यर्थः । उभयत्वं च स्फुट-
मेवेति । पूर्ववत्सर्वम् ॥ २० ॥

तैजसके अत्व-विज्ञानमें अर्थात्
उसका उकाररूपसे प्रतिपादन करने-
में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखलायी
देता है । इसी प्रकार उभयत्व भी
स्पष्ट ही है । शेष सब पूर्ववत् है ॥ २० ॥



मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् ।

मात्रासंप्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥

प्राज्ञकी मकाररूपतामें अर्थात् प्राज्ञ मकारमात्रारूप है—ऐसा जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उनमें लय-स्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है ॥ २१ ॥

मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया- | प्राज्ञके मकाररूप होनेमें मान
वुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ॥२१॥ | और लयरूप समानता स्पष्ट है—
यह इसका तात्पर्य है ॥ २१ ॥

ओंकारोपासकका प्रभाव

त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः ।

स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः ॥ २२ ॥

जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतलायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय और वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥

यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्तं | उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य-
सामान्यं वेत्त्येवमेवैतदिति निश्चितो | रूपसे बतलायी गयी समानताको
सः स पूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्मवल्लोके | जो 'यह इसी प्रकार है' ऐस निश्चय-
भवति ॥ २२ ॥ | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता लोकमें
पूजनीय एवं वन्दनीय होता है ॥२२॥

ओंकारकी व्यस्तोपासनाके फल

यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां
मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा
यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो ध्यायति
तम्—

पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके
पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व
करके उपर्युक्त ओंकारको जानते हुए
जो उसका ध्यान करता है उसे—

अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तैजसम् ।

मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥ २३ ॥

अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार प्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसीकी गति नहीं है ॥ २३ ॥

अकारो नयते विश्वं प्रापयति ।
अकारालम्बनोङ्कारं विद्वान्वैश्वान-
रो भवतीत्यर्थः । तथोकार-
स्तैजसम् । मकारश्चापि पुनः
प्राज्ञम् । चशब्दान्भयत इत्यनु-
वर्तते । क्षीणे तु मकारे वीजभाव-
क्षयादमात्र ओङ्कारे गतिर्न विद्यते
कचिदित्यर्थः ॥ २३ ॥

अकार विश्वको प्राप्त करा देता
है; अर्थात् अकारके आश्रित ओङ्कार-
को जाननेवाला पुरुष वैश्वानर होता
है । इसी प्रकार उकार तैजसको
और मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा
देता है । 'च' शब्दसे 'नयते' (प्राप्त
करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति
होती है । तथा मकारका क्षय
होनेपर वीजभावका क्षय हो जानेसे
मात्राहीन ओङ्कारमें कोई गति नहीं
होती—यह इसका तात्पर्य है ॥ २३ ॥



अमात्र और आत्माका तादात्म्य

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽ-
द्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य
एवं वेद ॥ १२ ॥

मात्रारहित ओङ्कार तुरीय आत्मा ही है । वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोप-
शम, शिव और अद्वैत है । इस प्रकार ओङ्कार आत्मा ही है । जो उसे
इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर
जाता है ॥ १२ ॥

अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति
सोऽमात्र ओङ्कारश्चतुर्थस्तुरीय
आत्मैव केवलोऽभिधानाभिधेय-
रूपयोर्वाङ्मनसयोः क्षीणत्वाद-
व्यवहार्यः । प्रपञ्चोपशमः
शिवोऽद्वैतः संवृत्त एवं यथोक्त-
विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार-
स्त्रिमात्रस्त्रिपाद आत्मैव । संवि-
शत्यात्मना स्वेनैव खं पारमार्थि-
क्रमात्मानं य एवं वेद । परमार्थ-
दर्शी ब्रह्मवित् तृतीयं बीजभावं
दग्ध्यात्मानं प्रविष्ट इति न
पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात् ।

न हि रज्जुसर्पयोर्विवेके
रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धिसंस्का-
रात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्था-
स्यति । मन्दमध्यमधियां तु
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मार्ग-
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां

अमात्र—जिसकी मात्रा नहीं है
वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात्
तुरीय केवल आत्मा ही है। अभिधान-
रूप वाणी और अभिधेयरूप मनका
क्षय हो जानेके कारण वह अ-
व्यवहार्य है। तथा वह प्रपञ्चकी
निषेधावधि, मङ्गलमय, और अद्वैत-
स्वरूप है। इस प्रकार पूर्वोक्त
विज्ञानवान् उपासकद्वारा प्रयोग
किया हुआ तीन मात्रावाला ओंकार
तीन पादवाला आत्मा ही है। जो
इस प्रकार जानता है [अर्थात्
इस प्रकार उसकी उपासना करता
है] वह स्वतः ही अपने पारमार्थिक
आत्मामें प्रवेश करता है। परमार्थ-
दर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीजभावको
भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता
है; इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं
होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजा-
त्मक है।

रज्जु और सर्पका विवेक हो
जानेपर रज्जुमें लीन हुआ सर्प जिन्हें
उसका विवेक हो गया है उन
पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारवश पुनः
प्रतीत नहीं हो सकता। किन्तु जो
मन्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधक-
भावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी

पादानां च ब्रह्मसामान्यविदां
यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म-
प्रतिपत्तय आलम्बनीभवति तथा
च वक्ष्यति—“आश्रमास्त्रिविधाः”
(भाण्ड० का० ३।१६)
इत्यादि ॥ १२ ॥

पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित
सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके
लिये तो विधिवत् उपासना किया
हुआ ओंकार ब्रह्मप्राप्तिके लिये आ-
श्रयस्वरूप होता है। यहाँ बात
“तीन प्रकारके आश्रम हैं” इत्यादि
वाक्योंसे कहेंगे ॥ १२ ॥



समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना

पूर्ववत्—

| पहलेके समान—

अत्रैते श्लोका भवन्ति—

इसी अर्थमें ये श्लोक भी हैं—

ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः ।

ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २४ ॥

ओंकारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं—इसमें
सन्देह नहीं। इस प्रकार ओंकारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन
न करे ॥ २४ ॥

यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव

मात्रा मात्राश्च पादास्तस्मादोङ्कारं

पादशो विद्यादित्यर्थः। एवमोङ्कारे

ज्ञाते दृष्टार्थमदृष्टार्थं वा न किञ्चित्

पूर्वोक्त समानताओंके कारण
पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ
ही पाद हैं। अतः तात्पर्य यह
है कि ओंकारको पादक्रमसे जाने।
इस प्रकार ओंकारका ज्ञान हो
जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण
किसी भी दृष्टार्थ (ऐहिक) अथवा

प्रयोजनं चिन्तयेत्कृतार्थत्वादि-
त्यर्थः ॥ २४ ॥

अद्यप्यर्थ (पारलौकिक) प्रयोजनका
चिन्तन न करे—यह इसका
अभिप्राय है ॥ २४ ॥



युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् ।

प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ॥ २५ ॥

चित्तको ओंकारमें समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है ।
ओंकारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता । २५ ।

युञ्जीत समादध्याद्यथाव्या-
ख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो
मनः । यस्मात्प्रणवो ब्रह्म
निर्भयम् । न हि तत्र सदा
युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित्
“विद्वान्न विभेति कुतश्चन”
(तै० उ० २ । ९) इति श्रुतेः ॥ २५ ॥

जिसकी पहले व्याख्या की जा
चुकी है उस परमार्थस्वरूप ओंकारमें
चित्तको युक्त—समाहित करे, क्योंकि
ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है । उसमें
नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको
कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि
“विद्वान् कहीं भी भयको प्राप्त नहीं
होता” इस श्रुतिसे प्रमाणित होता
है ॥ २५ ॥



प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः ।

अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६ ॥

ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपरब्रह्म माना गया है ।
वह ओंकार अपूर्व (अकारण), अन्तर्बाह्यशून्य, अकार्य तथा अव्यय
है ॥ २६ ॥

परापरे ब्रह्मणी प्रणवः। परसार्थतः
क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एवात्मा
ब्रह्मेति न पूर्वं कारणस्य विद्यत
इत्यपूर्वः । नास्यान्तरं भिन्न-
जातीयं किञ्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः।
तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य-
बाह्यः । अपरं कार्यमस्य न
विद्यत इत्यनपरः । सबाह्या-
भ्यन्तरो ह्यजः सैन्धवघनवत्
प्रज्ञानघन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

पर और अपर ब्रह्म प्रणव हैं ।
वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण होने-
पर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये
इसका कोई पूर्व यानी कारण न
होनेसे यह अपूर्व है । इसका कोई
अन्तर—भिन्नजातीय भी नहीं है,
इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे
बाह्य भी कोई और नहीं है,
इसलिये यह अबाह्य है और इसका
कोई अपर—कार्य भी नहीं है इस-
लिये यह अनपर है । तात्पर्य यह
है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा
तथा सैन्धवघनके समान प्रज्ञानघन
ही है ॥ २६ ॥



सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च ।

एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् ॥ २७ ॥

प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है । प्रणवको इस प्रकार
जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति-
प्रलयाः सर्वस्यैव । मायाहस्ति-
रञ्जुसर्पमृगतृष्णिकास्त्रमादिवद्
उत्पद्यमानस्य त्रियदादिप्रपञ्चस्य
यथा मायान्यादयः । एवं हि

सबका आदि, मध्य और अन्त
अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय
प्रणव ही है । जिस प्रकार कि माया-
मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाले
सर्प, मृगतृष्णा और स्त्रमादिके
समान उत्पन्न होनेवाले आकाशादि-
रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि

प्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्था-
नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म-
भावं व्यञ्जुत इत्यर्थः ॥ २७ ॥

हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय
उस प्रणवरूप आत्माको जानकर
विद्वान् तत्काल ही तद्रूपताको प्राप्त हो
जाता है—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२७॥



प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् ।

सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८ ॥

प्रणवको ही सबके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वव्यापी
ओंकारको जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥

सर्वप्राणिजातस्य स्मृति-
प्रत्ययास्पदे हृदये स्थितमीश्वरं
प्रणवं विद्यात्सर्वव्यापिनं व्योम-
वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो
बुद्धिमान्मत्वा न शोचति
शोकनिमित्तानुपपत्तेः । “तरति
शोकमात्मवित्” (छा० उ० ७ ।
१ । ३) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥२८॥

प्रणवको ही समस्त प्राणि-
समुदायके स्मृतिप्रत्ययके आश्रयभूत
हृदयमें स्थित ईश्वर समझे । बुद्धिमान्
पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी
ओंकारको असंसारी आत्मा [—बुद्ध
आत्मतत्त्व] जानकर, शोकके कारण-
का अभाव हो जानेसे शोक नहीं
करता; जैसा कि “आत्मवेत्ता शोक-
को पार कर जाता है” इत्यादि
श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥



ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ।

ओङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ २९ ॥

जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले, द्वैतके उपशमस्थान और मङ्गलमय ओंकारको जाना है वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं ॥२९॥

अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः । मीयते-
 ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा
 अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः ।
 नैतावत्त्वमस्य परिच्छेत्तुं शक्यत
 इत्यर्थः । सर्वद्वैतोपशमत्वादेव
 शिवः । ओङ्कारो यथाव्याख्यातो
 विदितो येन स परमार्थतत्त्वस्य
 मननान्मुनिः । नेतरो जनः
 शास्त्रविदपीत्यर्थः ॥२९॥

अमात्र तुरीय ओंकार है । जिस-
 से मान किया जाय उसे 'मात्रा'
 अर्थात् 'परिच्छित्ति' कहते हैं; वह
 मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे
 'अनन्तमात्र' कहा जाता है । तात्पर्य
 यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद
 नहीं किया जा सकता । सम्पूर्ण
 द्वैतका उपशमस्थान होनेके कारण
 ही वह शिव (मङ्गलमय) है ।
 इस प्रकार व्याख्या किया हुआ
 ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ-
 तत्त्वका मनन करनेवाला होनेसे
 'मुनि' है; दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ
 होनेपर भी मुनि नहीं है—ऐसा इस-
 का तात्पर्य है ॥ २९ ॥



इति श्रोगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
 शङ्करभगवतः कृतावागमशास्त्रविवरणे गौडपादीयकारिका-
 सहितमाण्डूक्योपनिषद्भाष्ये प्रथममागमप्रकरणम् ॥१॥

ॐ तत्सत् ।



वैतथ्यप्रकरण

ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम्,

“एकमेवाद्वितीयम्”

प्रकरणस्य
प्रयोजनम्

(छा० उ० ६।२।१)

इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

आगममात्रं तत् । तत्रोपपत्त्यापि

द्वैतस्य वैतथ्यं शक्यतेऽवधारयि-

तुमिति द्वितीयं प्रकरणमारभ्यते-

“एकमेवाद्वितीयम्” इत्यादि श्रुति-
योके अनुसार (आगम-प्रकरणकी
१८ वीं कारिकामें) यह कहा गया
है कि ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं
रहता । वह केवल आगम (शास्त्र-
वचन) मात्र था । किन्तु द्वैतका
मिथ्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया
जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है-

स्वप्नदृष्ट पदार्थोका मिथ्यात्व

वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः ।

अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥

[स्वप्नस्थामें] सब पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः
स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिणः स्वप्नमें सब पदार्थोका मिथ्यात्व
प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥

वितथस्य भावो वैतथ्यम्,
असत्यत्वमित्यर्थः । कस्य ? सर्वेषां
बाह्याध्यात्मिकानां भावानां
पदार्थानां स्वप्न उपलभ्यमाना-
नाम्, आहुः कथयन्ति, मनीषिणः
प्रमाणकुशलाः । वैतथ्ये हेतुमाह-

वितथ (मिथ्या) के भावका
नाम 'वैतथ्य' अर्थात् असत्यत्व है ।
किसका वैतथ्य ? स्वप्नमें प्रतीत
होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक
पदार्थोका मनीषिणः अर्थात् प्रमाण-
कुशल पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं ।
उनके मिथ्यात्वमें हेतु बतलाते हैं-

अन्तःस्थानात्, अन्तः

शरीरस्य मध्ये स्थानं

अन्तः संवृत-
स्थानात्

येषाम् । तत्र हि

भावा उपलभ्यन्ते

पर्वतहस्त्यादयो न वहिः

शरीरात् । तस्मात्ते वितथा भवितु-

मर्हन्ति। नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्य-

मानैर्घटादिभिरनैकान्तिको हेतुः

इत्याशङ्क्याह—संवृतत्वेन हेतु-

नेति, अन्तः संवृतस्थानादित्यर्थः।

न ह्यन्तः संवृते देहान्तर्नाडीषु

पर्वतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति; न

हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥ १ ॥

अन्तःस्थ होनेके कारण; अन्तर अर्थात् शरीरके मध्यमें स्थान है जिनका [ऐसे होनेके कारण]; क्योंकि वही पर्वत एवं हस्ती आदि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, शरीरसे बाहर उनको उपलब्ध नहीं होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। किन्तु [यदि शरीरके भीतर उपलब्ध होनेके कारण ही स्वप्नदृष्ट पदार्थ मिथ्या हैं तो] गृह आदिके भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमें तो यह हेतु व्यभिचरित हो जायगा [क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह तो सत्य ही है]—ऐसी शङ्का होने-पर कहते हैं—‘स्थानके सङ्कोचके कारणसे।’ तात्पर्य यह कि शरीरके भीतर संकुचित स्थान होनेसे [उनका मिथ्यात्व कहा जाता है]। देहके अन्तर्वर्ती संकुचित नाडीजालमें पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव नहीं है। देहके भीतर पर्वत नहीं हो सकता ॥ १ ॥



स्वप्नदृश्यानां भावानामन्तः

संवृतस्थानमित्येतदसिद्धम्,

यस्मात् प्राच्येषु सुप्त उदक्षु

स्वप्नमें दिखायी देनेवाले पदार्थों-का शरीरके भीतर संकुचित स्थान है—यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिशामें सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशामें स्वप्न देखता-सा

स्वप्नान्पश्यन्निव दृश्यत इत्ये-
तदाशङ्क्याह—

देखा जाता है [अतः वह शरीरसे
बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा]
—ऐसी आशङ्का करके कहते हैं—

अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति ।

प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २ ॥

समयकी अदीर्घता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता ।
[इससे भी उसका स्वप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है] ॥ २ ॥

न देहाद्बहिर्देशान्तरं गत्वा

दीर्घ- स्वप्नान्पश्यति । यस्मा-
कालभावात् त्सुप्तमात्र एव देह-
मिथ्यात्वम् देशाद्योजनशतान्तरिते

मासमात्रप्राप्ये देशे स्वप्नान्पश्य-
न्निव दृश्यते । न च तद्देशप्राप्ते-
रागमनस्य च दीर्घः कालोऽस्ति ।
अतोऽदीर्घत्वाच्च कालस्य न
स्वप्नदृग्देशान्तरं गच्छति ।

वह देहसे बाहर देशान्तरमें
जाकर स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि
वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे
एक मासमें पहुँचने योग्य सौ
योजनकी दूरीपर स्वप्न देखता-सा
देखा जाता है । [उस समय] उस
देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने
योग्य दीर्घकाल है ही नहीं । अतः
कालकी अदीर्घताके कारण वह स्वप्न-
दृष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता ।

किं च प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः

स्वप्नदृक्स्वप्नदर्शनदेशे न विद्यते ।

यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छे-

द्यस्मिन्देशे स्वप्नान्पश्येत्तत्रैव

प्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति । रात्रौ

सुप्तोऽहनीव भावान्पश्यति; बहुभिः

यही नहीं, जागनेपर भी कोई
स्वप्नदृष्टा स्वप्न देखनेके स्थानमें नहीं
रहता । यदि वह स्वप्नके समय
किसी देशान्तरमें जाता तो जिस
देशमें स्वप्न देखता उसीमें जागता ।
किन्तु ऐसी बात नहीं होती ।
वह रात्रिमें सोया हुआ मानों दिनमें
पदार्थोंको देखता है और बहुतोंसे

संगतो भवति, यैश्च संगत-
स्तैर्गृहीत । न च गृह्यते; गृहीत-
श्चेत्त्वामद्य तत्रोपलब्धवन्तो
वयमिति ब्रूयुः । न चैतदस्ति,
तस्मान्न देशान्तरं गच्छति
स्वप्ने ॥ २ ॥

मिलता है; अतः जिनसे उसका मेल
होता है उनके द्वारा वह गृहीत
होना चाहिये था । परन्तु गृहीत
होता नहीं; यदि गृहीत होता तो
'हमने तुझे वहाँ पाया था' ऐसा
कहते । परन्तु ऐसी बात है नहीं;
अतः स्वप्नमें वह किसी देशान्तरको
नहीं जाता ॥ २ ॥

इत्थं स्वप्नदृश्या भावा
वितथा यतः—

स्वप्नमें दिखायी देनेवाले पदार्थ
इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि—

अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् ।

वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ॥ ३ ॥

श्रुतिमें भी [स्वप्नदृष्ट] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है ।
अतः [उपर्युक्त युक्तिसे] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही स्वप्नमें स्पष्ट बतलाते
हैं ॥ ३ ॥

अभावश्चैव रथादीनां स्वप्न-
रथाद्यभावश्रुते- दृश्यानां श्रूयते न्याय-
मिथ्यात्वम् पूर्वकं युक्तिः श्रुतौ "न
तत्र रथाः" (बृ० उ० ४।३।१०)
इत्यत्र । देहान्तःस्थानसंघृतत्वादि-
हेतुना प्राप्तं वैतथ्यं तदनुवादिन्या
श्रुत्या स्वप्ने स्वयंज्योतिष्प्रकृति-
प्रतिपादनपरया प्रकाशितमाहु-
र्ब्रह्मविदः ॥ ३ ॥

"उस अवस्थामें रथ नहीं हैं"
इत्यादि श्रुतिमें भी स्वप्नदृष्ट रथादि-
का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया
है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके
सङ्कोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ
मिथ्यात्व; उसका अनुवाद करनेवाली
तथा स्वप्नमें आत्माका स्वयंप्रकाशत्व
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिद्वारा
ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं ॥ ३ ॥

जाग्रद्दृश्य पदार्थोंके मिथ्यात्वमें हेतु

अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् ।

यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥

इसीसे जाग्रत् अवस्थामें भी पदार्थोंका मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्वप्नावस्थामें [मिथ्या] होते हैं उसी प्रकार जाग्रत्में भी होते हैं । केवल शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें ही स्वप्नदृष्ट पदार्थोंका भेद है ॥ ४ ॥

जाग्रद्दृश्यानां भावानां वैत-
थ्यमिति प्रतिज्ञा ।
स्वप्नपदार्थवद्-
दृश्यत्वेन दृश्यत्वादिति हेतुः ।
मिथ्यात्वम् स्वप्नदृश्यभाववदिति
दृष्टान्तः । यथा तत्र स्वप्ने
दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा
जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्ट-
मिति हेतूपनयः । तस्माज्जाग-
रितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति
निगमनम् । अन्तःस्थानात्संवृत-
त्वेन च स्वप्नदृश्यानां भावानां
जाग्रद्दृश्येभ्यो भेदः । दृश्यत्वम-
सत्यत्वं चाविशिष्टमुभयत्र ॥४॥

जाग्रत्-अवस्थामें देखे हुए पदार्थ
मिथ्या हैं—यह प्रतिज्ञा है । दृश्य
होनेके कारण—यह उसका हेतु
है । स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंके समान
—यह दृष्टान्त है । जिस प्रकार वहाँ
स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंका मिथ्यात्व
है उसी प्रकार जाग्रत्में भी उनका
दृश्यत्व समानरूपसे है—यह हेतु-
पनय है । अतः जागृतिमें भी उन-
का मिथ्यात्व माना गया है—यह
निगमन है । अन्तःस्थ होने और
स्थानका संकोच होनेमें स्वप्नदृष्ट
भावोंका जाग्रद्दृष्ट भावोंसे भेद है ।
दृश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही
अवस्थाओंमें समान हैं ॥ ४ ॥

स्वप्नजागरितस्थाने

द्वेकमाहुर्मनीषिणः ।

भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ५ ॥

१. व्याप्तिविशिष्ट हेतु पक्षमें है—ऐसा प्रतिपादन करना 'हेतूपनय'
कहलाता है ।

इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदार्थोंमें समानता होनेके कारण विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतलाया है ॥५॥

प्रसिद्धेनैव भेदानां ग्राह्य- ग्राह्यग्राहक- ग्राहकत्वेन हेतुना त्वात् समत्वेन स्वप्न- जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवे- किन इति पूर्वप्रमाणसिद्धस्यैव फलम् ॥ ५ ॥	पदार्थोंके ग्राह्यग्राहकत्वरूप प्रसिद्ध हेतुसे समानता होनेके कारण ही विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया है—इस प्रकार यह पूर्व प्रमाणसे सिद्ध हुए हेतुका ही फल है ॥५॥
---	--



इतश्च वैतथ्यं जाग्रद्दृश्यानां भेदानामाद्यन्तयोरभावात् ।	जाग्रत्-अवस्थामें दिखलायी देने- वाले पदार्थोंका मिथ्यात्व इसलिये भी है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका अभाव है ।
---	--

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है [अर्थात् आदि और अन्तमें अस-
द्रूप है] वह वर्तमानमें भी वैसा ही है । ये पदार्थसमूह असत्के समान
होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥

यदादावन्ते च नास्ति वस्तु मृगतृष्णिकादि तन्म- आदावन्ते चामावात् ध्येऽपि नास्तीति निश्चितं लोके तथेमे जाग्रद्दृश्या भेदाः । आद्यन्तयोर- भावाद्वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभिः	जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और अन्तमें नहीं है वह मध्यमें भी नहीं होती—यह बात लोकमें निश्चित ही है । इसी प्रकार ये जाग्रत् अवस्थामें दिखलायी देनेवाले भिन्न- भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमें न होनेसे मृगतृष्णा आदि असद्र-
---	--

सदृशत्वाद्वि तथा एव तथाप्यवि-
तथा इव लक्षिता मूढैरनात्म-
विद्भिः ॥ ६ ॥

स्तुओंके समान होनेके कारण असत्
ही हैं; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरुषों-
द्वारा वे सद्रूप समझे जाते हैं ॥६॥



स्वप्नदृश्यवजागरितदृश्याना-
मप्यसत्त्वमिति यदुक्तं तदयुक्तम् ।
यस्माज्जाग्रद्दृश्या अन्नपानवाह-
नादयः क्षुत्पिपासादिनिवृत्तिं
कुर्वन्तो गमनागमनादिकार्यं च
सप्रयोजना दृष्टाः । न तु
स्वप्नदृश्यानां तदस्ति । तस्मात्स्वप्न-
दृश्यवजाग्रद्दृश्यानामसत्त्वं
मनोरथमात्रमिति ।

शङ्का—स्वप्नदृश्योंके समान जाग-
रित अवस्थाके दृश्योंका भी जो
असत्यत्व बतलाया गया है वह ठीक
नहीं क्योंकि जाग्रद्दृश्य अन्न, पान
और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास-
की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि
कार्योंके करनेके कारण प्रयोजनवाले
देखे गये हैं । किन्तु स्वप्नदृश्योंके
विषयमें ऐसी बात नहीं है । अतः
स्वप्नदृश्योंके समान जाग्रद्दृश्योंकी
असत्यता केवल मनोरथमात्र है ।

तन्न । कस्मात् ? यस्मात्—

समाधान—ऐसी बात नहीं है ।
क्यों नहीं है ? क्योंकि—

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥


स्वप्नमें उन (जाग्रत्पदार्थों) की सप्रयोजनतामें विपरीतता आ
जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या ही
माने गये हैं ॥ ७ ॥

सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपाना-
दीनां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

[जागरित अवस्थामें] जो अन्न-
पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी

जागरिते हि भुक्त्वा पीत्वा च
 तृप्तौ विनिवर्तितवृत्सुप्तमात्र एव
 क्षुत्पिपासाघ्रातमहोरात्रोपितम-
 भुक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा
 स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा चातृप्तोत्थि-
 तस्तथा । तस्माज्जाग्रद्दृश्यानां
 स्वप्ने विप्रतिपत्तिर्दृष्टा । अतो
 मन्यामहे तेषामप्यसत्त्वं स्वप्न-
 दृश्यवदनाशङ्कनीयमिति ।
 तस्मादाद्यन्तवच्चमुभयत्र समान-
 मिति मिथ्यैव खलु ते स्मृताः॥७॥

है वह स्वप्नमें नहीं रहती । जागरित
 अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष
 तृप्तरहित होकर सोनेपर भी [स्वप्नमें]
 अपनेको भुवा-पिपासा आदिसे आर्त्त,
 दिन-रात उपवास किया हुआ और
 बिना भोजन किया हुआ मानता है;
 जिस प्रकार कि स्वप्नमें, खा-पीकर
 जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त
 अनुभव करता है । अतः स्वप्नावस्था-
 में जाग्रद्दृश्योंकी विपरीतता देखी
 जाती है । इसलिये स्वप्नदृश्योंके
 समान उनकी असत्यताको भी हम
 शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस
 प्रकार दोनों ही अवस्थाओंमें आदि-
 अन्तवत्त्व समान है; अतः वे निश्चय
 मिथ्या ही माने गये हैं ॥ ७ ॥



स्वप्नजाग्रद्भेदयोः समत्वाज्जा-
 ग्रद्भेदानामसत्त्वमिति यदुक्तं
 तदसद्, कस्मात् ? दृष्टान्तस्या-
 सिद्धत्वात् ? कथम् । न हि
 जाग्रद्दृष्टा एवैतं भेदाः स्वप्ने
 दृश्यन्ते । किं तर्हि ?

स्वप्न और जाग्रत्पदार्थोंके समान
 होनेसे जाग्रत्पदार्थोंकी जो असत्यता
 बतलाई गयी है वह ठीक नहीं है ।
 क्यों ? क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं
 हो सकता । कैसे सिद्ध नहीं हो
 सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाग्रत्
 अवस्थामें देखे जाते हैं वे ही स्वप्नमें
 नहीं देखे जाते । तो उस समय
 और क्या देखा जाता है ?

अपूर्व स्वप्ने पश्यतिः चतुर्दन्त-
गजमारूढमष्टभुजमात्मानं मन्यते।
अन्यदप्येवंप्रकारमपूर्वं पश्यति
स्वप्ने । तन्नान्येनासता सममिति
सदेव । अतो दृष्टान्तोऽसिद्धः ।
तस्मात्स्वप्नवजागरितस्वासत्त्वमि-
त्ययुक्तम् ।

तन्नः स्वप्ने दृष्टमपूर्वं
यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम् ।
किं तर्हि ?

स्वप्नमें तो यह अपूर्व वस्तुएँ
देखता है । अपनेको चार दाँतोंवाले
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ
भुजाओंवाला मानता है । इसी प्रकार
स्वप्नमें और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा
करता है । वे किसी अन्य असत्
वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे
सत् ही हैं । अतः यह दृष्टान्त सिद्ध
नहीं हो सकता । अतः स्वप्नके समान
जागरितकी भी असत्यता है—यह
कथन ठीक नहीं ।

ऐसी बात नहीं है । स्वप्नमें देखी
हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है
वे स्वतः सिद्ध नहीं हैं । तो कैसी हैं ?

अपूर्वं स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम् ।

तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार [इन्द्रादि] स्वर्गनिवासियोंकी [सहस्रनेत्रत्वादि]
अलौकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह (स्वप्न) भी स्थानी
(स्वप्नद्रष्टा आत्मा) का अपूर्व धर्म है । उन स्वप्न पदार्थोंको यह इसी
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकमें [किसी मार्गविशेषके
सम्बन्धमें] सुशिक्षित पुरुष [उस मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर
पहुँचकर उसे देखता है] ॥ ८ ॥

अपूर्वं स्थानिधर्मो हि स्थानिनो
द्रष्टुरेव हि स्वप्नस्थानवतो
धर्मः । यथा स्वर्गनिवासि-
नामिन्द्रादीनां सहस्राक्षत्वादि

वे स्थानीका अपूर्व धर्म ही हैं; स्थानी
अर्थात् स्वप्नस्थानवाले द्रष्टाका ही धर्म
है । जैसे कि स्वर्गनिवासी इन्द्रादिके
सहस्राक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार

तथा स्वप्नदृशोऽपूर्वोऽयं धर्मः ।
 न स्वतः सिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत् ।
 तानेवंप्रकारानपूर्वान्स्वचित्तवि-
 कल्पानयं स्थानी स्वप्नदृक्स्वप्नस्थानं
 गत्वा प्रेक्षते । यथैवेह लोके
 सुशिक्षितो देशान्तरमार्गस्तेन
 मार्गेण देशान्तरं गत्वा
 तान्पदार्थान्पश्यति तद्वत् ।
 तस्माद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जु-
 सर्पमृगतृष्णिकादीनामसत्त्वं तथा
 स्वप्नदृश्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्म-
 त्वमेवेत्यसत्त्वमतो न स्वप्नदृष्टान्त-
 स्यासिद्धत्वम् ॥ ८ ॥

स्वप्नदृष्टाका यह अपूर्व धर्म है ।
 द्रष्टाके स्वरूपके समान यह स्वतः-
 सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने
 चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन
 धर्मोंको यह जो स्वप्न देखनेवाला
 स्थानी है स्वप्नस्थानमें जाकर देखा
 करता है; जिस प्रकार इस लोकमें
 देशान्तरके मार्गके विषयमें सुशिक्षित
 पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर
 वहाँके पदार्थोंको देखता है उसी
 प्रकार [यह भी देखता है] । अतः
 जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सर्प
 और मृगनृष्णा आदिकी असत्यता है
 उसी प्रकार स्वप्नमें देखे जानेवाले
 अपूर्व पदार्थोंका भी स्थानिधर्मत्व ही
 है, अतः वे भी असत् हैं । इसलिये
 स्वप्नदृष्टान्तकी अस्तित्वात्ता नहीं है ॥ ८ ॥



स्वप्नमें मनःकल्पित और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही

प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

अपूर्वत्वाशङ्का निराकृता

स्वप्नदृष्टान्तस्य पुनः स्वप्नतुल्यतां

जाग्रद्वेदानां प्रपञ्चयन्नाह—

स्वप्नदृष्टान्तके अपूर्वत्वकी आशं-
 काका निराकरण कर दिया । अब
 पुनः जाग्रत्पदार्थोंकी स्वप्नतुल्यताका
 विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए
 कहते हैं—

स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।

बहिश्चेतोऽगृहीतं सद्दृष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥

स्वप्नावस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत् और चित्तसे बाहर [इन्द्रियोंद्वारा] ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत् जान पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥

<p>स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नस्थानेऽपि अन्तश्चेतसा मनोरथसङ्कल्पितम- सत् । सङ्कल्पानन्तरसमकालमेवा- दर्शनात्तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतं चक्षुरादिद्वारेणोपलब्धं घटादि सत् । इत्थेवमसत्यमिति निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्टः । उभयोरप्यन्तर्बहिश्चेतःकल्पितयो- र्वैतथ्यमेव दृष्टम् ॥ ९ ॥</p>	<p>स्वप्नकी वृत्ति अर्थात् स्वप्नस्थानमें भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प की हुई वस्तु असत् होती है; क्यों- कि वह सङ्कल्पके पश्चात् तत्क्षण ही दिखायी नहीं देती । तथा उस स्वप्नावस्थामें ही चित्तसे बाहर चक्षु आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट आदि सत् होते हैं । इस प्रकार स्वप्न असत्य है—ऐसा निश्चय हो जानेपर भी उसमें सत्-असत्का विभाग देखा जाता है । किन्तु चित्तसे कल्पना किये हुए इन आन्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥</p>
---	---



जाग्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं


जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।

बहिश्चेतो गृहीतं सच्युक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥

इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत् तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत् समझा जाता है । परन्तु इन दोनोंहीका मिथ्यात्व मानना उचित है ॥ १० ॥

सदसतोर्वैतथ्यं युक्तम्,
अन्तर्वहिश्वेतःकल्पितत्वाविशेषा-
दिति व्याख्यातमन्यत् ॥१०॥

इन सत् और असत् पदार्थोंका मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदयके भीतर या बाहर कल्पित होनेसे उनमें कोई विशेषता नहीं होती । शेष सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥१०॥



इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ?

चोदक आह— [इसपर] पूर्वपक्षी कहता है—
उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि ।

क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥

यदि [जागरित और स्वप्न] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोंका मिथ्यात्व है तो इन पदार्थोंको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करनेवाला है ? ॥ ११ ॥

स्वप्नजाग्रत्स्थानयोर्भेदानां यदि
वैतथ्यं क एतानन्तर्वहिश्वेतः-
कल्पितान्बुध्यते । को वै तेषां
विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क
आलम्बनमित्यभिप्रायः, न
चेन्निरात्मवाद इष्टः ॥ ११ ॥

यदि स्वप्न और जागरित [दोनों ही स्थानों] के पदार्थोंका मिथ्यात्व है तो चित्तके भीतर या बाहर कल्पना किये हुए इन पदार्थोंको जानता कौन है ? और कौन उनकी कल्पना करनेवाला है ? तात्पर्य यह है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं है तो [यह व्रताना चाहिये कि] उक्त स्मरण (स्वप्न) और ज्ञान (जागरित) का आलम्बन कौन है ? ॥ ११ ॥



इनकी कल्पना करनेवाला और इनका
साक्षी आत्मा ही है

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया ।

स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२ ॥

स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे स्वयं ही कल्पना करता है और
वही सब भेदोंको जानता है—यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥

स्वयं स्वमायया स्वमात्मान-	स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी माया-
मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं	से रज्जुमें सर्पादिके समान अपनेमें
भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव	आपहीको आगे बतलाये जानेवाले
सर्पादीन् स्वयमेव च तान्बुध्यते	भेदरूपसे कल्पना करता है और
भेदांस्तद्भेदेत्येवं वेदान्तनिश्चयः ।	स्वयं ही उन भेदोंको जानता है—
नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः ।	इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय
न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती	है । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान-
वैनाशिकानामिवेत्यभिप्रायः । १२ ।	का कोई और आश्रय नहीं है ।
	तात्पर्य यह कि वैनाशिकों (वौद्धों)
	के कथनके समान ये ज्ञान और
	स्मृति निराधार नहीं हैं ॥ १२ ॥



पदार्थकल्पनाकी विधि

सङ्कल्पयन्केन
कल्पयतीत्युच्यते—

प्रकारेण

वह संकल्प करते हुए किस
प्रकार कल्पना करता है ? सो
बतलाया जाता है—

विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् ।

नियतांश्च बहिश्चित्तं एवं कल्पयते प्रभुः ॥ १३ ॥

प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [वासनारूपसे] स्थित अन्य (लौकिक) भावोंको नानारूप करता है तथा बहिश्चित्त होकर पृथिवी आदि नियत और अनियत पदार्थोंकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है । १३।

विकरोति नाना करोत्यपराञ्
लौकिकान् भावान् पदार्थान्
शब्दादीनन्यांश्चान्तश्चित्ते वासना-
रूपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्
नियतांश्च पृथ्व्यादीननियतांश्च
कल्पनाकालान्यहिश्चित्तः संस्था-
न्तश्चित्तो मनोरथादिलक्षणा-
नित्येवं कल्पयति प्रभुरीश्वर
आत्मेत्यर्थः ॥ १३ ॥

वह चित्तके भीतर वासनारूपसे स्थित अव्याकृत लौकिक भावों— शब्दादि पदार्थोंको तथा अन्य पृथिवी आदि नियत और कल्पनाकालमें ही उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थोंको बहिश्चित्त होकर एवं मनोरथादिरूप पदार्थोंको अन्तश्चित्त होकर विकृत करता अर्थात् नाना करता है—इस प्रकार प्रभु—ईश्वर अर्थात् आत्मा कल्पना करता है ॥ १३ ॥



आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

स्वप्नवच्चित्तपरिकल्पितं सर्व-
मित्येतदाशङ्क्यते । यस्माच्चित्त-
परिकल्पितैर्मनोरथादिलक्षणैश्चित्त-
परिच्छेदैर्विलक्षणं ब्राह्मणा-
मन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति ।

सा न युक्ताशङ्का ।

स्वप्नके समान सब कुछ चित्तका ही कल्पना किया हुआ है—इस विषयमें यह शंका होती है—क्योंकि केवल चित्तपरिकल्पित और चित्तसे ही परिच्छेद्य मनोरथादिसे बाह्य पदार्थोंकी अन्योन्यपरिच्छेद्यत्वरूप विलक्षणता है [अतः स्वप्नके समान ये मिथ्या नहीं हो सकते] ।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, [क्योंकि—]

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः ।

कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥

जो आन्तरिक पदार्थ केवल कल्पनाकालतक ही रहनेवाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक [अर्थात् अन्योन्यपरिच्छेद्य] हैं वे सभी कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [अर्थात् आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य सत्य हैं—इस प्रकारकी भेदकल्पनाका] कोई दूसरा कारण नहीं है ॥ १४ ॥

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु
चित्तपरिच्छेद्याः; नान्यश्चित्त-
कालच्यतिरेकेण परिच्छेदकः
कालो येषां ते चित्तकालाः ।
कल्पनाकाल एवोपलभ्यन्त
इत्यर्थः । द्वयकालाश्च भेदकाला
अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथा-
गोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावद्ग्रां
दोग्धि यावद्ग्रां दोग्धि तावदास्ते ।
तावानयस्तेतावान्स इति परस्पर-
परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां
भेदानां ते द्वयकालाः । अन्त-
श्चित्तकाला बाह्याश्च द्वयकालाः
कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो
द्वयकालत्वविशेषः कल्पितत्व-

जो आन्तरिक हैं अर्थात् चित्त-
परिच्छेद्य हैं वे चित्तकाल हैं; जिनका
चित्तकालके सिवा और कोई काल
परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाल
कहते हैं । अर्थात् वेकेवल कल्पना-
के समय ही उपलब्ध होते हैं । तथा
बाह्य पदार्थ दो कालवाले—भेदकालिक
यानी अन्योन्यपरिच्छेद्य हैं । जैसे
गोदोहनपर्यन्त बैठता है; यानी
जबतक बैठता है तबतक गौ दुहता
है और जबतक गौ दुहता है तबतक
बैठता है । उतने समयतक यह रहता
है और इतने समयतक वह रहता है—
इस प्रकार बाह्य पदार्थोंका परस्पर
परिच्छेद्य-परिच्छेदकत्व है; अतः वे
दो कालवाले हैं । किन्तु आन्तरिक
चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक—
ये सब कल्पित ही हैं । बाह्य पदार्थों-
की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है

व्यतिरेकेणान्यहेतुकः । अत्रापि
हि स्वप्नदृष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥

वह कल्पितत्वके सिवा किसी अन्य
कारणसे नहीं है । इस विषयमें भी
स्वप्नका दृष्टान्त* है ही ॥ १४ ॥



आन्तरिक और बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित है

अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः ।

कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे ॥ १५ ॥

जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट
प्रतीत होनेवाले हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता तो
केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है ॥ १५ ॥

यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां
मनोवासनामात्राभिव्यक्तानां
स्फुटत्वं वा बहिश्चक्षुरादीन्द्रि-
यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना-
मस्तित्वकृतः स्वप्नेऽपि तथा
दर्शनात् । किं तर्हि ? इन्द्रियान्तर-
कृत एव । अतः कल्पिता एव
जाग्रद्भावा अपि स्वप्नभाववदिति
सिद्धम् ॥ १५ ॥

चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त
हुए पदार्थोंका जो अन्तःकरणमें
अव्यक्तत्व (अस्फुटत्व) और बाह्य
चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो
उनका स्फुटत्व है वह विशेषता
पदार्थोंकी सत्ताके कारण नहीं है,
क्योंकि ऐसा ही स्वप्नमें भी देखा
जाता है । तो फिर इसका क्या
कारण है ? यह इन्द्रियोंके भेदके ही
कारण है । अतः सिद्ध हुआ कि
स्वप्नके पदार्थोंके समान जाग्रत्कालीन
पदार्थ भी कल्पित ही हैं ॥ १५ ॥



* अर्थात् जाग्रत्के समान स्वप्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ कल्पना-
कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या
हैं । इसी प्रकार जाग्रत्में भी समझो ।

पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है

वाह्याध्यात्मिकानां भावाना-
मितरेतरनिमित्तनैमित्तिकतया
कल्पनायां किं मूलमित्युच्यते—

वाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी
परस्पर निमित्त और नैमित्तिकरूपसे
कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो
बतलाया जाता है—

जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान् ।

वाह्यानाध्यात्मिकानांश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ॥ १६ ॥

[वह प्रभु] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह-
तरहके वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी कल्पना करता है। उस जीवका
जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६ ॥

जीवं हेतुफलात्मकम्; अहं
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवं-
लक्षणम्; अनेवलक्षण एव शुद्ध
आत्मनि रज्जाविव सर्पं कल्पयते
पूर्वम् । ततस्तादर्थ्येन क्रिया-
कारकफलभेदेन प्राणादीन्नाना-
विधान्भावान्वाह्यानाध्यात्मिकां-
श्चैव कल्पते ।

सबसे पहले 'मैं करता हूँ, मुझे
सुख-दुःख है' इस प्रकारके हेतु-
फलात्मक जीवकी [वह प्रभु] इस-
से विपरीत लक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें
रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता
है। फिर उसीके लिये क्रिया, कारक
और फलके भेदसे प्राण आदि नाना
प्रकारके वाह्य और आध्यात्मिक
पदार्थोंकी कल्पना करता है।

तत्र कल्पनायां को हेतुरि-
त्युच्यते । योऽसौ स्वयंकल्पितो
जीवः सर्वकल्पनायामधिकृतः स
यथाविद्यः, यादृशी विद्या विज्ञान-
मस्येति यथाविद्यः; तथाविधैव
स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिर्भवति

उस कल्पनामें क्या हेतु है—इस-
पर कहा जाता है—यह जो स्वयं
कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार-
की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी
विद्यावाला होता है अर्थात् उसकी
जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी
ही स्मृति भी होती है। अतः
वह वैसी ही स्मृतिवाला होता है।

स इति । अतो हेतुकल्पना-
 विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल-
 स्मृतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदर्थक्रिया-
 कारकतत्फलभेदविज्ञानानि ।
 तेभ्यस्तत्स्मृतिस्तत्स्मृतेश्च पुन-
 स्तद्विज्ञानानीत्येवं बाह्यानाध्या-
 त्मिकांश्चेतरेतरनिमित्तनैमित्तिक-
 भावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६ ॥

इस प्रकार [अन्नभक्षणादि] हेतुकी
 कल्पनाके विज्ञानसे ही [तृप्ति आदि]
 फलका विज्ञान होता है; उससे [दूसरे
 दिन भी] उन हेतु और फलकी स्मृति
 होती है और उस स्मृतिसे उनका ज्ञान
 तथा उनके लिये होनेवाले [पाकादि]
 कर्म, [तण्डुलादि] कारक और उनके
 [तृप्ति आदि] फलभेदके ज्ञान होते हैं ।
 उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस
 स्मृतिसे फिर उन [हेतु आदि] के
 विज्ञान होते हैं । इस प्रकार यह जीव
 बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी
 पारस्परिक निमित्त-नैमित्तिकभावसे
 अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥ १६ ॥



जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है

तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पना-
 मूलमित्युक्तं सैव जीवकल्पना
 किंनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति-
 पादयति—

यहाँतक जीवकल्पना ही सब
 कल्पनाओंका मूल है—यह कहा गया;
 किन्तु वह जीव-कल्पना है किस
 निमित्तसे?—इस बातका दृष्टान्तसे
 प्रतिपादन करते हैं—

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता ।

सर्पधारादिभिर्भावैस्तादृक्तात्मा विकल्पितः ॥ १७ ॥

जिन प्रकार [अपने स्वरूपसे] निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार-
 में सर्प-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मा में भी
 तरह-तरहकी कल्पनाएँ हो रही हैं ॥ १७ ॥

यथा लोके खेन रूपेणानिश्चि-
 तानवधारितैवमेवेति रज्जुर्मन्दा-

जिस प्रकार अपने स्वरूपसे
 अनिश्चित अर्थात् यह ऐसी ही है—

न्धकारे किं सर्प उदकधारा
 दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता
 भवति पूर्व स्वरूपानिश्चयनिमित्तम् ।
 यदि हि पूर्वमेव रज्जुः स्वरूपेण
 निश्चिता स्यात्; न सर्पादिवि-
 कल्पोऽभविष्यद् यथा स्वहस्ता-
 ङ्गुल्यादिषु, एष दृष्टान्तः ।
 तद्वद्वेतुफलादिसंसारधर्मानर्थवि-
 लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति-
 मात्रसत्ताद्वयरूपेणानिश्चितत्वा-
 ज्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदैरात्मा
 विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां
 सिद्धान्तः ॥ १७ ॥

इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्जु
 मन्द अन्वकारमें 'यह सर्प है?' 'जल-
 की धारा है?' अथवा 'दण्ड है?'
 इस प्रकार—पहलेसे स्वरूपका निश्चय
 न होनेके कारण—अनेक प्रकारसे
 कल्पना की जाती है; यदि रज्जु
 पहले ही अपने स्वरूपसे निश्चित हो
 तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो
 सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुली
 आदिमें [ऐसा कोई विकल्प नहीं
 होता]। यह एक दृष्टान्त है। इसी
 तरह हेतु-फलादि सांसारिक धर्मरूप
 अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध
 विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्तास्वरूपसे
 निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा
 जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न
 भावोंसे विकल्पित हो रहा है—यही
 सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७



अज्ञानानिवृत्ति ही आत्मज्ञान है

निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते ।

रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८ ॥

जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [सर्पादिका]
 विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा 'यह रज्जु ही है' ऐसा अद्वैत निश्चय
 होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है ॥ १८ ॥

रञ्जुरेवेति निश्चये सर्ववि-
कल्पनिवृत्तौ रञ्जुरेवेति चाद्वैतं
यथा तथा “नेति नेति” (वृ०
उ० ४।४।२२) इति सर्व-
संसारधर्मशून्यप्रतिपादकशास्त्रज-
नितविज्ञानमूर्त्यालोककृतात्मवि-
निश्चयः “आत्मैवेदं सर्वम्”
(छा० उ० ७।२५।२)
“अपूर्वमनपरमनन्तरमवाह्यम्”
(वृ० उ० २।५।१९)
“सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” (सु०
उ० २।१।२) “अजरोऽमरो-
ऽमृतोऽभयः” (वृ० उ० ४।४।
२५) “एक एवाद्वयः” इति ॥ १८ ॥

‘यह रञ्जु ही है’ ऐसा निश्चय
होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति
हो जानेपर जिस प्रकार ‘यह रञ्जु
ही है’ ऐसा अद्वैत-भाव हो जाता
है उसी प्रकार “नेति-नेति” इस
सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति-
पादन करनेवाले शास्त्रसे उत्पन्न हुए
विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका
ऐसा निश्चय हांता है कि “यह सब
आत्मा ही है” “वह कारण-कार्यसे
रहित और अन्तर्बाह्यशून्य है” “बाहर-
भीतरसे (कार्य-कारण दोनों दृष्टियों-
से) अजन्मा है” “वह जराशून्य,
अमृत और अभय है” तथा “वह
एक अद्वितीय ही है” ॥ १८ ॥



यद्यात्मैक एवेति निश्चयः
कथं प्राणादिभिरनन्तैर्भावैरेतैः
संसारलक्षणैर्विकल्पित इति,
उच्यते, शृणु—

यदि यह बात निश्चित है कि
आत्मा एक ही है तो वह इन
संसाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे
कैसे विकल्पित हो रहा है ?
सो इस विषयमें कहा जाता
है, सुनो—

विकल्पकी मूल माया हैं

प्राणादिभिरनन्तैश्च

भावैरेतैर्विकल्पितः ।

मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम् ॥ १९ ॥

यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोंसे विकल्पित हो रहा है सो यह उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है ॥ १९ ॥

मायैषा तस्यात्मनो देवस्य । यह उस आत्मदेवकी माया है ।
 यथा मायाविना विहिता माया जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की
 गगनमतिविमलं कुसुमितैः हुई माया अति निर्मल आकाशको
 सपलाशैस्तरुभिराकीर्णमिव पल्लवयुक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण
 करोति तथेयमपि देवस्य माया कर देती है उसी प्रकार यह भी
 यथायं स्वयमपि मोहित इव उस देवकी माया है जिससे कि यह
 मोहितो भवति । “मम माया स्वयं भी मोहित हुएके समान मोह-
 दुरत्यया” (गीता ७।१४) प्रस्त हो रहा है। “मेरी मायाका पार
 इत्युक्तम् ॥ १९ ॥ पाना कठिन है” ऐसा [भगवान्ने] कहा भी है ॥ १९ ॥



मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः ।

गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २० ॥

प्राणोपासक कहते हैं—‘प्राण ही जगत्का कारण है ।’ भूतज्ञों (प्रत्यक्ष-वादी चार्वाकादि) का कथन है—[पृथिवी आदि] चार भूत ही परमार्थ हैं ।’ गुणोंको जाननेवाले [सांख्यवादी] कहते हैं—‘गुण ही सृष्टिके हेतु हैं ।’ तथा तत्त्वज्ञ (शैव) कहते हैं—[आत्मा, अविद्या और शिव—ये तीन] तत्त्व ही जगत्के प्रवर्तक हैं ॥ २० ॥

पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः ।

लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१ ॥

पादवेत्ता कहते हैं—'विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहारके हेतु हैं।' [वात्स्यायनादि] विप्रयज्ञ कहते हैं—'शब्दादि विप्रय ही सत्य वस्तु हैं।' लोकवेत्ताओं (पौराणिकों) का कथन है—'लोक ही सत्य हैं।' तथा देवोपासक कहते हैं—'इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सञ्चालक हैं' ॥ २१ ॥

वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः ।

भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥ २२ ॥

वेदज्ञ कहते हैं—'ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं।' याज्ञिक कहते हैं—'यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं।' भोक्ताको जाननेवाले भोक्ताकी ही प्रधानता बतलाते हैं तथा भोज्यके मन्त्र (सूक्तारादि) भोज्यपदार्थोंकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ ॥

सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः ।

मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ॥ २३ ॥

सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं—'आत्मा सूक्ष्म (अणु-परिमाण) है।' स्थूलवादी (चार्वाकादि) कहते हैं—'वह स्थूल है।' मूर्तवादी (साकारोपासक) कहते हैं—'परमार्थ वस्तु मूर्तिमान् है।' तथा अमूर्तवादियों (शून्यवादियों) का कथन है कि वह मूर्तिहीन है ॥ २३ ॥

काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः ।

वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥ २४ ॥

कालज्ञ (ज्योतिषी लोग) कहते हैं—'काल ही परमार्थ है।' दिशाओंके जाननेवाले (नक्षत्रशास्त्री) कहते हैं—'दिशाएँ ही सत्य वस्तु हैं।' वादवेत्ता कहते हैं—'[धातुवाद, मन्त्रवाद आदि] वाद ही सत्य वस्तु हैं।' तथा भुवनकोपके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही परमार्थ हैं ॥ २४ ॥

मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः ।

चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः ॥ २५ ॥

मनोविद् कहते हैं—‘मन ही आत्मा है’, बौद्धोंका कथन है—‘बुद्धि ही आत्मा है’, चित्तज्ञोंका विचार है—‘चित्त ही सत्यवस्तु है;’ तथा धर्माधर्मवेत्ता (सांख्यवादी) ‘धर्माधर्मको ही परमार्थ मानते हैं’ ॥ २५ ॥

पञ्चविंशक इत्येके पञ्चविंश इति चापरे ।

एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६ ॥

कोई (सांख्यवादी) पच्चीस तत्त्वोंको, कोई (पातञ्जलमतावलम्बी) छत्र्यासोंको और कोई (पाशुपत) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं* तथा अन्य मतावलम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंवाला मानते हैं ॥ २६ ॥

लोकाल्लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः ।

स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गाः परापरमथापरे ॥ २७ ॥

लौकिक पुरुष लोकानुरञ्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही प्रधान बतलाते हैं । लिङ्गवादी स्त्रीलिङ्ग, पुँलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गोंको तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं ॥ २७ ॥

सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः ।


स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ॥ २८ ॥

सृष्टिवेत्ता कहते हैं—‘सृष्टि ही सत्य है’, लयवादी कहते हैं—‘लय ही परमार्थ वस्तु है’ तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं—‘स्थिति ही सत्य है ।’ इस प्रकार ये [कहे हुए और बिना कहे हुए] सभी वाद इस आत्मतत्त्वमें सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८ ॥

* प्रधान, महत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय और मन—ये सांख्यवादियोंके पच्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके सिवा छत्र्यासवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं और पाशुपतोंके मतमें इन पच्चीस तत्त्वोंके अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल, कला और माया—ये छः तत्त्व और हैं ।

प्राणः प्राज्ञो वीजात्सा
तत्कार्यभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः ।
अन्ये च सर्वे लौकिकाः सर्व-
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा-
मिव सर्पादयः तच्छून्य आत्म-
न्यात्मस्वरूपानिश्चयहेतोरविद्यया
कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः ।
प्राणादिश्लोकानां प्रत्येकं पदार्थ-
व्याख्याने फलगुप्रयोजनत्वा-
त्सिद्धपदार्थत्वाच्च यतो न
कृतः ॥ २८ ॥

प्राण वीजस्वरूप प्राज्ञको कहते हैं ।
उपर्युक्त स्थितिपर्यन्त सब विकल्प
उसीके कार्यभेद हैं । सम्पूर्ण प्राणियों-
से परिकल्पित अन्य सब लौकिक-
धर्म रज्जुमें सर्पके समान उन
विकल्पोंसे शून्य आत्मामें आत्म-
स्वरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यासे
कल्पना किये गये हैं—यह इन
श्लोकोंका समुदायार्थ है । प्राणादि
श्लोकोंके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान-
का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके
कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं—इस-
लिये प्रयत्न नहीं किया ॥ २८ ॥



किं बहुना—

। अधिक क्या ?—

यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति ।

तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम् ॥ २९ ॥

[गुरु] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मस्वरूपसे
देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रूप
होकर रक्षा करने लगता है । फिर उस (भाव) में होनेवाला अभिनिवेश
उस [के आत्मभाव] को प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥

प्राणादीनामन्यतममुक्तममुक्तं
वान्यं भावं पदार्थं दर्शयेद्यस्या-
चार्योऽन्यो वाप्त इदमेव तत्त्वमिति
स तं भावमात्मभूतं पश्यत्यय-

जिसका आचार्य अथवा कोई
अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेंसे
किसी कहे हुए अथवा किसी बिना
कहे हुए अन्य भावको भी 'यही
परमार्थतत्त्व है' इस प्रकार दिखा
देता है वह उसी भावको आत्मभूत

महामिति वा ममेति वा । तं च | हुआ देखता है [और समझता है
 द्रष्टारं स भावोऽवति यो दर्शितो | कि-] 'मैं यही हूँ' अथवा 'यही
 भावोऽसौ भूत्वा रक्षति । स्वेना- | मेरा स्वरूप है' । तथा उस द्रष्टाकी
 त्मना सर्वतो निरुणद्धि । | भी, जो भाव उसे दिखलाया गया
 तस्मिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तदभिनिवेशः । | है, तद्रूप होकर रक्षा करता है;
 इदमेव तच्चमिति स तं ग्रहीतार- | अर्थात् उसे सब प्रकार अपने स्वरूप-
 मुपैति । तस्यात्मभावं निगच्छ- | से निरुद्ध कर देता है । उसी भावमें
 तीत्यर्थः ॥ २९ ॥ | जो ग्रह—आग्रह अर्थात् 'यही तत्त्व
 है' इस प्रकारका अभिनिवेश है
 वह उस भावके ग्रहण करनेवालेको
 प्राप्त होता है, अर्थात् उसके आत्म-
 स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२९॥



आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है

पुतैरेपोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः ।

एवं यो वेद् तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः ॥ ३० ॥

[इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण] इन प्राणादि अपृथग्
 भावोंसे [पृथक् न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा] यह आत्मा मिन ही माना
 गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर
 [वेदार्थकी] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥

एतैः प्राणादिभिरात्मनो-
 ऽपृथग्भूतैरपृथग्भावैरेप आत्मा
 रज्जुरिव सर्पादिविकल्पनारूपैः
 पृथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो
 निश्चितो मूढैरित्यर्थः । त्रिविकिर्ना

रज्जुमें कल्पित सर्पादि भावोंसे
 रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे
 अपृथग्भूत प्राणादि अपृथग्भावोंसे
 पृथक् ही है—ऐसा मूर्खोंको लक्षित—
 अभिलक्षित अर्थात् निश्चित हो रहा
 है । त्रिविकियोंकी दृष्टिमें तो "यह

तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो
नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः
सन्तीत्यभिप्रायः “इदं सर्वं
यदयमात्मा” (बृ० उ० २।४।
६, ४।५।७) इति श्रुतेः ।

एवमात्मव्यतिरेकेणासत्त्वं
रज्जुसर्पवदात्मनि कल्पिताना-
मात्मानं च केवलं निर्विकल्पं
यो वेद तच्चेन श्रुतितो युक्तितश्च
सोऽविशङ्कितो वेदार्थं विभागतः
कल्पयेत्कल्पयतीत्यर्थः—इदमेवं-
परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न
ह्यनध्यात्मविद्वेदाज्ज्ञातुं शक्नोति
तत्त्वतः । “न ह्यनध्यात्मवित्कश्चि-
त्क्रियाफलमुपावृणुते” (मनु०
६।८२) इति हि मानवं
वचनम् ॥ ३० ॥

जो कुछ है सत्र आत्मा ही है” इस
श्रुतिके अनुसार रज्जुमें कल्पित
सर्पादिके समान ये प्राणादि आत्मा-
से भिन्न हैं ही नहीं—ऐसा इसका
तात्पर्य है ।

इस प्रकार रज्जुमें कल्पित सर्पके
समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थों-
का आत्माके सिवा असत्यत्व समझता
है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे
परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह
निःशङ्क होकर वेदार्थकी ‘यह वाक्य
इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला
है और यह अन्यायपरक है’ इस
प्रकार विभागपूर्वक कल्पना कर
सकता है—यह इसका तात्पर्य है ।
जो अध्यात्मतत्त्वको नहीं जानता
वह पुरुष तत्त्वतः वेदोंको भी नहीं
जान सकता । “अध्यात्मतत्त्वको न
जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्मफल-
को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी-
का भी वचन है ॥ ३० ॥

द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है

यदेतद्द्वैतस्यासत्त्वमुक्तं युक्ति-
तस्तदेतद्देदान्तप्रमाणश्रावगत-
मित्याह—

यह जो युक्तिपूर्वक द्वैतकी
असत्यता बतलायी है वह वेदान्त-
प्रमाणसे जानी गयी है—इस आशयसे
कहते हैं—

स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा ।

तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१ ॥

जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्व-नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें इस जगत्को देखा है ॥ ३१ ॥

स्वप्नश्च माया च स्वप्नमाये
असद्वस्त्वात्मिके असत्यौ सद्व-
स्त्वात्मिके इव लक्ष्येते
अविवेकिभिः । यथा च प्रसारित-
पण्यापणगृहप्रासादस्त्रीपुंजनपद-
व्यवहाराकीर्णमिव गन्धर्वनगरं
दृश्यमानमेव सदकसादभावतां
गतं दृष्टम्, यथा च स्वप्नमाये
दृष्टे असद्रूपे, तथा विश्वमिदं द्वैतं
समस्तमसद्दृष्टम् ।

केत्याह—वेदान्तेषु । “नेह
नानास्ति किंचन” (क० उ० २।१।
११ वृ० उ० ४।४।१९) “इन्द्रो
मायाभिः” (वृ० उ० २।५।१९)
“आत्मैवेदमग्र आसीत्” (वृ० उ०
१।४।१७) “ब्रह्म वा इदमग्र आ-
सीत्” (वृ० उ० १।४।१०) “द्विती-
याद्द्वै भयं भवति” (वृ० उ० १।४।

अविवेकी पुरुषोंद्वारा स्वप्न और
माया, जो असद्वस्तुरूप अर्थात्
असत्य हैं, सद्वस्तुरूप देखे जाते हैं ।
जिस प्रकार विस्तृत दूकान, बाजार,
गृह, प्रासाद और नगरनिवासी स्त्री-
पुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्व-
नगर देखते-ही-देखते अकस्मात्
अभावको प्राप्त होता देखा गया है,
और जिस प्रकार ये स्वप्न और माया
असद्रूप देखे गये हैं, उसी प्रकार
यह विश्व अर्थात् समस्त द्वैत असत्
देखा गया है ।

कहाँ देखा गया है ? इसपर
कहते हैं—वेदान्तोंमें । “यहाँ नाना
कुछ नहीं है” “इन्द्रने मायासे”
“पहले यह आत्मा ही था”
“पहले यह ब्रह्म ही था” “दूसरे-
से निश्चय भय होता है” “उससे

२) “न तु तद्द्वितीयमस्ति”
(वृ० उ० ४।३।२३) “अत्र
त्वस्र सर्वमात्मैवाभूत्” (वृ०
उ० ४।५।१५) इत्यादिषु
विचक्षणैर्निपुणतरवस्तुदर्शिभिः
पण्डितैरित्यर्थः ।

दूसरा कोई नहीं है” “जहाँ इसके
लिये सब आत्मा ही हो गया है”
इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात्
निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोंद्वारा
देखा गया है—यह इसका
तात्पर्य है ।

“तमःश्वभ्रनिभं दृष्टं वर्षवुद्-
बुदसंनिभम् । नाशप्रायं सुखा-
द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्” इति
व्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥

“यह जगत् अँधेरे गढ़के समान
और वर्षाकी वूँदके सदृश नाशप्राय,
सुखसे रहित, और नाशके अनन्तर
अभावको प्राप्त हो जानेवाला देखा
गया है”—इस व्यासस्मृतिसे भी
यही बात प्रमाणित होती है ॥३१॥



परमार्थ क्या है ?

प्रकरणार्थोपसंहारार्थोऽयं
श्लोकः । यदा वितथं द्वैतमात्मै-
वैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं
भवति सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च
व्यवहारोऽविद्याविषय एवेति ।
तदा—

यह (आगेका) श्लोक इस
प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके
लिये है । जब कि द्वैत असत् है
और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः
सत् है तो यह निश्चित होता है कि
यह सारा लौकिक और वैदिक
व्यवहार अविद्याका ही विषय है ।
उस अवस्थामें—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३२ ॥

न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न वद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है—यही परमार्थता है ॥ ३२ ॥

न निरोधः—निरोधनं निरोधः प्रलयः, उत्पत्तिर्जननम्, वद्धः संसारी जीवः, साधकः साधनवान्मोक्षस्य, मुमुक्षुर्मोचनार्थी, मुक्तो विमुक्तवन्धः । उत्पत्ति-प्रलययोरभावाद्ब्रह्मादयो न सन्तीत्येषा परमार्थता ।

कथमुत्पत्तिप्रलययोरभावः, इत्युच्यते, द्वैतस्यासत्त्वात् । “यत्र हि द्वैतमिव भवति” (वृ० उ० २ । ४ । १४) “य इह नानेव पश्यति” (क० उ० २ । १ । १०, ११) “आत्मैवेदं सर्वम्” (छा० उ० ७ । २ । ५ । २) “ब्रह्मैवेदं सर्वम्” (नृसिंहोत्तर० ७) “एकमेवाद्वितीयम्” (छा० उ० ६ । २ । १) “इदं सर्वं यदयमात्मा” (वृ० उ० २ । ४ । ६, ४ । ५ । ७) इत्यादि-नानाश्रुतिभ्यो द्वैतस्यासत्त्वं सिद्धम् ।

सतो ह्युत्पत्तिः प्रलयो वा स्यान्नासतः शशविषाणादेः । नाप्यद्वैतमुत्पद्यते लीयते वा ।

न निरोध है । निरोधनका नाम निरोध यानी प्रलय है । उत्पत्ति जननको, वद्ध—संसारी जीवको, साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्षु मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त बन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं । उत्पत्ति और प्रलयका अभाव होनेके कारण ये वद्ध आदि भी नहीं हैं—यही परमार्थता है ।

उत्पत्ति और प्रलयका अभाव किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता है—द्वैतकी असत्यता होनेके कारण [इनकी भी सत्ता नहीं है] । “जहाँ द्वैत—जैसा होता है” “जो यहाँ नानावत् देखता है” “यह सब आत्मा ही है” “यह सब ब्रह्म ही है” “एक ही अद्वितीय” “यह जो कुछ है सब आत्मा है” इत्यादि अनेकों श्रुतियोंसे द्वैतकी असत्यता सिद्ध होती है ।

उत्पत्ति अथवा प्रलय सत्की ही हो सकती है, शशशृङ्गादि असद्वस्तुकी नहीं हो सकती । इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या

अद्वयं चोत्पत्तिप्रलयवच्चेति विप्र-
तिषिद्धम् ।

यस्तु पुनर्द्वैतसंव्यवहारः स
रज्जुसर्पवदात्मनि प्राणादिलक्षणः
कल्पित इत्युक्तम् । न हि मनो-
विकल्पनाया रज्जुसर्पादि-
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय
उत्पत्तिर्वा । न च मनसि
रज्जुसर्पस्योत्पत्तिः प्रलयो वा न
चोभयतो वा । तथा मानसत्वा-
विशेषाद्द्वैतस्य । न हि नियते
मनसि सुषुप्ते वा द्वैतं गृह्यते ।

अतो मनोविकल्पनामात्रं
द्वैतमिति सिद्धम् । तस्मात्सूक्तं
द्वैतस्यासत्त्वान्निरोधाद्यभावः
परमार्थतेति ।

यद्येवं द्वैताभावे शास्त्रव्यापारो
शून्यवादाद्यद्वा नाद्वैते विरोधात् ।
नन्निवर्तनञ्च तथा च सत्यद्वैतस्य
वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छून्यवाद-

लीन नहीं होती । जो अद्वय हो
वह उत्पत्ति-प्रलयवान् भी हो—यह
तो सर्वथा विरुद्ध है ।

इसके सिवा जो प्राणादिरूप
द्वैतव्यवहार है वह रज्जुमें सर्पके
समान आत्मामें ही कल्पित है—यह
वात पहले कही जा चुकी है । रज्जु-
सर्पादिरूप मनोविकल्पकी भी रज्जुमें
उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती ।
रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रलय न तो
मनमें ही होती है और न [मन
और रज्जु] दोनोंहीमें । इसी प्रकार
द्वैतका मनोमयत्व भी समान ही है,
क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषुप्त
हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता ।

अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत
मनकी कल्पनामात्र है । इसलिये
यह ठीक ही कहा है कि द्वैतकी
असत्यता होनेके कारण निरोधादि-
का अभाव ही परमार्थता है ।

पूर्व०—यदि ऐसा है तो शास्त्रका
व्यापार द्वैतका अभाव प्रतिपादन
करनेमें ही है, अद्वैत-बोधमें नहीं;
क्योंकि इससे विरोध आता है । * ऐसी
अवस्थामें अद्वैतके वस्तुत्वमें कोई
प्रमाण न होनेके कारण शून्यवादका

* क्योंकि द्वैतका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा
सकता कि शास्त्रको अद्वैतकी सत्ता अभीष्ट है ।

प्रसङ्गः, द्वैतस्य चाभावात् ।

न; रज्जुसर्पादिविकल्पनाया

निरास्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु-

क्तमेतत्कथमुज्जीवयसोत्याह—

रज्जुरपि सर्पादिविकल्पस्यास्पदभूता

विकल्पितैवेति दृष्टान्तानुप-

पत्तिः ।

न, विकल्पनाक्षयेऽविकल्प-

तस्याविकल्पितत्वादेव सत्त्वोप-

पत्तेः । रज्जुसर्पवदसत्त्वमिति

चेत् ? न; एकान्तेनाविकल्प-

तत्वादविकल्पितरज्ज्वंशवत्प्राक्

सर्पाभावविज्ञानात् । विकल्प-

यितुश्च प्राग्विकल्पनोत्पत्तेः

सिद्धत्वाभ्युपगमादसत्त्वानुप-

पत्तिः ।

प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि द्वैतका तो अभाव ही है ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है; क्यों-

कि रज्जु-सर्पादि विकल्पका निराधार होना सम्भव नहीं है—इस प्रकार पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी इसी शंकाको फिर क्यों उठाता है ? इसपर [शून्यवादी] कहता है— 'सर्पभ्रमकी अधिष्ठानभूता रज्जु भी कल्पिता ही है । इसलिये यह दृष्टान्त ठीक नहीं है ।'

सिद्धान्ती—नहीं, कल्पनाका क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्माकी सत्ता उसके अविकल्पितत्वके कारण ही सम्भव हो सकती है । यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान उसकी असत्ता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह अविकल्पित रज्जु-अंशके समान सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे ही सर्वथा अविकल्पित रूपसे विद्यमान है । इसके सिवा, जो विकल्पना करनेवाला होता है उसे विकल्पकी उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान स्वीकार करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जा सकती ।

कथं पुनः स्वरूपे व्यापाराभावे
शास्त्रस्य द्वैतविज्ञाननिवर्तकत्वम् ?

नैष दोषः । रज्ज्वां सर्पादि-
वदात्मनि द्वैतस्याविद्याभ्यस्त-
त्वात् । कथम् ? सुख्यहं दुःखी
मूढो जातो मृतो जीर्णो देहवान्
पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता
फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो
वृद्धोऽहं ममैत इत्येवमादयः सर्व
आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मै-
तेष्वनुगतः सर्वत्राव्यभिचारात् ।
यथा सर्पधारादिभेदेषु रज्जुः ।

यदा चैवं विशेष्यस्वरूपप्रत्ययस्य
सिद्धत्वान्न कर्तव्यत्वं शास्त्रेण ।
अकृतकर्तृ च शास्त्रं कृतानु-
कारित्वेऽप्रमाणम् । यतोऽविद्या-

पूर्व०—किन्तु आत्मस्वरूपमें
प्रमाणकी गति न होनेपर भी शास्त्र
द्वैतविज्ञानका निवर्तक कैसे है ?

सिद्धान्ती—[यहाँ] यह दोष नहीं
है, क्योंकि रज्जुमें सर्पादिके समान
आत्मामें अविद्याके कारण द्वैतका
अध्यास है। किस प्रकार?—‘मैं सुखी
हूँ, दुःखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ,
मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ,
देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता
हूँ, फलवान् हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ,
क्षीण हूँ, वृद्ध हूँ, ये मेरे हैं’—
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण त्रिकल्प
आत्मामें आरोपित किये जाते हैं, तथा
आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि
उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है,
जैसे कि सर्प और धारा आदि भेदोंमें
रज्जु ।

जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य-
रूप ब्रह्मके स्वरूपकी प्रतीति सिद्ध
होनेके कारण उसके सम्बन्धमें
शास्त्रको कुछ कर्तव्य नहीं है । शास्त्र
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला
है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे
वह प्रमाण नहीं माना जाता ।

ध्यारोपितसुखित्वादिविशेषप्रति-
 बन्धादेवात्मनः स्वरूपेणानवाधानं
 स्वरूपावस्थानं च श्रेय इति
 सुखित्वादिनिवर्तकं शास्त्रम्
 आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन
 नेति नेत्यभूलादिवाक्यैः । आत्म-
 स्वरूपवदसुखित्वाद्यपि सुखित्वा-
 दिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धर्मः ।
 यद्यनुवृत्तः स्यान्नाध्यारोपित-
 सुखित्वादिलक्षणो विशेषः ।
 यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यर्थो
 शीतता । तस्मान्निविशेष एवा-
 त्मनि सुखित्वादयो विशेषाः
 कल्पिताः । यच्चसुखित्वादिशास्त्र-
 ःमात्मनस्तत्सुखित्वादिविशेषनि-
 वृत्त्यर्थमेवेति सिद्धम् । “सिद्धं तु
 निवर्तकत्वात्” इत्यागमविदां
 सूत्रम् ॥ ३२ ॥

क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व
 आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही
 आत्माकी स्वरूपसे स्थिति नहीं है,
 और स्वरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस-
 लिये 'नेति-नेति' और 'अस्थूलम्'
 आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखि-
 त्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा
 शास्त्र [उसमें आरोपित] सुखित्व
 आदिकी निवृत्ति करनेवाला है ।
 आत्मस्वरूपके समान असुखित्व
 आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें
 अनुवृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी
 अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व
 आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं
 किया जा सकता था, जिस प्रकार कि
 उष्णत्वधर्मविशिष्ट अग्निमें शीतत्वका
 आरोप नहीं किया जा सकता ।
 अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष
 आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं ।
 इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके
 विषयमें जो असुखित्व आदि
 शास्त्र है वह सुखित्व आदि विशेषकी
 निवृत्तिके ही लिये है । शास्त्र-
 वेत्ताओंका सूत्र भी है—“[सुखित्व
 आदि धर्मोंका] निवर्तक होनेसे
 [अस्थूलम् आदि] शास्त्रकी प्रामा-
 णिकता सिद्ध होती है” ॥३२॥



अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है

पूर्वश्लोकार्थस्य हेतुमाह—

पूर्व श्लोकके अर्थका हेतु बत-
लाते हैं—

भावैरसद्भिरेवायमद्वयेन च कल्पितः ।

भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३ ॥

यह (आत्मतत्त्व) प्राणादि असद्भावोंसे और अद्वैतरूपसे कल्पित है । वे असद्भाव भी अद्वैतसे ही कल्पना किये गये हैं । इसलिये अद्वैत-भाव ही मङ्गलमय है ॥ ३३ ॥

यथा रज्ज्वात्मसद्भिः सर्प-
धारादिभिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण
सतार्थं सर्प इयं धारा दण्डोऽय-
मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्पयत
एवं प्राणादिभिरनन्तैरसद्भिरेवा-
विद्यमानैः, न परमार्थतः—न
ह्यप्रचलिते मनसि कश्चिद्भाव
उपलक्षयितुं शक्यते केनचित् ;
न चात्मनः प्रचलनमस्ति ;
प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा
न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं
शक्याः—अतोऽसद्भिरेव प्राणादि-
भावैरद्वयेन च परमार्थसता-
त्मना रज्जुत्सर्वाविकल्पास्पद-
भूतेनायं स्वयमेवात्मा कल्पितः ;
सदैकस्वभावोऽपि सन् ।

जिस प्रकार रज्जुमें अविद्यमान सर्प धारा आदि भावोंसे तथा विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे 'यह सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है' इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना किया जाता है उसी प्रकार प्राणादि अनन्त असत्-अविद्यमान अर्थात् जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है]—क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित नहीं हो सकता, और आत्मामें प्रचलन है नहीं; तथा केवल चलाय-मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले भाव परमार्थतः सत्य हैं—ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । अतः यह आत्मा, स्वयं एकमात्र सत्त्वभाव होने-पर भी, असत्स्वरूप प्राणादि भावोंसे तथा रज्जुके समान सब प्रकारके विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत् आत्मस्वरूपसे कल्पित है ।

ते च प्राणादिभावा अप्यद्व-
येनैव सतात्मना विकल्पिताः ।
न हि निरास्पदा काचित्कल्प-
नोपलभ्यते; अतः सर्वकल्पना-
स्पदत्वात्स्वेनात्मनाद्वयस्याव्य-
भिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्व-
यता शिवा । कल्पना एव
त्वशिवाः । रज्जुसर्पादिवत्त्रासा-
दिकारिण्यो हि ताः । अद्वयता-
भयातः सैव शिवा ॥ ३३ ॥

वे प्राणादि भाव ^{वही नगर} ~~का~~ ^{अद्वय} ~~मि~~ ^{कल्प} ~~न~~
आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं,
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार
नहीं हो सकती । अतः समस्त
कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और
अपने स्वरूपसे अद्वयका कभी
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था-
में भी अद्वयता ही मङ्गलमयी है । केवल
कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि
वह रज्जु-सर्पादिके समान भय आदि
उत्पन्न करनेवाली है । अद्वयता
अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गल-
मयी है ॥ ३३ ॥



तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है

कुतश्चाद्वयता शिवा ? नाना-
भूतं पृथक्त्वमन्यस्यान्यसाद्यत्र
दृष्टं तत्राशिवं भवेत् ।

और भी अद्वयता क्यों मङ्गलमयी
है ?—जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका
नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है
वहीं अमङ्गल हो सकता है ।
[किन्तु—]

नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन ।

न पृथङ् नापृथक्किंचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥ ३४ ॥


यह नानात्व न तो आत्मस्वरूपसे है और न ~~अपने ही पृथक्त्वसे~~
कुछ है । कोई भी वस्तु न तो ब्रह्मसे पृथक् है और न अपृथक् ही—ऐसा
तत्त्ववेत्ता जानते हैं ॥ ३४ ॥

न ह्यत्राद्वये परमार्थसत्यात्मनि
प्राणादिसंसारजातमिदं जगदा-
त्मभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्य-
माणं नाना वस्तुवन्तरभूतं भवति ।
यथा रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन
निरूप्यमाणो न नानाभूतः
कल्पितः सर्पोऽस्ति तद्वत् । नापि
स्वेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते
कदाचिदपि रज्जुसर्पवत्कल्पि-
तत्वादेव ।

तथान्योन्यं न पृथक्प्राणादि
वस्तु यथाश्चान्महिपः पृथग्विद्यत
एवम् । अतोऽसत्त्वान्नापृथग्विद्यते
अन्योन्यं परेण वा किञ्चिदिति
एवं परमार्थतत्त्वमात्मविदो
ब्राह्मणा त्रिदुः । अतोऽशिवहेतु-
त्वाभावाद्दृश्यत्वं शिवेत्य-
भिप्रायः ॥ ३४ ॥

इस अद्वितीय परमार्थ सत्य
आत्मामें यह प्राणादि संसारजातरूप
जगत् आत्मभावसे—परमार्थ सत्यरूपसे
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात्
पृथक् वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता ।
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपसे
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प पृथक्-
रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार
[परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर
जगत् आत्मत्वे पृथक् वस्तु नहीं
ठहरता] ; और न यह, रज्जु-सर्पके
समान कल्पित होनेके कारण ही,
अपने प्राणादिसरूपसे कभी कुछ
रहता है ।

तथा जिस प्रकार घोड़ेसे भैंस
पृथक् है उस प्रकार प्राणादि वस्तु
आपसमें भी पृथक् नहीं हैं । इसी-
लिये असद्रूप होनेसे आपसमें अथवा
किसी अन्यसे कोई वस्तु अपृथक् भी
नहीं है—ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मणलेख
परमार्थतत्त्वको जानते हैं । अतः
अमङ्गलका हेतुताका अभाव होनेसे
अद्वयता ही मङ्गलमयी है—यह इसका
तात्पर्य है ॥ ३४ ॥



इस रहस्यके साक्षी कौन थे ?

तदेतत्सम्यग्दर्शनं स्तूयते— | अब इस सम्यग्ज्ञानकी स्तुति की जाती है—

वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः ।

निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः ॥ ३५ ॥

जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया है ॥३५॥

विगतरागभयद्वेषक्रोधादिसर्व-
दोषैः सर्वदा मुनिभिर्मननशीलै-
विवेकिभिर्वेदपारगैरवगतवेदार्थ-
तत्त्वैर्ज्ञानिभिर्निर्विकल्पः सर्ववि-
कल्पशून्योऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो
वेदान्तार्थतत्परैः प्रपञ्चोपशमः—
प्रपञ्चो द्वैतभेदविस्तारस्तस्योप-
शमोऽभावो यस्मिन्स आत्मा
प्रपञ्चोपशमोऽत एवाद्वयो
विगतदोषैरेव पण्डितैर्वेदान्तार्थ-
तत्परैः संन्यासिभिः परमात्मा
द्रष्टुं शक्यः, नान्यै रागादिकलु-
षितचेतोभिः स्वपक्षपातिदर्शनै-
स्तार्किकादिभिरित्यभिप्रायः ॥३५॥

जिनके राग भय और क्रोधादि समस्त दोष निवृत्त हों गये हैं उन मुनियों अर्थात् सर्वदा मननशील विवेकियों और वेदके पारगामियों यानी वेदार्थके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ-परायण तत्त्वज्ञानियोंद्वारा यह सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित निर्विकल्प और प्रपञ्चोपशम—द्वैतरूप भेदके विस्तारका नाम प्रपञ्च है उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है वह आत्मा प्रपञ्चोपशम है—इसीलिये जो अद्वय है ऐसा यह आत्मा पण्डित यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषहीन संन्यासियोंद्वारा ही देखा जा सकता है । जिनके चित्त रागादि दोषसे दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने पक्षका आग्रह करनेवाले हैं उन अन्य तार्किकादिको इस आत्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता—यह इसका अभिप्राय है ॥ ३५ ॥

तत्त्वदर्शनका आदेश

यस्मात्सर्वानर्थप्रशमरूपत्वाद्-
द्वयं शिवमभयम्—

क्योंकि सम्पूर्ण अनर्थोंका निवृत्ति-
स्थान होनेसे अद्वयत्व ही मङ्गल-
मय और अभयरूप है—

तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत्स्मृतिम् ।

अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् ॥ ३६ ॥

इसलिये इस (आत्मतत्त्व) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे
और अद्वैततत्त्वको प्राप्त कर लोकमें जडवत् व्यवहार करे ॥ ३६ ॥

अत एवं विदित्वैनमद्वैते स्मृतिं
योजयेत् । अद्वैतावगमायैव स्मृतिं
कुर्यादित्यर्थः । तच्चाद्वैतमवगम्या-
हमस्मि परं ब्रह्मेति विदित्वा-
शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज-
मात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीतं
जडवल्लोकमाचरेत् । अप्रख्याप-
यन्नात्मानमहमेवंविध इत्यभि-
प्रायः ॥ ३६ ॥

इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्वैत-
में मनोनिवेश करे; अर्थात् अद्वैतबोध-
के लिये ही चिन्तन करे । और
उस अद्वैतको जानकर अर्थात् 'मैं
ही परब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान प्राप्तकर,
यानी सम्पूर्ण लोकव्यवहारसे शून्य,
भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात्
अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव-
कर लोकमें जडवत् आचरण करे ।
तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हूँ'
इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता
हुआ व्यवहार करे ॥ ३६ ॥



तत्त्वदर्शिका आचरण

कथा चर्यया लोकमाचरे-
दित्याह—

लोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण
करे ? इसपर कहते हैं—

निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ।

चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् ॥ ३७ ॥

यतिको स्तुति नमस्कार और स्वधाकार (पैत्रकर्म) से रहित हो चल (शरीर) और अचल (आत्मा) में ही विश्राम करनेवाला होकर यादृच्छिक (अनायासलब्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला) हो जाना चाहिये ॥ ३७ ॥

स्तुतिनमस्कारादिसर्वकर्म-
वर्जितस्त्यक्तसर्वबाह्यैषणः प्रति-
पन्नपरमहंसपारिव्राज्य इत्यभि-
प्रायः—“एतं वै तमात्मानं
विदित्वा” (वृ० उ० ३।५।१)
इत्यादिश्रुतेः; “तद्बुद्धयस्त-
दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः”
(गीता ५।१७) इत्यादि-
स्मृतेश्च—चलं शरीरं प्रतिक्षण-
मन्यथाभावात्, अचलमात्म-
तत्त्वम्, यदाकदाचिद्भोजना-
दिव्यवहारनिमित्तमाकाशवदचलं
स्वरूपमात्मतत्त्वमात्मनो निकेत-
माश्रयमात्मस्थितिं विस्मृत्याह-
मिति मन्यते यदा तदा चलो देहो
निकेतो यस्य सोऽयमेवं चलाचल-
निकेतो विद्वान्न पुनर्बाह्यविषया-
श्रयः; स च यादृच्छिको भवेत् ।

स्तुति नमस्कारादि सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित तथा बाह्य एपणाओंका त्यागी हो, अर्थात् “निश्चय इस उस आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो उसीके शरणापन्न हैं” इस स्मृतिके अनुसार परमहंस पारिव्राज्य भावको प्राप्त हो—प्रतिक्षण अन्यथा भावको प्राप्त होनेवाला होनेसे ‘चल’ शरीर-को कहते हैं तथा ‘अचल’ आत्म-तत्त्वका नाम है—इस प्रकार जब-तब भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे आकाशके समान अविचल अपने स्वरूपभूत आत्मतत्त्वको जो अपना निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात् आत्मस्थितिको भूलकर जब ‘मैं हूँ’ इस प्रकार अभिमान करता है, उस समय ‘चल’ यानी शरीर ही जिसका निकेत है—इस प्रकार विद्वान् चलाचलनिकेत होकर अर्थात् फिर बाह्य विषयोंका आश्रय न करके यादृच्छिक हो जाय; तात्पर्य यह कि

यदृच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रास- अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन,
मात्रदेहस्थितिरित्यर्थः ॥ ३७ ॥ आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसकी
देहस्थिति है—देहा हों जाय ॥३७॥



अविचल तत्त्वनिष्ठाका विद्याम

तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः ।


तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥

[निर वह विवेकी पुरुष] आध्यात्मिक तत्त्वको देखकर और बाह्य
तत्त्वका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत और तत्त्वमें ही रमण करनेवाला होकर
तत्त्वसे च्युत न हो ॥ ३८ ॥

बाह्यं पृथिव्यादितत्त्वम् आध्या- पृथिवी आदि बाह्य तत्त्व और
त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा- देहादिरूप आध्यात्मिक तत्त्व
दिवत्स्वप्नमायादिवच्च असत् “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्”
इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु-
सर्पादिके समान एवं स्वप्न वा मायाके
(छा० उ० ६।१।४) इत्या- समान निर्या हैं; तथा “वह सत्य
है, वह आत्मा है और वही तू है”
इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर-
भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण-
रहित, कायेरहित, अन्तर्बाह्यशून्य,
परिपूर्ण, आकाशके समान सर्वगत,
मृदु, अचल, निर्गुण, निष्कल और
निष्क्रिय: “तत्सत्यं स आत्मा
तत्त्वमसि” (छा० उ० ६।८-१६)
इति श्रुतेः । इत्येवं तत्त्वं दृष्ट्वा
तत्त्वीभूतस्तदारामो न बाह्यरमणो
रत न होकर; जिस प्रकार मनको

यथातत्त्वदर्शी कश्चित्तमात्म-
त्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनमनु-
चलितमात्मानं मन्यमानस्तत्त्वा-
चलितं देहादिभूतमात्मानं
कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म-
तत्त्वादिदानीमिति; समाहिते
तु मनसि कदाचित्तत्त्वभूतं
प्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमस्मि
तत्त्वीभूत इति; न तथात्मवि-
द्भवेत् । आत्मन एकरूपत्वा-
त्स्वरूपप्रच्यवनासम्भवाच्च ।
सदैव ब्रह्मासीत्यप्रच्युतो भवेत्त-
त्त्वात्सदाप्रच्युतात्मतत्त्वदर्शनो
भवेदित्यभिप्रायः “शुनि चैव
श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः”
(गीता १२।१८) “समं सर्वेषु
भूतेषु” (गीता १३।२७)
इत्यादिस्मृतेः ॥३८॥

ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व-
दर्शी पुरुष किसी समय चित्तके
चञ्चल होनेपर आत्माको भी चलाय-
मान मानकर अपनेको तत्त्वसे
विचलित और देहादिरूप समझकर
मानता है कि इस समय मैं तत्त्वसे
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको
तत्त्वीभूत और प्रसन्न समझकर
मानता है कि इस समय मैं तत्त्वस्थ
हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो
जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा
एकरूप है और उसका स्वरूपसे च्युत
होना भी सम्भव नहीं है । अतः वह
सदा ही “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा निश्चयकर
तत्त्वसे च्युत न हो; तात्पर्य यह कि
सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा
कि “कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों-
की समान दृष्टि होती है” तथा “सम्पूर्ण
भूतोंमें समान भावसे स्थित” आदि
स्मृतियोंसे प्रमाणित होता है ॥३८॥



इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य

श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्ये वैतथ्याख्यं

द्वितीयं प्रकरणम् ॥ २ ॥



अद्वैतप्रकरण

—३३—

ओङ्कारनिर्णय उक्तः प्रपञ्चो-
पशमः शिवोऽद्वैत आत्मेति
प्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न
विद्यत इति च । तत्र द्वैताभावस्तु
वैतथ्यप्रकरणेन स्वप्नमायागन्ध-
र्वनगरादिदृष्टान्तैर्दृश्यत्वाद्यन्त-
वत्त्वादिहेतुभिस्तर्कणं च प्रति-
पादितः । अद्वैतं किमागममात्रेण
प्रतिपत्तव्यमाहोस्वित्तर्कणापीत्यत
आह—शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम् ;
तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणसारभ्यते ।
उपास्योपासनादिभेदजातं सर्वं
वितर्कं केवलश्चात्माद्वयः परमार्थ
इति स्थितमतीते प्रकरणे; यतः—

[आगमप्रकरणमें] ओङ्कारका
निर्णय करते समय यह बात केवल
प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा
प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और
अद्वैतस्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने-
पर द्वैत नहीं रहता । फिर वैतथ्य-
प्रकरणमें स्वप्न, माया और गन्धर्व-
नगरादिके दृष्टान्तोंसे दृश्यत्व एवं
आदि-अन्तवत्त्व आदि हेतुओंद्वारा
तर्कसे भी द्वैतके अभावका प्रतिपादन
किया गया । किन्तु वह अद्वैत क्या
शास्त्रमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा
तर्कसे भी जाना जा सकता है ?
इसपर कहते हैं—तर्कसे भी जाना
जा सकता है । सो किस प्रकार ?
इसी बातको बतलानेके लिये अद्वैत
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है ।
उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण
भेद मिथ्या है, केवल आत्मा ही अद्वय
परमार्थस्वरूप है—यह बात पिछले
प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योंकि—

भेददर्शी कृपण है

उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते ।

प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥

उपासनाका आश्रय लेनेवाला जीव कार्य ब्रह्ममें ही रहता है [अर्थात् उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि] उत्पत्तिसे पूर्व ही सत्र अज [अर्थात् अजन्मा ब्रह्मस्वरूप] था । इसलिये वह कृपण (दीन) माना गया है ॥ १ ॥

उपासनाश्रित उपासनामात्मनो

मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको-
 ऽहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं
 कृत्वा जाते ब्रह्मणीदानीं
 वर्तमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादूर्ध्वं
 प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्चाजमिदं
 सर्वमहं च । यदात्मकोऽहं
 प्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते
 ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनया
 पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव-
 मुपासनाश्रितो धर्मः साधको
 येनैवं क्षुद्रब्रह्मवित्तेनासौ कारणेन
 कृपणो दीनोऽल्पकः स्मृतो
 नित्याजब्रह्मदर्शिमिरित्यभिप्रायः।
 “यद्वाचानभ्युदितं येन वाग-
 भ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं
 यदिदमुपासते” (के० उ० १।४)
 इत्यादि श्रुतेस्तलवकाराणाम् ॥१॥

‘उपासनाश्रितः’—उपासनाको अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने-वाला पुरुष अर्थात् ‘मैं उपासक हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है । उसकी उपासना करके इस समय कार्यब्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूर्व भी यह सत्र और मैं अजरूप ही थे । उत्पत्तिसे पूर्व मैं जैसा था अब उत्पन्न होकर जातब्रह्ममें वर्तमान हुआ अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी रूपको प्राप्त हो जाऊँगा’—इस प्रकार उपासनाका आश्रय लेनेवाला साधक जीव क्योंकि क्षुद्रब्रह्मवेत्ता है, इस कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा-ब्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं-द्वारा कृपण—दीन अर्थात् क्षुद्र माना गया है—यह इसका अभिप्राय है; जैसा कि “जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है, वही ब्रह्म है—ऐसा जान; जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है” इत्यादि तलवकार-श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १ ॥

अत्र पर्याप्तिसंख्या प्रतिज्ञा

सवाक्षाभ्यन्तरमजमात्मानं
प्रतिपत्तुमज्ञानुवक्षविद्यया दीन-
मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं
जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रितः
सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः
कृपणो भवति यस्मान्—

बाहर और भीतर वर्तमान
अजन्ना अन्नाको प्राप्त करनेमें
असमर्थ होनेके कारण अविद्यावश
अजन्मेको दीन माननेवाला पुरुष,
क्योंकि मैं उद्वेग हुआ हूँ, उद्वेग
हूँ ब्रह्ममें ही वर्तमान हूँ और उस-
के उगमनाका आश्रय लेकर ही
ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा, इस प्रकार
माननेके कारण दीन है—

अतो ब्रह्माभ्यन्तर्पर्ययमजाति समस्तां गतम् ।

यथा न जायते किञ्चिज्जायमानं समन्ततः ॥ २ ॥

इसलिये अब मैं सबके समानताको प्राप्त करनेरहित अकृपणभाव
(अजन्ना ब्रह्म) का वर्णन करता हूँ [जिससे यह समझने का जायगा
कि] किन प्रकार सब ओर उद्वेग होनेपर भी कुछ उद्वेग नहीं हुआ ॥२॥

अतो ब्रह्माभ्यन्तर्पर्ययमकृपण-
भावमजं ब्रह्म । तद्वि कार्पण्या-
स्यदम् “यत्रान्योऽन्यस्यस्यत्य-
न्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं
मत्पर्यमसत्” (छा० उ० ७। २४।
१) “वाचारम्भणं विकारो
नामधेयम्” (छा० उ० ६। १। ४)
इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्विपर्ययं
सवाक्षाभ्यन्तरमजमकार्पण्यं भूमा-

इसलिये मैं अकार्पण्य अकृपण-
भाव अर्थात् अजन्ना ब्रह्मका वर्णन
करता हूँ । “जहाँ अन्य अन्यको
देखता है, अन्यको सुनता है और
अन्यको ही जानता है वह अल्प है वह
नरक्षाल और असत् है” “विकार
वागीसे आत्मन होनेवाला नाममात्र
है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार
उद्वेग जातब्रह्म तो कृपणताका ही
आश्रय है । उससे विपरीत बाहर-
भीतर वर्तमान अजन्ना भूनासङ्क

ख्यं ब्रह्म । यत्प्राप्याविद्याकृत-
सर्वकार्पण्यनिवृत्तिस्तदकार्पण्यं
वक्ष्यामीत्यर्थः ।

तदजाति, अविद्यमाना जाति-
रस्य समतां गतं सर्वसाम्यं
गतम् । कस्मात् ? अवयववैपम्या-
भावात् । यद्वि सावयवं वस्तु
तदवयववैपम्यं गच्छजायत इत्यु-
च्यते । इदं तु निरवयवत्वा-
त्समतां गतमिति न कैश्चिदवयवैः
स्फुटत्यतोऽजात्यकार्पण्यम् ।
समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते
किञ्चिदल्पमपि न स्फुटति
रज्जुसर्पवद्विद्याकृतदृष्ट्या जाय-
मानं येन प्रकारेण न जायते
सर्वतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं
प्रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ २ ॥

ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता-की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण भावसे रहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा—यह इसका तात्पर्य है ।

वह अजाति अर्थात् जिसकी जाति न हो और समताको प्राप्त अर्थात् सबकी समानताको प्राप्त है । ऐसा क्यों है ? क्योंकि उसमें अवयवोंकी विषमताका अभाव है । जो वस्तु सावयव होती है वह अवयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके कारण 'उत्पन्न होती है' ऐसे कही जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो निरवयव होनेके कारण समताको प्राप्त है, इसलिये किन्हीं भी अवयवोंके रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता । अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात् अकार्पण्यरूप है । जिस प्रकार कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात् रज्जु-सर्पके समान आविद्यकदृष्टिसे उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता—सब ओर अजन्मा ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारको श्रवण करो—यह इसका अभिप्राय है ॥ २ ॥

जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त

अजाति ब्रह्माकार्पण्यं वक्ष्या- : मैं अजन्मा ब्रह्मका जो कृपण-
मीति प्रतिज्ञातम् । तत्सिद्धचर्थः । भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ—
हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामीत्याह— ऐसी प्रतिज्ञा की है । उसकी सिद्धिके
लिये हेतु और दृष्टान्त भी बतलाता
हूँ—इस अभिप्रायसे कहते हैं—

आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिदितः ।

घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम् ॥ ३ ॥

आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशके समान जीवरूपसे उत्पन्न हुआ है । तथा [मृत्तिकासे] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है । आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दृष्टान्त है ॥ ३ ॥

आत्मा परो हि यस्मादाकाश- : क्योंकि परमात्मा ही आकाशवद्
वत्सूक्ष्मो निरवयवः सर्वगतः अर्थात् आकाशके समान सूक्ष्म
आकाशवदुक्तो जीवैः क्षेत्रज्ञैर्घटा- निरवयव और सर्वगत कहा गया है
काशैरिव घटाकाशतुल्य उदितः और वही घटाकाशसदृश-क्षेत्रज्ञ
जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा
उक्तः स एवाकाशसमः पर गया है, इसलिये वह परमात्मा ही
आत्मा । आकाशके समान है ।

अथ वा घटाकाशैर्यथाकाश- : अथवा यों समझो कि जिस
उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म- प्रकार घटाकाशके रूपमें आकाश
भिरुत्पन्नः । जीवात्मनां परस्मा- उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा
दात्मन उत्पत्तिर्या श्रूयते वेदान्तेषु जीवात्माओंके रूपसे उत्पन्न हुआ
है । तात्पर्य यह है कि वेदान्तोंमें
जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति

सा महाकाशाद्घटाकाशोत्पत्ति-
समा न परमार्थत इत्याभिप्रायः ।

तस्मादेवाकाशाद्घटादयः
संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश-
स्थानीयात्परमात्मनः पृथिव्या-
दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्च
कार्यकरणलक्षणा रज्जुसर्पवद्वि-
कल्पिता जायन्ते । अत उच्यते
घटादिवच्च संघातैरुदित इति ।
यदा मन्दबुद्धिप्रतिपिपादयिपया
श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा-
दीनां तदा जाताबुपगम्यमानाया-
मेतन्निदर्शनं दृष्टान्तो यथोदिता-
काशवदित्यादिः ॥ ३ ॥

सुनी जाती है वह महाकाशसे
घटाकाशोंकी उत्पत्तिके समान है,
परमार्थतः नहीं ।

उसी आकाशसे जिस प्रकार घट
आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी
प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे
रज्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए
पृथिवी आदि भूतसंघात और शरीर
तथा इन्द्रियरूप आध्यात्मिकभाव
उत्पन्न होते हैं । इसीसे कहा जाता
है—घटादिके समान देहादिसंघात-
रूपसे भी उदित हुआ है । जिस
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति-
पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने
आत्मासे जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन
किया है उस समय उनकी उत्पत्ति
माननेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके
समान ही निदर्शन—दृष्टान्त है ॥३॥

जीवके विलीन होनेमें दृष्टान्त

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा ।

आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥

घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें लीन
हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विलीन हो जाते हैं ॥ ४ ॥

यथा घटाद्युत्पत्त्या घटाकाशा-
द्युत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रलये

जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिसे
घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और
जिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा-

घटाकाशादिप्रलयस्तद्देहादि-
संघातोत्पत्त्या जीवोत्पत्तिस्त-
त्प्रलये च जीवानामिहात्मनि
प्रलयो न स्यत् इत्यर्थः ॥ ४ ॥

काशादिका नाश होता है उसी प्रकार देहादि * संघातकी उत्पत्तिसे जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका लय होनेपर जीवोंका इस आत्मामें लय हो जाता है । तात्पर्य यह है कि स्वतः उनका लय नहीं होता ॥४॥

आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त

सर्वदेहेष्वात्मैकत्वं एकस्मि-
ञ्जननमरगसुखादिभत्यात्मनि
सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल-
साङ्ग्यं च स्यादिति य आहुर्द्वैति-
नस्तान्प्रतीदुच्यते—

सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण और सुख-दुःखादिमान् होनेपर समीचीन उसका सम्बन्ध होगा तथा कर्म और फलकी संकरता हो जायगी [अर्थात् कर्म किसीका होगा और उसका फल कोई और ही भोगेगा] इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उनके प्रति कहा जाता है—

यथैकस्मिन्घटाकाशे

रजोधूमादिभिर्युते ।

न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और धुएँ आदिसे युक्त होनेपर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मोंसे-ल्लिप्त नहीं होते । [अर्थात् एक जीवके सुखादिमान् होनेपर सब जीव सुखादिमान् नहीं हो जाते] ॥ ५ ॥

* यहाँ 'देह' शब्दसे लिङ्ग-देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नाश लिङ्ग-देहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं ।

यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमा-
दिभिर्युते संयुक्ते न सर्वे घटा-
काशादयस्तद्रजोधूमादिभिः

संयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः।

नन्वेक एवात्मा ?

वाढम्: ननु न श्रुतं त्वया-

काशावत्सर्वसंघातेष्वेक एवात्मैति?

यद्येक एवात्मा तर्हि सर्वत्र
सुखी दुःखी च स्यात् ।

न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति ।

आत्मैकत्वे
सांख्यश्रेय-
निवृत्तिः
न हि सांख्य आत्मनः
सुखदुःखादिसत्त्वमि-
च्छति बुद्धिसमवाया-

भ्युपगमात्सुखदुःखा-
दीनाम् । न चोपलब्धिस्वरूपस्या-
त्मनो भेदकल्पनार्यां प्रमाणमस्ति ।

भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या-
नुपपत्तिरिति चेत्, न; प्रधान-

कृतस्यार्थस्यात्मन्यसमवायात् ।

यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो
वार्थः पुरुषेषु भेदेन समवैति

जिस प्रकार एक घटाकाशके
धूलि और धुएँसे युक्त होनेपर समस्त
घटाकाशादि उस धूलि और धुएँसे
संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव
भी सुखादिसे लित नहीं होते ।

पूर्व०—आत्मा तो एक ही है न ?

सिद्धान्ती—हाँ, क्या तूने यह
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोंमें
आकाशके समान व्याप्त एक ही
आत्मा है ?

पूर्व०—यदि आत्मा एक ही है
तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा ।

सिद्धान्ती—सांख्यवादीकी यह
आपत्ति सम्भव नहीं है । सांख्य
आत्माका सुख-दुःखादिमत्त्व स्वीकार
नहीं करता, क्योंकि सुख-दुःखादि तो
बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके
सिवा अनुभवस्वरूप आत्माकी भेद-
कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है ।

यदि कहो कि भेद न होनेपर तो
प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं;
क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य-
का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है ।
यदि प्रधानकर्तृक बन्ध या मोक्ष
पुरुषोंमें पृथक्-पृथक्-रूपसे समवेत

ततः प्रधानस्य पारार्थ्यमात्मैकत्वे
नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेद-
कल्पना । न च सांख्यैर्वन्धो
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युप-
गम्यते । निर्विशेषाश्च चेतन-
मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते ।
अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव
प्रधानस्य पारार्थ्यं सिद्धं न तु
पुरुषभेदप्रयुक्तमिति । अतः
पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य
पारार्थ्यं हेतुः ।

न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनायां
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम् ।
परसत्तामात्रमेव चैतन्निमित्ती-
कृत्य स्वयं वध्यते मुच्यते च
प्रधानम् । परध्वोपलब्धिमात्र-
सत्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्तौ हेतुर्न
केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयैव
पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरि-
त्यागश्च ।

होते तो आत्माका एकत्व माननेमें
प्रधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो
सकती थी और तब पुरुषोंके भेदकी
कल्पना करनी ठीक थी । किन्तु
सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे
तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतन-
मात्र ही मानते हैं । अतः प्रधानकी
परार्थता तो केवल पुरुषकी सत्ता-
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेदके
कारण नहीं । इसलिये पुरुषोंकी
भेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता
कारण नहीं है ।

इसके सिवा सांख्यवादियोंके
पास पुरुषोंका भेद माननेमें और
कोई प्रमाण नहीं है । पर-
(आत्मा) की सत्तामात्रको ही
निमित्त वनाकर प्रधान स्वयं बन्ध
और मोक्षको प्राप्त होता है और
वह पर केवल उपलब्धिमात्र सत्ता-
स्वरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमें हेतु
है, किसी विशेषताके कारण नहीं ।
अतः केवल मूढतासे ही पुरुषोंकी
भेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग
किया जाता है ।

ये त्वाहुर्वैशेषिकादय इच्छादय

आत्मसमवायिन इति;

वैशेषिकमत-
सर्वाक्षा

तदप्यसत् । स्मृति-

हेतूनां संस्काराणाम-

प्रदेशनत्यात्मन्यसमवायात् ।

आत्ममनःसंयोगाच्च स्मृत्युत्पत्तेः

स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्वा

सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्गः ।

न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा-

दिहीनानामात्मनां

मन आदिभिः
आत्मसंयोगा-

मन आदिभिः संवन्धो

युक्तः । न च द्रव्या-

द्रूपादयो गुणाः कर्म-

सामान्यविशेषसमवाया वा

भिन्नाः सन्ति परेषाम् । यदि

इसके सिवा वैशेषिकादि मतावलम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन (निरवयव) आत्मासे समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका कोई नियम ही सम्भव नहीं है अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतिर्योंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । *

इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित

भिन्नजातीय आत्माओंका मन आदि-के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी नहीं है । तथा दूसरोंके मतमें द्रव्यसे रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न भी नहीं हैं । † यदि दूसरोंके मतमें

* उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है ही । इसके सिवा असमवायी कारणकी तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतिर्योंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका उद्बोध न होनेके कारण एक साथ स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार और उनका उद्बोध ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं—इस विषयमें उनका एक मत नहीं है । इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती ।

† वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ

ह्यत्यन्तभिन्ना एव द्रव्यात्स्यु-
रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति
द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः ।

अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः
संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्,
न । इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य
आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्धत्वा-
न्नायुतसिद्धत्वोपपत्तिः । आत्मना-
युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म-
गतमहत्त्ववन्नित्यत्वप्रसङ्गः । स
चानिष्टः । आत्मनोऽनिर्मोक्ष-
प्रसङ्गान् ।

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं

गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें । गुण—रूप, रस एवं गन्ध आदिको कहते हैं । कर्म—गमनादि क्रिया । सामान्य—जाति, मनुष्यत्व, पशुत्वादि । विशेष—परमाणुओंका परस्पर भेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न प्रकारके परमाणुओंसे विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है । समवाय—एक प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है ।

१. जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों ।

अयुतसिद्धत्वमं शर पद्य हैं—१ अभिन्नकालमें होना; २ अभिन्न देशमें होना; ३ अभिन्न स्वभाववाले होना; ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाले होना । उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं—

वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मासे अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं हो सकता ।

यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थोंका समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं;* क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोंसे नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके कारण उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्भव नहीं है । यदि इच्छा आदि आत्माके साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत महत्त्वके समान उनकी भी नित्यताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । और यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि इत्तसे आत्माके अनिमोक्षका प्रसङ्ग आ जाता है ।

यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है तो द्रव्यके साथ उसका कोई अन्य

यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो सम्बन्धवतलाना चाहिये, जैसा कि द्रव्य और गुणका है । और यदि कोई नित्यसम्बन्ध एवेति न वाच्यमिति कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध ही है, इसलिये उसके साथ कोई चेतथा च समवायसम्बन्धवतां सम्बन्धवतलानेकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसी अवस्थामें समवाय-नित्यसम्बन्धप्रसङ्गात्पृथक्त्वा- सम्बन्धवालोंका नित्यसम्बन्ध होनेके कारण उनकी पृथक्ता सम्भव नहीं है । और यदि द्रव्यादिको परस्पर नुपपत्तिः । अत्यन्तपृथक्त्वे च अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस द्रव्यादीनां स्पर्शवद्स्पर्शद्रव्य- प्रकार स्पर्शवान् और स्पर्शहीन योरिव पृथ्थर्थानुपपत्तिः । द्रव्योंमें परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ।

इच्छाद्युपजनापायवद्गुणवत्त्वे यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति-चात्मनोऽनित्यत्व- विनाशशील गुणोंवाला माना जाय प्रसङ्गः । देहफलादि उपस्थित हो जायगा । तथा उसके वत्सावयवत्वं विक्रि- देह और फलादिके समान सावयवत्व एवं देहादिके समान ही विक्रियावत्त्व यावत्त्वं च देहा- —ये दो दोष भी अपरिहार्य ही दिवदंवेति दोषावपरिहार्यौ । होंगे । जिस प्रकार कि आकाशका यथा त्वाकाशस्याविद्याध्यारो- अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियोंके पितरजोधूममलवत्त्वादिदोषवत्त्वं कारण ही धूलि, धूम और मलसे तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितबुद्ध्या- युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका द्युपाधिकृतसुखदुःखादिदोषवत्त्वे भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि विवन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे विरुध्यन्ते । सर्ववादिभिरविद्या- युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सभी वादियोंने

भारतमनो
व्यावहारिक-
बन्धमोक्षा-
पुपपत्तयम्

कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्थानभ्युपगमाच्च । तस्मादात्मभेदपरिकल्पना वृथैव तार्किकैः क्रियत इति ॥ ५ ॥

व्यवहारको अविद्याकृत माना है, परमार्थरूप नहीं माना । अतः तार्किकलोग जीवोंके भेदकी कल्पना वृथा ही करते हैं ॥ ५ ॥

व्यावहारिक जीवभेद

कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव व्यवहार एकस्मिन्नात्मन्यविद्याकृत उपपद्यत इति, उच्यते—

किन्तु एक ही आत्मानें, आत्माओंके भेदके कारण होनेवालेके समान, अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार सम्भव है ? इसपर कहते हैं—

रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै ।

आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥

[घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले] भिन्न-भिन्न आकाशोंके रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं है । उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६ ॥

यथेहाकाश एकस्मिन्घटकरकापवरकाद्याकाशानामल्पत्वमहत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा कार्यमुदकाहरणधारणशयनादिसमाख्याश्च घटाकाशकरकाकाश इत्याद्यास्तत्कृताश्च भिन्ना दृश्यन्ते । तत्र तत्र वै व्यवहारविषय इत्यर्थः । सर्वोऽयमाकाशे रूपादिभेदकृतो व्यवहारो न परमार्थ

जिस प्रकार इस एक ही आकाशमें घट, कमण्डलु और मठादि आकाशोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपोंमें भेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें उनके किये हुए जल लाना, जल धारण करना और शयन करना आदिकार्य एवं घटाकाश करकाकाश आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं । किन्तु आकाशमें रूपादिके कारण होनेवाला यह सब व्यवहार पार-

एव । परमार्थतस्त्वाकाशस्य न
भेदोऽस्ति । न चाकाशभेद-
निमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण
परोपाधिकृतं द्वारम् । यथैतत्त-
द्ब्रह्मोपाधिभेदकृतेषु जीवेषु
घटाकाशस्थानीयेष्वात्मसु नि-
रूपणात्कृतो बुद्धिमद्भिर्निर्णयो
निश्चय इत्यर्थः ॥ ६ ॥

मार्थिक ही नहीं हैं । परमार्थतः तो
आकाशका कोई भेद नहीं है । अन्य
उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुतः
आकाशके भेदके कारण होनेवाला
कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा
कि यह [आकाशका भेद] है
उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे
किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवोंमें
भेदका निरूपण किया जानेके कारण
बुद्धिमानोंने [उस भेदका अपार-
मार्थिकत्व] निश्चय किया है—यह
इसका तात्पर्य है ॥ ६ ॥

जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है

ननु तत्र परमार्थकृत एव
घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद-
व्यवहार इति ? नैतदस्ति, यस्मात्

किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप
और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है
वह तो वास्तविक ही है ? [ऐसी
शंका होनेपर कहते हैं—] यह बात
नहीं है, क्योंकि—

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा ।

नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥

जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ ७ ॥

परमार्थाकाशस्य घटाकाशो
न विकारः; यथा सुवर्णस्य

परमार्थाकाशका घटाकाश न तो
विकार है, जैसे कि सुवर्णके रुचकादि

रुचकादिर्यथा वापां फेनबुद्-
बुदहिमादिः; नाप्यवयवो यथा
वृक्षस्य शाखादिः । न तथा
आकाशस्य घटाकाशो विकारा-
वयवौ यथा तथा नैवात्मनः
परस्य परमार्थसतो महाकाशस्था-
नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः
सदा सर्वदा यथोक्तदृष्टान्तवन्न
विकारो नाप्यवयवः । अत
आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृपै-
वेत्यर्थः ॥ ७ ॥

आमूषण तथा जलके फेन, बुद्बुद
और हिम आदि हैं, और न जैसे
शाखादि वृक्षके अवयव हैं उस
प्रकार उसका अवयव ही है । इसी
तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश
विकार या अवयव नहीं है उसी
प्रकार, अर्थात् उपर्युक्त दृष्टान्तानुसार
ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्
परमात्माका घटाकाशस्थानीय जीव,
किसी अवस्थामें विकार या अवयव
नहीं है । अतः तात्पर्य यह है
कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ्या
ही है ॥ ७ ॥

आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है

यस्माद्यथा घटाकाशादिभेद-
बुद्धिनिबन्धनो रूपकार्यादिभेद-
व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद-
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः ।
तस्मात्तत्कृतमेव क्लेशकर्मफलमल-
वत्त्वमात्मनो न परमार्थत
इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा-
दयिषन्नाह—

क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि
भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एवं
कार्य आदि भेदव्यवहार है उसी
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है;
इसलिये उसका किया हुआ ही
आत्माका क्लेश, कर्मफल और मलसे
युक्त होना है, परमार्थतः नहीं—
इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन
करनेकी इच्छासे कहते हैं—

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः ।

तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलैः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार मूर्ख लोगोंको [धृष्टि आदि] मलके कारण आकाश मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आत्मा भी [राग-द्वेषादि] मलसे मलिन हो जाता है ॥ ८ ॥

यथा भवति लोके बालानाम-
विवेकिनां गगनमाकाशं घन-
रजोधूमादिमलैर्मलिनं मलवन्न
गगनं मलवद्याथात्म्यविवेकिनाम्,
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो
विज्ञाता प्रत्यक्कलेशकर्मफलमलै-
र्मलिनोऽशुद्धानां प्रत्यगात्मविवेक-
रहितानां नात्मविवेकवताम् ।

नह्यपरदेशस्तृड्वत्प्राण्यध्यारो-
पितोदकफेनतरङ्गादिमांस्तथा
नात्माबुधारोपितक्लेशादिमलै-
र्मलिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

लोकमें जिस प्रकार बाल अर्थात्
अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आकाश
मेघ, धूँटि और घुआँ आदि मलोंके
कारण मलिन—मलयुक्त हो जाता है,
किन्तु आकाशके यथार्थ स्वरूपको
जाननेवालोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं
होता; उसी प्रकार अबुद्ध—प्रत्य-
गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी
दृष्टिमें, जो प्रत्यक् और सबका साक्षी
है वह परात्मा भी क्लेश, कर्म और
फलरूप मलोंसे मलिन हो जाता है;
किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दृष्टिमें ऐसा
नहीं होता ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार
ऊसरदेश तृपित प्राणीके आरोपित
किये हुए जलके फेन और तरङ्गादि-
से युक्त नहीं होता उसी प्रकार
आत्मा भी अज्ञानियोंद्वारा आरोपित
क्लेशादि मलोंसे मलिन नहीं
होता ॥ ८ ॥

पुनरप्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति—

फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही
विस्तार कहते हैं—

मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि ।

स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः ॥ ९ ॥

यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है । [अर्थात् इन सब व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विभु है] ॥९॥

घटाकाशजन्मनाशगमना-
गमनस्थितिवत्सर्वशरीरेष्व्वात्मनो
जन्ममरणादिराकाशेनाविलक्षणः
प्रत्येतव्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥

घटाकाशके जन्म, नाश, गमन,
आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण
शरीरोमें आत्माके जन्म-मरणादिको
आकाशसे अविलक्षण (भेदरहित)
ही अनुभव करना चाहिये—यह
इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥



संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिताः ।

आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते ॥ १० ॥


देहादि समस्त संघात स्वप्नके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं । उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु नहीं है ॥ १० ॥

घटादिस्थानीयास्तु देहादि-
संघाताः स्वप्नदृश्यदेहादिवन्मा-
याविकृतदेहादिवच्चात्ममायावि-
सर्जिताः; आत्मनो मायाविद्या
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः
सन्तीत्यर्थः । यद्याधिक्यमधिक-
भावस्तिर्यग्देहाद्यपेक्षया देवादि-

घटादिस्थानीय देहादिसंघात
स्वप्नमें दीखनेवाले देहादिके समान
तथा मायावीके रचे हुए देहादिके
सदृश आत्माकी मायासे ही रचे
हुए हैं । तात्पर्य यह है कि आत्माकी
माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत
क्रिये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं ।
यदि तिर्यगादि देहोंकी अपेक्षा देवता

कार्यकरणसंघातानां यदि वा सर्वेषां समतैव नैषामुपपत्तिः सम्भवः सद्भावप्रतिपादको हेतुर्विद्यते नास्ति, हि यस्मात्तस्मादविद्याकृता एव न परमार्थतः सन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी अधिकता—उत्कृष्टता है अथवा यदि [तत्त्वदृष्टिसे] सबकी समानता ही है, तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १० ॥



उत्पत्त्यादिवर्जितस्याद्वयस्यात्मतत्त्वस्य श्रुतिप्रमाणकत्वप्रदर्शनार्थं वाक्यान्वुपन्यस्यन्ते—

उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय आत्मतत्त्वका श्रुतिप्रमाणकत्वप्रदर्शित करनेके लिये [उपनिषद्के] वाक्योंका उल्लेख किया जाता है—

रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके ।

तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११ ॥

तैत्तिरीय श्रुतिमें जिन रसादि [अन्नमयादि] कोशोंकी व्याख्या की गयी है, आकाशवत् परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित किया गया है ॥ ११ ॥

रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय इत्येवमादयः कोशा इव कोशा अस्यादेरिवोत्तरोत्तरस्यापेक्षया वहिर्भावात्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टमाख्यातास्तैत्तिरीयके तैत्तिरीयकशाखोपनिषद्ब्रह्म्यां तेषां कोशानामात्मा येनात्मना पञ्चापि

तैत्तिरीयकमें अर्थात् तैत्तिरीकशाखोपनिषद्ब्रह्मलीमें जिन रसादि—अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि कोशोंकी व्याख्या—स्पष्ट विवेचना की गयी है और जो उत्तरोत्तरकी अपेक्षा पूर्व-पूर्व वहिःस्थित होनेके कारण खड्गके कोशके समान कोश कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा,

कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन,
स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा-
जीवः ।

कोऽसावित्याह—पर एवात्मा
यः पूर्वं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”
(तै० उ० २ । १) इति प्रकृतः ।
यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवदा-
काशादिक्रमेण रसादयः कोश-
लक्षणाः संघाता आत्ममाया-
विसर्जिता इत्युक्तम् । स आत्मा-
स्माभिर्यथा खं तथेति संप्रकाशित
“आत्मा ह्याकाशवत्” (अद्वैत०
३) इत्यादिश्लोकैः । न तार्किक-
परिकल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि-
प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः ॥११॥

जिस अन्तरतम आत्माके कारण
पाँचों कोश आत्मवान् हैं, वही सबके
जीवनका निमित्त होनेके कारण
'जीव' कहलता है ।

वह कौन है ? इसपर कहते हैं—
वह परमात्मा ही है, जिसका पहले
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि
वाक्योंमें प्रसङ्ग है और जिस
आत्मासे स्वप्न और माया आदिके
समान आकाशादि क्रमसे कोशरूप
संघान आत्माकी मायासे ही रचे
गये हैं—ऐसा कहा गया है । उस
आत्माको हमने “आत्मा ह्याकाश-
वत्” इत्यादि श्लोकोंमें, जैसा आकाश
है उसीके समान प्रकाशित किया
है । तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों-
के कल्पना किये हुए आत्माके समान
मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला
नहीं है ॥ ११ ॥



द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् ।

पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२ ॥

श्लोकमें, जिस प्रकार पृथिवी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित
हो रहा है उसी प्रकार [बृहदारण्योक्त] मधु ब्राह्मणमें [अध्यात्म और
अधिदैवत—इत] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥

किं चाधिदैवमध्यात्मं च
 तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः पृथि-
 व्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर
 एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति
 द्वयोर्द्वयोरद्वैतक्षयात्परं ब्रह्म
 प्रकाशितम् । केत्याह—ब्रह्म-
 विद्यारूपं मध्वमृतममृतत्वं मोद-
 नहेतुत्वाद्विज्ञायते यस्मिन्निति
 मधुज्ञानं मधुब्राह्मणं तस्मिन्नि-
 त्यर्थः । किमिवेत्याह—पृथिव्या-
 मुदरे चैव यथैक आकाशोऽनुमा-
 नेन प्रकाशितो लोके तद्वदि-
 त्यर्थः ॥ १२ ॥

तथा अधिदैवत और अध्यात्म-
 भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय
 पुरुष पृथिवीके भीतर है और जो
 विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ
 है—इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपर्यन्त
 दोनों स्थानोंमें परब्रह्मका ही प्रति-
 पादन किया गया है । कहाँ किया
 गया है ? सो बतलाते हैं—जिसमें
 ब्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी अमृतका
 ज्ञान है—आनन्दका हेतु होनेके
 कारण उसका अमृतत्व है—उस
 मधुज्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [उसका
 प्रतिपादन किया गया है] ।
 किसके समान प्रतिपादन किया है ?
 इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोकमें
 अनुमानसे पृथिवी और उदरमें एक
 ही आकाश प्रकाशित होता है,
 उसी तरह [इनकी एकता समझो]
 यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥

आत्मैकत्व ही समीचीन है

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते ।

नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् ॥ १३ ॥

क्योंकि जीव और आत्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की
 गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है इसलिये वहाँ [यानी
 उनकी एकता ही] ठीक है ॥ १३ ॥

यद्युक्तिः श्रुतितश्च निर्धारितं
जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा-
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते
स्तूयते शास्त्रेण व्यासादिभिश्च ।
यच्च सर्वप्राणिसाधारणं स्वाभाविकं
शास्त्रवहिष्कृतैः कुतार्किकैर्विरचितं
नानात्वदर्शनं निन्द्यते “न तु
तद्द्वितीयमस्ति” (वृ० उ० । ४
३ । २३) “द्वितीयाद्वै भयं
भवति” (वृ० उ० १ । ४ । २)
“उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य
भयं भवति ” (तै० उ० २ ।
७ । १) “इदं सर्वं यदयमात्मा”
(वृ० उ० २ । ४ । ६, ४ । ५ । ७)
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह
नानेव पश्यति” (क० उ० २ ।
१ । १०) इत्यादिवाक्यैश्चान्यैश्च
ब्रह्मविद्धिः । यच्चैतत्तदेवं
हि समञ्जसमृज्ववबोधं न्याय्य-
मित्यर्थः । यास्तु तार्किकपरि-
कल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनृज्व्यो
निरूप्यमाणा न घटनां प्राञ्चन्ती-
त्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे
निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा-
के एकत्वकी शास्त्र और व्यासादि
मुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी
स्तुति की है और शास्त्रवाह्य
कुतार्किकोंद्वारा कल्पित सर्वप्राणि-
साधारण स्वाभाविक नानात्वदर्शनकी
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं
है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है”
“जो थोड़ा-सा भी भेद करता है,
उसे भय प्राप्त होता है” “यह
जो कुछ है सब आत्मा है” “जो
यहाँ नानावत् देखता है वह
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है”
इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं-
द्वारा निन्दा की गयी है । यह जो
[वतलाया गया] है वह इसी
प्रकार समञ्जस-सरल बोधगम्य
अर्थात् न्याययुक्त है । तथा तार्किकों-
की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे
सरल नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि
वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके
अनुरूप नहीं ठहरतीं ॥ १३ ॥

श्रुत्युक्त जवि-ब्रह्मभेद गौण है

जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् ।

भविष्यद्बृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥ १४ ॥

पहले (उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें) उत्पत्तिबोधक वाक्योंद्वारा जो जीव और परमात्माका पृथक्त्व बतलाया है वह भविष्यद्-वृत्तिसे गौण है, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १४ ॥

ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः
पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेरुत्पत्त्यर्थोप-
निषद्वाक्येभ्यः पूर्वं प्रकीर्तितं
कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत
इदं कामोऽदःकाम इति; परश्च
“स दाधार पृथिवीं द्याम्”
(ऋ०सं० १०।१२।१) इत्यादि-
मन्त्रवर्णैः; तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्ड-
वाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थ-
स्यैवैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यत
इति ?

अत्रोच्यते—“यतो वा इमानि
भूतानि जायन्ते” (तै० उ० ३।
१) “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः”
(बृ० उ० २।१।२०) “तस्माद्वा
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः”
(तै० उ० २।१।२) “तदैक्षत”
(छा० उ० ६।२।३)
“तत्तेजोऽसृजत” (छा० उ०

१७-१८

शंका—जब श्रुतिने भी पहले-
कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप-
निषद्-वाक्योंद्वारा ‘इदं कामः’ ‘अदः-
कामः’ आदि प्रकारसे [कर्मकाण्डमें
भिन्न-भिन्न कामनाओंवाले कर्माधिकारी
पुरुषके समान] अनेकों कामनाओं-
के भेदसे जीव और परमात्माका भेद
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका
“उसने पृथिवी और द्युलोकको
धारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्णोंसे
पृथक् ही निर्देश किया है, तब इस
प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके
वाक्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही
सामञ्जस्य (यथार्थत्व) किस प्रकार
निश्चय किया जा सकता है ?

समाधान—इस विषयमें हमारा
कथन है कि “जहाँसे ये सब भूत
उत्पन्न होते हैं” “जिस प्रकार
अग्निसे नन्हीं-नन्हीं चिनगारियाँ
[निकलती हैं]” “उसी इस आत्मा-
से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने
ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा”

६। २। ३) इत्याद्युत्पत्त्यर्थोपनि-
पद्वाक्येषुः प्राक्पृथक्त्वं क्रमेणाण्डे
प्रकीर्तितं यत्तन्न परमार्थम् । किं
तर्हि ? गौणं महाकाशघटा-
कारादिभेदयत् । यथौदनं
पचतीति भविष्यद्दृष्ट्या तद्वत् ।
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि
मुख्यभेदाथत्वेमुपपद्यते । स्वाभा-
विकाविघावत्प्राणिभेददृष्ट्यनुवा-
दित्वादात्मभेदवाक्यानाम् ।

इह उपनिषत्प्रत्यक्षिप्रलयादि-
वाक्यैर्जीवपरमात्मनोरेकत्वमेव
प्रतिपिपादयिषितम् "नत्त्वमसि"
(छा० उ० ६। ८-१६) "अन्योऽ-
सावन्योऽहमस्मीति न स वेद"
(वृ० उ० १। ४। १०)
इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु
एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितं
भविष्यतीति भाविर्नामैकवृत्ति-
माश्रित्य लोके भेददृष्ट्यनुवादो
गौण एवेत्यभिप्रायः ।

* 'नात' उदरे हृत् च. व. लोको कहते हैं, जो चावल पकाये जाते हैं
उनकी संज्ञा 'नात' नहीं है। अतः इस वाक्यमें जो उनके लिये 'नात' शब्दका
उपयोग हुआ है वह भविष्यद्दृष्टिसे है।

उत्पत्ति उत्पत्त्यर्थक उपनिषद्वाक्योंसे
पहले क्रमेणाण्डे जो पृथक्त्वाका
प्रतीपादन किया गया है वह
उपनिषत्तः नहीं है। तो कैसा है ?
यह महाकाश और घटाकारादिके
भेदके ज्ञान गौण है और जिस
प्रकार भविष्यद्दृष्टिसे 'नात' पकता
है, वैसा कहा जाता है उसीके
नान्त है। आत्म-भेदवाक्योंका मुख्य
भेदप्रतीपादकत्व कर्म सम्भव नहीं
है, क्योंकि भेदवाक्य तो अज्ञानी
उत्पत्तिकी स्वभाविकी भेददृष्टिका ही
अनुवाद करनेवाले हैं।

यहाँ उपनिषदोंमें तो "इ वह
है" "यह अन्य है और मैं अन्य
हूँ" ऐसा जो जानता है। वह
नहीं जानता" इत्यादि श्रुतियोंके
अनुसार उपनिषत्प्रलयादि-शेषक
वाक्योंसे ही जीव और परमा-
त्मका एकत्व ही प्रतिपादन करना
इष्ट है। अतः उपनिषदोंमें श्रुतिको
एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट
होगा—इस भविष्यद्दृष्टिको आश्रय
करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद
गौण ही है—यह इसका अभिप्राय है।

अथ वा “तदेक्षत” (छा० उ० ६।२।३) “तत्तेजोऽसृजत” (छा० उ० ६।२।३) इत्याद्युत्पत्तेः प्राक् “एकमेवाद्वितीयम्” (छा० उ० ६।२।२) इत्येकत्वं प्रक्रीतितम् । तदेव च “तत्सत्यं स आत्मा तच्चमसि” (छा० उ० ६।८-१६) इत्येकत्वं भविष्यतीति तां भविष्यद्बृत्तिमपेक्ष्य यज्जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्र क्वचिद्वाक्ये गम्यमानं तद्गौणम्, यथौदनं पचतीति तद्वत् ॥१४॥

अथवा “उसने ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व “एकमेवाद्वितीयम्” इत्यादि प्रकारसे एकत्वका निरूपण किया है वह “वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है” इस प्रकार आगे एकत्व हो जायगा इस भविष्यद्बृत्तिसे जहाँ-कहाँ किसी वाक्यमें जीव और आत्माका पृथक्त्व जाना गया है उसी प्रकार-गौण है, जैसे कि ‘भात पकाता है’ इस वाक्यमें [‘भात’ शब्दका प्रयोग] ॥ १४ ॥

दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था

ननु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सर्वमेकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्तेरूर्ध्वं जातमिदं सर्वं जीवाश्च भिन्ना इति, मैवम् ; अन्यार्थत्वादुत्पत्ति-श्रुतीनाम् । पूर्वमपि परिहृत एवायं दोषः स्वप्नवदात्ममाया-विसर्जिताः संघाता घटाकाशोत्पत्तिभेदादिब्रह्मजीवानामुत्पत्ति-भेदादिरिति । इत एवोत्पत्ति-

यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय है तथापि उसके पीछे तो सब उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव भी भिन्न ही हैं—तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हैं । ‘देहादिसंघात स्वप्नके समान आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए हैं’ तथा ‘घटाकाराकी उत्पत्तिसे होनेवाले भेदके समान जीवोंकी उत्पत्तिके भेद हैं’ इन वाक्योंद्वारा पहले भी इस दोषका परिहार किया ही जा चुका है । इसीलिये पूर्वोक्त उत्पत्ति-भेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन-

भेदादिश्रुतिस्य भाङ्ग्य इह पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदंपर्यप्रतिपि-
पादयिष्योपन्यासः—

का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन
उत्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मात्मैक्यपरत्व
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास
किया जाता है—

सृष्टोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा ।

उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ १५ ॥

[उपनिषदोंमें] जो सृष्टिका, लोहखण्ड और विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तों-
द्वारा निम्न-निम्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ब्रह्मात्मैक्यमें]
बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं
है ॥ १५ ॥

सृष्टोहविस्फुलिङ्गादिदृष्टान्तो-
पन्यासैः सृष्टिर्या चोदिता
प्रकाशितान्यथान्यथा च स सर्वः
सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्व-
सुद्वयवतारायोपायोऽस्माकम् ।
यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर-
पाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता
प्राणवैशिष्ट्यबोधवताराय ।

सृष्टिका, लोहखण्ड और विस्फु-
लिङ्गादिके दृष्टान्तोंका उपन्यास करके
जो निम्न-निम्न प्रकारसे सृष्टिको
प्रकाशित अर्थात् कल्पित किया
गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार
हमें जीव और परमात्माका एकत्व
निश्चय करानेवाली बुद्धि प्राप्त कराने-
के लिये है, जिस प्रकार कि प्राण-
संवादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध
करानेके लिये वागादि इन्द्रियोंके
असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी
आख्यायिका* कल्पना की गयी है ।

* छान्दोग्य उपनिषदके प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका
इस प्रकार आया है—एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया ।
यहाँ असुरने मनकी राजतवृत्ति और देवताने सात्त्विकवृत्ति समझनी चाहिये ।
इन दोनों वृत्तियोंका पारस्परिक युद्ध चिरप्रसिद्ध है । देवताओंने असुरोंको
उन्नीसवाँके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक् आदि प्रत्येक

तदप्यसिद्धमिति चेत् ।

न; शाखाभेदेऽन्यथान्यथा
च प्राणादिसंवादश्रवणात् । यदि
हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप
एव संवादः सर्वशाखास्वश्रोष्यत
विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत ।
श्रूयते तु; तस्मान्न तादर्थ्यं
संवादश्रुतीनाम् । तथोत्पत्ति-
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि ।

कल्पसर्गभेदात्संवादश्रुतीना-
मुत्पत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्ग-
मन्यथात्वमिति चेत् ?

पूर्व०--परन्तु यह बात भी तो
सिद्ध नहीं हो सकती ।*

सिद्धान्ती--नहीं; भिन्न-भिन्न
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण-
संवाद सुना जानेके कारण [उस-
का यही तात्पर्य होना चाहिये] ।†
यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता
तो सम्पूर्ण शाखाओंमें एक ही
संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध
भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं । परन्तु
ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये
संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत
अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति-
वाक्य भी समझने चाहिये ।

पूर्व०--प्रत्येक कल्पकी सृष्टिके
भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति-
श्रुतियोंमें प्रत्येक सर्गके अनुसार भेद
है--यदि ऐसा मानें तो ?

इन्द्रियको एक-एक करके उद्गीथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय
स्वार्थपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी । अन्तमें मुख्य प्राणको
नियुक्त किया गया । वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा,
अतः असुरगण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके और देवताओंको विजय प्राप्त
हुई ।

* अर्थात् उन आख्यायिकाओंका तात्पर्य प्राणकी उत्कृष्टताका बोध
करानेमें ही है ।

† इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ६
ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है ।

न; निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्त-
 बुद्धयवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण ।
 न ह्यन्यप्रयोजनवत्त्वं संवादो-
 त्पत्तिश्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम् ।
 तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थ-
 क्षिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्रलयानां
 श्रुतिपक्षेरेनिष्ठत्वात् । तस्मा-
 दुत्पत्त्यादिश्रुतय आत्मैकत्व-
 बुद्धयवतारायैव नान्यार्थाः
 कल्पयितुं युक्ताः । अतो
 नास्त्युत्पत्त्यादिद्वयो भेदः
 कथंचन ॥ १५ ॥

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि श्रुतिका
 उपर्युक्त [ब्रह्मात्मैकत्वमें] बुद्धि-
 प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य
 कोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण-
 संवाद और उत्पत्तिश्रुतियोंका इसके
 सिवा और कोई प्रयोजन नहीं
 कल्पना किया जा सकता । यदि
 कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करने-
 के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा
 कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव
 नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति
 या प्रलयकी प्राप्ति किसीको इष्ट
 नहीं हो सकती । अतः उत्पत्ति
 आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ
 आत्मैकत्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही
 लिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन-
 के लिये मानना उचित नहीं है ।
 अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने-
 वाला भेद कुछ भी नहीं है ॥ १५ ॥

त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि.

यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध-
 बुद्धमुक्तस्वभाव एकः परमार्थः
 सन् “एकमेवाद्वितीयम्” (छा०
 उ० ६।२।२) इत्यादि-
 श्रुतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थेयमुपा-
 सनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे
 द्रष्टव्यः” (बृ० उ० २।४।५)

शंका—यदि “एकमेवाद्वितीयम्”
 इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः
 एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव
 परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब
 मिथ्या है, तो “अरे, इस आत्माका
 साक्षात्कार करना चाहिये” “जो

“य आत्मापहतपाप्मा” (छा०
उ० ८।७।१, ३) “स क्रतुं
कुर्वीत” (छा० उ० ३।१४।१)
“आत्मेत्येवोपासीत” (वृ० उ०
१।४।७) इत्यादिश्रुतिभ्यः,
कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि ?

शृणु तत्र कारणम्—

आत्मा पापरहित है” “वह (अधिकारी)
क्रतु (उपास्यसम्बन्धी संकल्प)
करे” “आत्मा है—इस प्रकार ही
उपासना करे” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा
इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया
गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्म
भी क्यों बतलाये गये हैं ?

समाधान—इसमें जो कारण है,
सो सुनो—

आश्रमास्त्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः ।

उपासनोपदिष्टेयं तदर्थमनुकम्पया ॥ १६ ॥

आश्रम (अधिकारी पुरुष) तीन प्रकारके हैं—हीन, मध्यम और
उत्कृष्ट दृष्टिवाले । उनपर कृपा करके उन्हींके लिये यह उपासना उपदेश
की गया है ॥ १६ ॥

आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः,
वर्णिनश्च मार्गगाः, आश्रम-
शब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात्त्रिविधाः।
कथम् ? हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः ।
हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च
दृष्टिदर्शनसामर्थ्यं येषां ते मन्द-
मध्यमोत्तमबुद्धिसामर्थ्योपेता
इत्यर्थः ।

आश्रमाः—कर्माधिकारी आश्रमी
एवं सन्मार्गगामी वर्णालोग—क्योंकि
‘आश्रम’ शब्द उनका भी उप-
लक्षण करानेवाला है—तीन प्रकारके
हैं । किस प्रकार ?—हीन, मध्यम
और उत्कृष्ट दृष्टिवाले । अर्थात् जिनकी
दृष्टि यानी दर्शनसामर्थ्य हीन—
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे
मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी
सामर्थ्यसे सम्पन्न है ।

उपासनोपदिष्टेयं तदर्थं मन्द-
 मध्यमदृष्ट्याश्रमाद्यर्थं कर्माणि
 च, न चात्मैक एवाद्वितीय इति
 निश्चितोत्तमदृष्ट्यर्थं दयालुना
 वेदेनानुक्रम्यया सन्मार्गगाः सन्तः
 कथमिमांसुत्तमामेकत्वदृष्टिं प्राप्नु-
 युरिति । “यन्मनसा न मनुते
 येनाहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म
 त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते”
 (क्रे० उ० १।५) “तत्रमसि”
 (छा० उ० ६। ८-१६) “आत्मैवेदं
 सयम्” (छा० उ० ७। २५। २)
 इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ १६ ॥

उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाले
 आश्रनादिके लिये ही इस उपासना
 और कर्मका उपदेश किया गया है,
 ‘आत्मा एक और अद्वितीय ही है’
 ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि
 है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं
 है । दयालु वेदने उसका इसीलिये
 उपदेश किया है कि जिससे वे
 कितनी प्रकार सन्मार्गगामी होकर
 “जिसका मनसे मनन नहीं किया
 जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा
 मन मनन किया कहा जाता है
 उसको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी
 तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं
 है” “वह तू है” “यह सब आत्मा
 ही है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति-
 पादित इस उत्तम एकत्व-दृष्टिको
 प्राप्त कर सके ॥ १६ ॥

— ❦ —
 अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है

शास्त्रोपपत्तिभ्यासवधारित-
 त्वाद्वयात्मदर्शनं सम्यग्दर्शनं
 तद्ब्राह्मत्वान्मिथ्यादर्शनमन्यत् ।
 इतश्च मिथ्यादर्शनं द्वैतिनां राग-
 द्वेषादिदोषास्पदत्वात् । कथम् ?

शास्त्र और युक्तिसे निश्चित
 होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन
 ही सम्यग्दर्शन है, उससे ब्राह्म
 होनेके कारण और सब दर्शन मिथ्या
 हैं । द्वैतवादियोंके दर्शन इसलिये
 भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि
 दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ?
 [सो बतलाते हैं]—

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् ।

परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७ ॥

द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ आग्रही होनेके कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [अद्वैतात्मदर्शन] उनसे विरोध नहीं रखता ॥ १७ ॥

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु स्वसिद्धान्तरचनानियमेषु कपिलकणादबुद्धार्हतादिदृष्टयनुसारिणो द्वैतिनो निश्चिताः । एवमेवैष परमार्थो नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः प्रतिपक्षं चात्मनः पश्यन्तस्तद्विपन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः स्वसिद्धान्तदर्शननिमित्तम् एव परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते ।

तैरन्योन्यविरोधिभिरसदीयोर्यं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैकत्वदर्शनपक्षो न विरुध्यते यथा स्वहस्तपादादिभिः । एवं रागद्वेषादिदोषान्स्पन्दत्वादात्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्यभिप्रायः ॥ १७ ॥

स्वसिद्धान्तव्यवस्थामें अर्थात् अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और अर्हत् (जिन) की दृष्टियोंका अनुसरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित हैं; अर्थात् यह परमार्थतत्त्व इसी प्रकार है अन्यथा नहीं—इस प्रकार अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे द्वेष करते हैं । इस तरह राग-द्वेषसे युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके दर्शनके कारण ही परस्पर एक-दूसरेसे विरोध मानते हैं ।

उन परस्पर विरोध माननेवालोंसे हमारा यह आत्मैकत्वदर्शनरूप वैदिकसिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके कारण विरोध नहीं मानता; जिस प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे किसीका विरोध नहीं होता । इस प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आश्रय न होनेके कारण आत्मैकत्वबुद्धि ही सम्यग्दृष्टि है—यह इसका तात्पर्य है ॥ १७ ॥

अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु

केन हेतुना तैर्न विरुद्ध्यत । विस कारण उनसे इसका
इत्युच्यते— विरोध नहीं है—इसपर कहते हैं—

अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेदः उच्यते ।

तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुद्ध्यते ॥ १८ ॥

अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद (कार्य) कहा जाता है, तथा उन (द्वैतवादियों) के मतमें [परमार्थ और अपरमार्थ] दोनों प्रकारसे द्वैत ही है; इसलिये उनसे इसका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥

अद्वैतं परमार्थो हि यस्माद्द्वैतं
नानात्वं तस्याद्वैतस्य भेदस्त-
द्भेदस्तस्य कार्यमित्यर्थः। “एकमे-
वाद्वितीयम्” (छा० उ० ६ ।
२ । २) “तत्तेजोऽसृजत्”
(छा० उ० ६ । २ । ३) इति
श्रुतेः उपपत्तेश्च स्वचित्त-
स्पन्दनाभावे समाधौ मूर्च्छायां
सुषुप्तौ चाभावात् । अतस्तद्भेद
उच्यते द्वैतम् ।

द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतश्चा-
परमार्थतश्चोभयथापि द्वैतमेव ।
यदि च तेषां भ्रान्तानां द्वैत-
दृष्टिरस्माकमद्वैतदृष्टिरभ्रान्ता-
नाम्, तेनायं हेतुनास्तत्पक्षो न
विरुद्ध्यते तैः । “इन्द्रो मायाभिः
पुरुषं ईयते” (वृ० उ० २ ।

अद्वैत परमार्थ है; और क्योंकि
द्वैत यानी नानात्व उस अद्वैतका
भेद अर्थात् उसका कार्य है, जैसा
कि “एकमेवाद्वितीयम्” “तत्तेजोऽ-
सृजत्” इत्यादि श्रुतियोंसे तथा
समाधि मूर्च्छा अथवा सुषुप्तिमें अपने
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर
द्वैतका भी अभाव हो जानेके कारण
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये
द्वैत उसका भेद कहा जाता है ।

किन्तु उन द्वैतवादियोंकी दृष्टिमें
तो परमार्थतः और अपरमार्थतः
दोनों प्रकार द्वैत ही है । यदि उन
भ्रान्त पुरुषोंकी द्वैतदृष्टि है और हम
भ्रमहीनोंकी अद्वैतदृष्टि है तो इस
कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे
विरोध नहीं है । “इन्द्रः मायासे
अनेक रूप धारण करता है”

५।१९) “न तु तद्द्वितीयमस्ति”
(वृ० उ० ४।३।२३) इति
श्रुतेः ।

यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं
भूमिष्टं प्रतिगजारूढोऽहं गजं वाहय
मां प्रतीति ब्रुवाणमपि तं प्रति
न वाहयत्यविरोधबुद्ध्या तद्वत् ।
ततः परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव
द्वैतिनाम् । तेनायं हेतुनास्त्वपक्षो
न विरुध्यते तैः ॥ १८ ॥

“उसरो भिन्न दूसरा है ही नहीं”
इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित
होता है ।

जिस प्रकार मतवाले हाथीपर
चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त
भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा
कहनेपर भी कि ‘मैं तेरे प्रतिद्वन्दी
हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना
हाथी मेरी ओर बढ़ा दे’ विरोधबुद्धि
न होनेके कारण उसकी ओर हाथी
नहीं ले जाता, उसी प्रकार [हमारा
भी उनसे विरोध नहीं है]। तब,
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वैतवादियोंका
भी आत्मा ही है । इसीसे अर्थात्
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका
विरोध नहीं है ॥ १८ ॥

आत्मामें भेद मायाहीके कारण है

द्वैतमद्वैतभेद इत्युक्ते द्वैत-
मप्यद्वैतवत्परमार्थसदिति स्यात्
कस्यचिदाशङ्केत्यत आह—

द्वैत-अद्वैतका भेद है—ऐसा
कहनेपर किसी-किसीको शंका हो
सकती है कि अद्वैतके समान द्वैत
भी परमार्थ सत् ही होना चाहिये—
इसलिये कहते हैं—

मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथञ्चन ।

तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् ॥ १९ ॥

इस अजन्मा अद्वैतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतस्वरूप मरणशीलताको
प्राप्त हो जाता ॥ १९ ॥

यत्परमार्थसद्वैतं मायया
 भिद्यते ह्येतत्तैमिरिकालेकचन्द्र-
 वद्रज्जुः सर्पधारादिभिर्भेदैरिव न
 परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः ।
 सावयवं ह्यवयवान्यथात्वेन
 भिद्यते । यथा मृद् घटादिभेदैः ।
 तस्मान्निरवयवमजं नान्यथा
 कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न
 भिद्यत इत्यभिप्रायः ।

तत्त्वतो भिद्यमाने ह्यमृतस-
 जमद्वयं स्वभावतः सन्मर्त्यतां
 व्रजेत् ; यथाग्निः शीतताम् ।
 तच्चानिष्टं स्वभावनैपरीत्यगमनम्,
 सर्वप्रमाणविरोधात् । अजमव्यय-
 मात्मतत्त्वं माययैव भिद्यते न
 परमार्थतः । तस्मान्न परमार्थ-
 सद्वैतम् ॥ १९ ॥

जो परमार्थ सत् अद्वैत है वह
 तिमिरदोपसे प्रतीत होनेवाले अनेक
 चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदोंसे
 विभिन्न दीखनेवाली रज्जुके समान
 मायासे ही भेदवान् प्रतीत होता है,
 परमार्थतः नहीं, क्योंकि आत्मा
 निरवयव है । जो वस्तु सावयव
 होती है वही अवयवोंके भेदसे भेद-
 को प्राप्त होती है; जिस प्रकार घट
 आदि भेदोंसे मृत्तिका । अतः निरवयव
 और अजन्मा आत्मा [मायाके सिवा]
 और किसी प्रकार भेदको प्राप्त नहीं
 हो सकता—यह इसका अभिप्राय है ।

यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो
 अमृत अज अद्वय और स्वभावसे
 सत्स्वरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको
 प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अग्नि
 शीतलताको प्राप्त हो जाय । और
 अपने स्वभावसे विपरीत अवस्थाको
 प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे
 विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं
 हो सकता । अतः अज और अद्वितीय
 आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त
 होता है, परमार्थतः नहीं । इसलिये
 द्वैत परमार्थ सत् नहीं है ॥ १९ ॥

जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है

अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ २० ॥

द्वैतवादीलोग जन्महीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलताको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? ॥ २० ॥

ये तु पुनः केचिदुपनिष-
द्व्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो
वावदूका अजातस्यैवात्मतत्त्वस्य
अमृतस्य स्वभावतो जातिम्
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव
तेषां जातं चेत्तदेव मर्त्यतामेष्य-
त्यवश्यम् । स चाजातो ह्यमृतो
भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं
मर्त्यतामेष्यति ? न कथञ्चन
मर्त्यत्वं स्वभाववैपरीत्यमेष्यती-
त्यर्थः ॥ २० ॥

किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्मवादी लोग अजात और अमृतस्वरूप आत्मतत्त्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य ही मरणशीलताको भी प्राप्त हो जायगा । किन्तु वह आत्मतत्त्व स्वभावसे अजात और अमृत होकर भी किस प्रकार मरणशीलताको प्राप्त हो सकता है ? अतः तात्पर्य यह है कि वह किसी प्रकार अपने स्वभावसे त्रिपरीत मरणशीलताको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २० ॥

यस्मात्—

। क्योंकि—

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।

प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २१ ॥

मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती; और मरणशील कभी अमर नहीं होती। किसी भी प्रकार स्वभावकी विपरीतता नहीं हो सकती ॥ २१ ॥

न भवत्यमृतं मर्त्यं लोके । अत्र न मरणहीन वस्तु मरण-
नापि मर्त्यममृतं तथा । ततः शील नहीं होती और न मरण-
प्रकृतेः स्वभावस्यान्यथाभावः है । अतः अग्निकी उष्णताके
स्वतः प्रच्युतिर्न कथञ्चिद्भविष्यति; समान प्रकृति अर्थात् स्वभावकी
अग्नेरिद्वौष्ण्यस्य ॥ २१ ॥ विपरीतता—अपने स्वरूपसे च्युति
किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ २१ ॥

उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता

स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् ।

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २२ ॥

जिसके मतमें स्वभावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? ॥ २२ ॥

यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेन

अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति

परमार्थतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः

स भावः स्वभावतोऽमृत इति

प्रतिज्ञा मृषैव । कथं तर्हि

कृतकेनामृतस्तस्य भावः ? कृत-

केनामृतः स कथं स्थास्यति

किन्तु जिस वादीके मतमें स्वभाव-

से अमृत पदार्थ भी मर्त्यताको प्राप्त

होता है अर्थात् परमार्थतः जन्म

लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि

उत्पत्तिसे पूर्व वह पदार्थ स्वभावसे

अमरणवर्मा है—मिथ्या ही है ।

[यदि ऐसा न मानें] तो फिर कृतक

होनेके कारण उसका स्वभाव अमरत्व

कैसे हो सकता है ? और इस प्रकार

कृतक होनेसे ही वह अमृत पदार्थ

निश्चलोऽमृतस्वभावस्तथा न
 कथञ्चित्स्थास्यत्यात्मजातिवादिनः
 सर्वदाजं नाम नास्त्येव; सर्व-
 मेतन्मर्त्यम् । अतोऽनिर्भोक्षप्रसङ्ग
 इत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥

निश्चल यानी अमृतस्वभाव भी वैसे रह
 सन्नता है? अर्थात् वह कभी ऐसा नहीं
 रह सकता । अतः आत्माका जन्म
 ब्रतलानेवालेके मतमें तो अजन्मा
 वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये
 यह सत्र मरणशील ही है । इससे यह
 अभिप्राय हुआ कि [उसके मतमें] भोक्ष
 होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२ ॥

सृष्टिश्रुतिकी संगति

नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्रति-
 पादिका श्रुतिर्न संगच्छते
 ग्रामाण्यम् ?

वाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका
 श्रुतिः ; सा त्वन्यपरा । उपायः
 सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानी-
 मुक्तेऽपि परिहारे पुनश्चोद्य-
 परिहारौ विवक्षितार्थं प्रति
 सृष्टिश्रुत्यक्षराणामानुलोम्य-
 विरोधाशङ्कामात्रपरिहारार्थौ—

शंका—किन्तु अजातिवादोके मत-
 में सृष्टिका प्रदिपादन करनेवाली
 श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ?

समाधान—हाँ ठीक है, सृष्टिका
 प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है;
 किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है ।
 “उपायः सोऽवताराय” इस प्रकार
 हम उसका उद्देश्य पहले (अद्वैत०
 १५में) बता ही चुके हैं । इस प्रकार
 यद्यपि इस शंकाका पहले समाधान
 किया जा चुका है तो भी ‘सृष्टिश्रुतिके
 अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विव-
 क्षित अर्थसे विरोध है’ इस शंकाका
 परिहार करनेके लिये ही, इस समय
 तत्सम्बन्धी शंका और समाधानका
 पुनः उल्लेख किया जाता है—

१—यह ब्रह्मात्मैक्यमें बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय है ।

भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्रुतिः ।

निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् ॥२३॥

पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमें श्रुति तो समान ही होगी । अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत हो वही [श्रुतिकी अभिप्राय] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३ ॥

भूततः परमार्थतः सृज्यमाने
वस्तुन्यभूततो मायया वा
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ननु
गौणमुख्ययोर्मुख्ये शब्दार्थ-
प्रतिपत्तिर्युक्ता । न, अन्यथा
सृष्टेरप्रसिद्धत्वान्निप्रयोजनत्वाच्चे-
त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयैव
सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिर्न
परमार्थतः “सवाह्याभ्यन्तरो
ह्यजः” (मु० उ० २ । १ । २)
इति श्रुतेः ।

तस्मान्छ्रुत्या निश्चितं यदेकमेवा-
द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं
च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य-

वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः
रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि-
श्रुति तो समान ही होगी । यदि
कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ
होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं;
क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि
सिद्ध ही होती है और न उसका
कुछ प्रयोजन ही है—यह हम
पहले कह चुके हैं । “आत्मा बाहर-
भीतर विद्यमान और अजन्मा है”
इस श्रुतिके अनुसार सब प्रकारकी
गौण और मुख्य सृष्टि आविद्यक
सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः
नहीं ।

अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय,
अजन्मा और अभूत तत्त्व निश्चित
किया है वही युक्तियुक्त अर्थात्
युक्तिसे भी सिद्ध होता है ऐसा

वोचाम पूर्वग्रन्थैः । तदेव श्रुत्यर्थो
भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥२३॥

प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका तात्पर्य हो सकता है; अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्थामें नहीं हो सकता ॥२३॥

कथं श्रुतिनिश्चयः ? इत्याह—

यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि ।

अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४ ॥

‘नेह नानास्ति किंचन’ ‘इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ तथा ‘अजायमानो बहुधा विजायते’ इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥

यदि हि भूतत एव सृष्टिः
स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति
तदभावप्रदर्शनार्थमाग्नायो न
स्यात् । अस्ति च “नेह नानाऽस्ति
किंचन” (क० उ० २।१।११)
इत्यादिराम्नायो द्वैतभावप्रति-
षेधार्थः । तस्मादात्मैकत्वप्रति-
पत्त्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव
प्राणसंवादवत् । “इन्द्रो मायाभिः”
(बृ० उ० २।५।१९) इत्य-
भूतार्थप्रतिपादकेन मायाशब्देन
व्यपदेशात् ।

यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी अवस्थामें उनका अभाव प्रदर्शित करनेके लिये कोई शास्त्र-वचन नहीं होना चाहिये था । किन्तु द्वैतभावका निषेध करनेके लिये “यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है” इत्यादि शास्त्र-वचन है ही । अतः प्राणसंवादके समान आत्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है; क्योंकि “इन्द्र मायासे [अनेकरूप हो जाता है]” इस श्रुतिमें सृष्टिका, अयथार्थत्वप्रतिपादक ‘माया’ शब्दसे निर्देश किया गया है ।

ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः ।


सत्यम् ; इन्द्रियप्रज्ञाया
अविद्यामयत्वेन मायात्वाद्भ्युप-
गमाददोषः । मायाभिरिन्द्रिय-
प्रज्ञाभिः अविद्यारूपाभिरित्यर्थः,
“अजायमानो बहुधा विजायते”
इति श्रुतेः, तस्मान्माययैव जायते
तु सः । तुशब्दोऽवधारणार्थः—
माययैवेति । न ह्यजायमानत्वं
बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति,
अत्राविद्य शैत्यमौष्ण्यं च ।

फलवत्त्वाच्चात्मैकत्वदर्शनमेव
श्रुतिनिश्चितोऽर्थः “तत्र को
मौहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”
(ई०उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ;
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति” (क०
उ० २।१।१०) इति निन्दि-
तत्वाच्च सृष्ट्यादिभेददृष्टेः ॥२४॥

शंका—‘माया’ शब्द तो प्रज्ञा-
वाचक है [इसलिये इससे सृष्टिका
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता] ।

समाधान—ठीक है, आविद्यक
होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व
माना गया है; इसलिये उसमें कोई
दोष नहीं है । अतः मायासे अर्थात्
अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि
“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार
से उत्पन्न होता है” इस श्रुतिसे सिद्ध
होता है । अतः वह मायासे ही
उत्पन्न होता है । यहाँ ‘तु’ शब्द
निश्चयार्थक है । अर्थात् मायासे ही
[उत्पन्न होता है] । अग्निमें
शीतलता और उष्णताके समान जन्म
न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म
लेना एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है ।

“उस अवस्थामें एकत्वका
साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या
मोह और क्या शोक हो सकता है ?”
इत्यादि श्रुतिके अनुसार फलयुक्त
होनेके कारण तथा “[जो नानात्व
देखता है] वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त
होता है” इस श्रुतिसे सृष्टि आदि
भेददृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण
भी आत्मैकत्वदर्शन ही श्रुतिका
निश्चित अर्थ है ॥ २४ ॥



श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है

संभूतेरपवादान् संभवः प्रतिषिध्यते ।

को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५ ॥

श्रुतिमें सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की निन्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है तथा 'एसे कौन उत्पन्न करे' इस वाक्यद्वारा कारणका प्रतिषेध किया गया है ॥ २५ ॥

“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते” (ई० उ० १२) इति संभूतेरुपास्यत्वापवादात्संभवः प्रतिषिध्यते । न हि परमार्थतः संभूतायां संभूतौ तदपवाद उपपद्यते ।

“जो सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं” इस प्रकार सम्भूतिके उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है । यदि सम्भूति परमार्थ-सत्त्वरूप होती तो उसकी निन्दा की जानी सम्भव नहीं थी ।

ननु विनाशेन संभूतेः समुच्चयविध्यर्थः संभूत्यपवादः । यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते” (ई० उ० ९) इति ।

सत्यमेव देवतादर्शनस्य संभूति-
विषयस्य विनाश-
शब्दवाच्यस्य कर्मणः
समुच्चयविधानार्थः
संभूत्यपवादः । तथापि विनाशा-

समुच्चयस्य
प्रयोजनम्

शंका—सम्भूतिके उपास्यत्वकी जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश- (कर्म) के साथ सम्भूति (देवतोपासना) का समुच्चयविधान करनेके लिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं” इस वाक्यसे सिद्ध होता है ।

समाधान—सचमुच ही, सम्भूति-विषयक देवतादर्शन और ‘विनाश’ शब्दवाच्य कर्मका समुच्चयविधान करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद किया गया है; तथापि जिस प्रकार

ख्यस्य कर्मणः स्वाभाविकाज्ञान-
 प्रवृत्तिरूपस्य मृत्योरतितरणार्थ-
 त्वदेवतादर्शनकर्मसमुच्चयस्य
 पुरुषसंस्कारार्थस्य कर्मफलराग-
 प्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनैषणा-
 द्वयलक्षणस्य मृत्योरतितरणार्थ-
 त्वम् । एवं ह्येषणाद्वयरूपा-
 न्मृत्योरशुद्धेर्विमुक्तः पुरुषः
 संस्कृतः खादतो मृत्योरतित-
 रणार्था देवतादर्शनकर्मसमुच्चय-
 लक्षणा ह्यविद्या ।

एवमेव एषणालक्षणविद्याया

मृत्योरतितर्णस्य

सन्मृत्युपवादे

हेतुः

विरक्तस्थोपनिषच्छा-
 ल्लार्थालोचनपरस्य

नान्तरीयकी परसात्मैकत्व-
 विद्योत्पत्तिरिति पूर्वभाषिणीम-
 विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्भाषिणी ब्रह्म-
 विद्यामृतत्वसाधनैकेन पुरुषेण
 सम्बन्धमानाविद्यया समुन्नीयत
 इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वाद्-
 मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य
 निन्दार्थ एव भवति संभृत्य-

‘विनाश’ संज्ञक कर्म स्वाभाविक
 अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको
 पार करनेके लिये है उसी प्रकार
 पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता-
 दर्शन और कर्मका समुच्चय कर्म-
 फलके रागसे होनेवाली प्रवृत्तिरूपा
 जो साध्य-साधनलक्षणा दो प्रकारकी
 वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके
 लिये है । इस प्रकार एषणाद्वयरूप
 मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ पुरुष ही
 संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अतः
 देवतादर्शन और कर्मसमुच्चयलक्षणा
 अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है।

इसी प्रकार एषणाद्वयलक्षणा
 अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए तथा
 उपनिषच्छास्त्रके अर्थकी आलोचनामें
 तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैक्यरूप
 विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है;
 इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले
 होनेवाली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे
 प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या, जो अमृतत्व-
 का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध
 रखनेके कारण अविद्यासे समुच्चित
 की जाती है । अतः अमृतत्वके
 साक्षात् साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा
 अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिका
 अपवाद निन्दाहीके लिये किया

पवादः । यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुः
अतन्निष्ठत्वात् । अत एव संभूतेः
अपवादात्संभूतेरापेक्षिकमेव सत्त्व-
मिति परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्य
अमृताख्यः संभवः प्रतिपिध्यते ।

एवं मायानिमित्तस्यैव

जीवस्याविद्यया प्रत्यु-

विचोत्पत्त्यनन्तरं

जीवभावस्य

पस्थापितस्याविद्या-

अनुपपत्ति-

प्रतिपादनम्

नाशे स्वभावरूप-

त्वात्परमार्थतः को

न्वेनं जनयेत् । न हि रज्ज्वाम-

विद्यारोपितं सर्पं पुनर्विवेकतो

नष्टं जनयेत्कश्चित् । तथा न

कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या-

क्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिपिध्यते ।

अविद्योद्भूतस्य नष्टस्य जनयितृ-

कारणं न किञ्चिदस्तीत्यभिप्रायः

“नायं कुतश्चिन्न वभूव कश्चित्”

(क० उ० १ । २ । १८) इति

श्रुतेः ॥ २५ ॥

गया है । वह यद्यपि अशुद्धिके क्षयका
कारण है, तो भी अतन्निष्ठ (मोक्षका
साक्षात् हेतु न) होनेके कारण
[उसकी निन्दा ही की गयी है] ।
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया
जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षिक
ही है; इसी आशयसे परमार्थ सत्
आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंज्ञक
सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है ।

इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा
किया गया मायारचित जीव जब
अविद्याका नाश होनेपर अपने
स्वरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे
परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता
है ? रज्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प-
को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर
सकता । ‘को न्वेनम्’ इत्यादि श्रुति
आक्षेपार्थक है [प्रश्नार्थक नहीं]
इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध
किया जाता है । इसका तात्पर्य यह
है कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस
जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर
फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी
कारण नहीं है, जैसा कि “यह
कहींसे (किसी कारणसे) किसी
रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ” इत्यादि
श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५ ॥



अनात्मप्रतिपक्षे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ।

स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहृते यतः ।

सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥ २६ ॥

क्योंकि 'स एष नेति नेति' (वह यह आत्मा यह नहीं है, यह नहीं है) इत्यादि श्रुति आत्माके अग्राह्यत्वके कारण [उसके विषयमें] पहले वतलाये हुए सभी भावोंका निषेध करती है; अतः इस [निषेध-रूप] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६ ॥

सर्वविशेषप्रतिपक्षेन "अथात् "अथात् आदेशो नेति नेति" आदेशो नेति नेति" (वृ० उ० २ । ३ । ६) इति प्रतिपादितस्यात्मनो दुर्वोधत्वं इत्येव नाननेवाली श्रुति वारंवार इत्यरे उपायसे उसीका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सर्वाका अपह्व (असत्यताप्रतिपादन) करती है । वह ग्राह्य—बुद्धिके जन्य विषयोंका अपलाप करती है। अर्थात् "स एष नेति नेति" इस प्रकार आत्माकी अदृश्यता दिखलानेशाली श्रुति, उपायकी उपेयनिष्ठताको न जाननेवाले लोगोंको उपायरूपसे वतलाये हुए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो जायँ—इसलिये, अग्राह्यत्वरूप हेतुसे उनका निषेध करती है—यही इसका

१. इत्त (नूत्त और अन्तेके उपन्यास) के अनन्तर [निर्विशेष आत्माका शोध करनेके लिये] यह नहीं है; यह नहीं है—येसा उपदेश है ।

निहनुत इत्यर्थः । ततश्चैवमुपा-
यस्योपेयनिष्ठतामेव जानत
उपेयस्य च नित्यैकरूपत्वमिति
तस्य सवाह्याभ्यन्तरमजमात्म-
तत्त्वं प्रकाशते स्वयमेव ॥ २७ ॥

अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार
उपायकी उपेयनिष्ठताको जाननेवाले
और उपेयकी नित्यैकरूपताको भी
समझनेवाले पुरुषोंको यह बाहर-
भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व
स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है ॥२७॥

सद्वस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है

एवं हि श्रुतिवाक्यशतैः
सवाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वमद्वयं
न ततोऽन्यदस्तीति निश्चितमेतत् ।
युक्त्या च अधुनैतदेव पुन-
निर्धार्यत इत्याह—

इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्योंसे
यही निश्चित होता है कि बाहर-
भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्त्व
अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ
नहीं है । यही बात अब युक्तिसे
फिर निश्चय की जाती है; इसीसे
कहते हैं—

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः ।

तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७ ॥

सद्वस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं । जिसके
मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील
वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७ ॥

तत्रैतत्स्यात्सदाग्राह्यमेव चेदस-
देवात्मतत्त्वमिति । तन्न, कार्य-
ग्रहणात् । यथा सतो मायाविनो
मायया जन्म कार्यम् । एवं

उस आत्मतत्त्वके विषयमें यह
शंका होती है कि यदि आत्मतत्त्व
सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत्
होना चाहिये । परन्तु ऐसा कहना
ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य
देखा जाता है । जिस प्रकार सत्-
स्वरूप मायावीका मायासे जन्म लेना

जगतो जन्म कार्यं गृह्यमाणं
मायात्रिनमिव परमार्थसन्तस्
आत्मानं जगज्जन्ममायास्पदम्
अवगमयति । यस्मात्सतो हि
विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मि-
तस्य हस्त्यादिकार्यस्येव जगज्जन्म
युज्यते नासतः कारणात् । न
तु तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते ।

अथ वा सतो विद्यमानस्य
वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवत्
मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो
अथवा तथाग्राह्यस्यापि सत् एवा-
त्मनो रज्जुसर्पवज्जगद्रूपेण मायया
जन्म युज्यते । न तु तत्त्वत
एवाजस्रात्मनो जन्म ।

अथ पुनः परमार्थसदजसात्म-
तत्त्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो
न हि तस्याजं जायत इति शक्यं
वक्तुं विशेषान् । ततस्तस्या-
र्थाज्ञानं जायत इत्यापन्नं

कार्य है उसी प्रकार यह दिखलायी
देनेवाला जगत्का जन्मरूप कार्य
जगज्जन्मरूप मायाके आश्रयभूत
परमार्थ सत् मायावीके समान आत्मा-
का बोध कराता है, क्योंकि मायासे
रचे हुए हार्थी आदि कार्यके समान
सत् अर्थात् विद्यमान कारणसे ही
जगत्का जन्म होना सम्भव है, किसी
अविद्यमान कारणसे नहीं । तथा
तत्त्वतः तो आत्माका जन्म होना
सम्भव है ही नहीं ।

अथवा [यों समझो कि] जिस
प्रकार रज्जु आदिसे सर्पादिके समान
सत् अर्थात् विद्यमान वस्तुका जन्म
मायासे ही हो सकता है, तत्त्वतः
नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर
भी सत्स्वरूप आत्माका, रज्जुसे
सर्पके समान, जगत्रूपसे जन्म
होना मायासे ही सम्भव है—उस
अजन्मा आत्माका तत्त्वतः जन्म
नहीं हो सकता ।

किन्तु जिस वार्दाके मतमें
परमार्थ सत् आत्मतत्त्व ही जगत्-
रूपसे उत्पन्न होता है उसके
सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म
होता है, क्योंकि इससे विरोध
उपस्थित होता है । अतः यह स्वतः
सिद्ध हो जाता है कि उसके
मतानुसार किसी जन्मशीलका ही

ततश्चानवस्था जाताज्जायमान-
त्वेन । तस्मादजमेकमेवात्म-
तत्त्वमिति सिद्धम् ॥ २७ ॥

जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार
जन्मशीलसे ही जन्म माननेपर
अनवस्था उपस्थित हो जाती है;
अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त्व
अजन्मा और एक ही है ॥ २७ ॥



असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।

बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥

असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भी होना
सम्भव नहीं है । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न
मायासे ही ॥ २८ ॥

असद्वादिनामसतो भावस्य
मायया तत्त्वतो वा न कथंचन
जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात् । न
हि बन्ध्यापुत्रो मायया तत्त्वतो
वा जायते तस्मादत्रासद्वादो दूरत
एवानुपपन्न इत्यर्थः ॥ २८ ॥

असद्वादियोंके पक्षमें भी, असत्
वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं है,
क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता ।
बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न
होता है और न वस्तुतः ही । अतः
तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो
सर्वथा ही अयुक्त है ॥ २८ ॥

कथं पुनः सतो माययैव
जन्मेत्युच्यते—

सत् वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे
हो सकता है—इसपर कहते हैं—

यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ।

तथा जाग्रद्द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २९ ॥

जिस प्रकार स्वप्नकालमें मन मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है उसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी वह मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है ॥ २९ ॥

यथा रज्ज्वां विकल्पितः जिस प्रकार रज्जुमें कल्पना
 कृत्वा हुआ सर्प रज्जुरूपसे देखे
 सर्पो रज्जुरुपेणावेक्ष्यमाणः सन्नेयं जानेपर सत् है उसी प्रकार मन
 मनः परमार्थत्रिज्ञप्त्यात्मरूपेणा भी परमार्थज्ञानरूप आत्मस्वरूपसे
 वेक्ष्यमाणं सद् ब्राह्मग्राहकरूपेण रज्जुमें सर्पके समान स्वभावस्था-
 में मायासे ही ब्राह्म-ग्राहकरूप
 द्वयाभासं स्पन्दते स्वप्ने मायया, द्वैतके आभासरूपसे स्फुरित होता
 है। इसी प्रकार वह मन ही जाग्रत्-
 रज्ज्वाभिव सर्पः । तथा तद्बदेव अवस्थामें भी मायासे [त्रिविध रूपों-
 जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया] स्फुरित होता है; अर्थात् स्फुरित
 मनः स्पन्दत इवेत्यर्थः ॥ २९ ॥ होता-सा मादम होता है [वास्तवमें
 स्फुरित भी नहीं होता] ॥ २९ ॥



स्वप्न और जाग्रति मनके ही विलास हैं

अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः ।

अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३० ॥

इसमें सन्देह नहीं स्वप्नावस्थामें अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी निःसन्देह अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासता है ॥ ३० ॥

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थतः रज्जुरूपसे सत् सर्पके समान
 आत्मरूपेणाद्वयं सद्द्वयाभासं परमार्थतः अद्वय आत्मरूपसे सत्

मनः स्वप्ने न संशयः । न हि
स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तद्ग्राहकं
वा चक्षुरादिद्वयं विज्ञानव्यति-
रेकेणास्ति । जाग्रदपि तथैवेत्यर्थः ।
परमार्थसद्विज्ञानमात्राविशेषात् ३०

मन ही स्वप्नमें द्वैतरूपसे भासनेवाला है—इसमें सन्देह नहीं । स्वप्नमें हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें ग्रहण करनेवाले चक्षु आदि दोनों ही विज्ञानके सिवा और कुछ नहीं हैं; ऐसा ही जाग्रत्में भी है—यह इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओंमें परमार्थ सत् विज्ञान ही समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३० ॥

रज्जुसर्पवद्विकल्पनारूपं द्वैत-
रूपेण मन एवेत्युक्तम् । तत्र
किं प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक-
लक्षणमनुमानमाह । कथम्—

रज्जुमें सर्पके समान विकल्पनारूप यह मन ही द्वैतरूपसे स्थित है— ऐसा पहले कहा गया । इसमें प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय-व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा जाता है; सो किस प्रकार—

मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित्सचराचरम् ।

मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥ ३१ ॥


यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मनका दृश्य है, क्योंकि मनका अमनीभाव (संकल्पशून्यत्व) हो जानेपर द्वैतकी उपलब्धि नहीं होती ॥ ३१ ॥

तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन
दृश्यं मनोदृश्यमिदं द्वैतं सर्वं
मन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे

उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण द्वैत मन ही है—यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहनेपर यह भी

भावात्तदभावेऽभावात् । मनसो
ह्यमनीभावे निरोधे विवेक-
दर्शनाभ्यासवैराग्याभ्यां रज्ज्वा-
मिव सर्पे लयं गते वा सुषुप्ते द्वैतं
नैवोपलभ्यत इत्यभावात्सिद्धं
द्वैतस्यासत्त्वमित्यर्थः ॥ ३१ ॥

वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव
हो जानेपर इसका भी अभाव हो
जाता है । मनका अमनीभाव—
निरोध अर्थात् विवेकदृष्टिके अभ्यास
और वैराग्यद्वारा रज्जुमें सर्पके
समान लय हो जानेपर, अथवा
सुषुप्ति-अवस्थामें द्वैतकी उपलब्धि
नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो
जानेके कारण द्वैतकी असत्ता सिद्ध
ही है—यह इसका तात्पर्य है ॥ ३१ ॥



तत्त्वबोधसे अमनीभाव

कथं पुनरमनीभावः ? इति
उच्यते—

किन्तु यह अमनीभाव होता
किस प्रकार है ? इस विषयमें कहा
जाता है—

आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा ।

अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् ॥ ३२ ॥

जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें ग्राह्यका
अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो
जाता है ॥ ३२ ॥

आत्मैव सत्यमात्मसत्यं मृत्ति-
कावत् “वायोरम्भणं विकारो
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्”
(छा० उ० ६।१।४) इति
श्रुतेः । तस्य शास्त्राचार्योपदेश-

“[घटादि] वाणीसे आरम्भ होने-
वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका
ही सत्य है” इस श्रुतिके अनुसार
मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य
है । उस आत्म-सत्यका शास्त्र और
आचार्यके उपदेशके अनन्तर बोध

मन्ववबोधः आत्मसत्यानुबोधः । होना आत्मसत्यानुबोध है । उसके
 तेन सङ्कल्प्याभावतया न कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव
 सङ्कल्पयते, दाह्याभावे ज्वलन- हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव
 मिवाग्नेः, यदा यस्मिन्काले तदा हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके
 तस्मिन्कालेऽमनस्ताममनोभावं अभावके समान, जिस समय चित्त
 याति; ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रहं सङ्कल्प नहीं करता उस समय वह
 ग्रहणविकल्पनावर्जितमित्यर्थः३२ अमनस्कता अर्थात् अमनीभावको
 प्राप्त हो जाता है । ग्राह्य वस्तुका
 अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह
 अर्थात् ग्रहण-विकल्पनासे रहित
 हो जाता है ॥ ३२ ॥

आत्मज्ञान किसे होता है ?

यद्यसदिदं द्वैतं केन स्वमज- यदि यह सम्पूर्ण द्वैत असत्य है
 मात्मतत्त्वं विबुध्यते ? इति तो प्रकृत सत्य आत्मतत्त्वका ज्ञान
 उच्यते— किसे होता है ? इसपर कहते हैं—

अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ।

ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥ ३३ ॥

उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीलोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न
 बतलाते हैं ? ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है ।
 उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता है ॥ ३३ ॥

अकल्पकं सर्वकल्पनावर्जित- अकल्पक—सम्पूर्णकल्पनाओंसे
 मत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्रं रहित अतएव अजन्मा अर्थात्
 ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता लोग
 ज्ञेयेन परमार्थसता ब्रह्मणाभिन्नं ज्ञेय यानी परमार्थसत्स्वरूप ब्रह्मसे

प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः ।
न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो
विद्यतेऽन्युष्णवत् “विज्ञानसा-
नन्दं ब्रह्म” (बृ० उ० ३ । ९ ।
२८) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”
(तै० उ० २ । १) इत्यादि-
श्रुतिभ्यः ।

तस्यैव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं
यस्य स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेय-
सौष्ण्यस्येवाग्निवद्भिन्नम् । तेना-
त्मस्वरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय-
मात्मतत्त्वं स्वयमेव विबुध्यते-
ऽवगच्छति । नित्यप्रकाशस्वरूप
इव सविता नित्यविज्ञानैकरस-
धनत्वान्न ज्ञानान्तरमपेक्षत
इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

अभिन्न वतलाते हैं। अग्निकी उष्णता-
के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी
लाप नहीं होता। “ब्रह्म विज्ञान
और आनन्दस्वरूप है” “ब्रह्म सत्य
ज्ञान और अनन्त है” इत्यादि
श्रुतियोंसे यही बात प्रमाणित
होती है ।

उत्त (ज्ञान) के ही विशेषण
वतलाते हैं—‘ब्रह्मज्ञेयम्’ अर्थात्
ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि-
से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न
है । उत्त आत्मस्वरूप अजन्मा
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व
स्वरूप ही जाना जाता है । तात्पर्य
यह है कि नित्यप्रकाशस्वरूप सूर्यके
समान नित्यविज्ञानैकरसधनरूप
होनेके कारण वह किसी अन्य
ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥३३॥

शान्तवृत्तिका स्वरूप

आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कल्पम-
कुर्वद्राद्यविषयाभावे निरिन्ध-
नाग्निप्रशान्तं निगृहीतं निरुद्धं

आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होनेसे
संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य-
विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन-
रहित अग्निके समान शान्त होकर
निगृहीत अर्थात् निरुद्ध हो जाता

मनो भवतीत्युक्तम् । एवं च
मनसो ह्यमनीभावे द्वैता-
भावश्चोक्तः । तस्यैवम्—

है—ऐसा कहा गया । इस प्रकार
मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वैत-
का भी अभाव बतलाया गया । उस
इस प्रकार—

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः ।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥ ३४ ॥

निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह विशेषरूपसे ज्ञातव्य है । सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य प्रकारकी हैं, वह उस (निरुद्धावस्था) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥

निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो
निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जि-
तस्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो
यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो
योगिभिः ।

निगृहीत—रोके हुए, निर्विकल्प—
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित
और धीमान्—विवेकसम्पन्न चित्तका
जो प्रचार—व्यापार है, योगियोंको
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे
जानना चाहिये ।

ननु सर्वप्रत्ययाभावे यादृशः
सुषुप्तस्य मनसः प्रचारस्तादृश
एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावा-
विशेषात्किं तत्र विज्ञेयमिति ।

शंका—सब प्रकारकी प्रतीतियों-
का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार
सुषुप्तिस्थ चित्तका होता है वैसा ही
निरुद्धका भी होगा, क्योंकि प्रतीति-
का अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें
समान है । उसमें विशेषरूपसे
जाननेयोग्य कौन-सी बात है ?

अत्रोच्यते—नैवम्; यस्मात्
सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोह-
तमोग्रस्तस्यान्तर्लीनानेकानर्थ-

समाधान—इस विषयमें हमारा
कहना है कि ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि सुषुप्तिमें अविद्या-मोहरूप
अन्धकारसे ग्रस्त हुए तथा जिसके

प्रवृत्तिबीजवासनावतो मनस
 आत्मसत्यानुबोधहुताश्विप्लुष्टा-
 विद्यानर्थप्रवृत्तिबीजस्य निरुद्ध-
 स्यान्व एव प्रशान्तसर्वज्ञेशरजसः
 स्वतन्त्रः प्रचारः । अतो न
 तत्समः । तस्माद्युक्तः स विज्ञातु-
 मित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥

भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी बीज-
 भूत वासनाएँ लीन हैं उस मनका
 व्यापार दूसरे प्रकारका है और
 आत्मसत्यके बोधरूप अग्निसे जिसकी
 अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका बीज
 दग्ध हो गया है तथा जिसके सब
 प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो
 गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र
 प्रचार दूसरे ही प्रकारका है । अतः
 वह उसके समान नहीं है । इसलिये
 तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान
 अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥३४॥

सुषुप्ति और समाधिका भेद

प्रचारभेदे हेतुमाह—

उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु
 बतलाते हैं—

लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥

सुषुप्ति-अवस्थामें मन [अविद्यामें] लीन हो जाता है, किन्तु
 निरुद्ध होनेपर वह उसमें लीन नहीं होता । उस समय तो सब ओरसे
 चित्तकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ॥ ३५ ॥

लीयते सुषुप्ता हि यस्मात्सर्वा-
 भिरविद्यादिग्रत्ययबीजवासनाभिः
 सह तमोरूपमविशेषरूपं बीज-
 भावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूर्वकं

क्योंकि सुषुप्तिमें मन अविद्यादि
 सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बीजभूता
 वासनाओंके सहित तमःस्वभाव
 अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो
 जाता है और उसके विवेक ज्ञान-

निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते
तमोबीजभावं नापद्यते । तस्माद्युक्तः
प्रचारभेदः सुषुप्तस्य समाहितस्य
मनसः ।

यदा ग्राह्यग्राहकाविद्याकृत-
मलद्रव्यवर्जितं तदा परमद्रव्यं
ब्रह्मैव तत्संवृत्तमित्यतस्तदेव
निर्भयं द्वैतग्रहणस्य भयनिमित्तस्या-
भावात् । शान्तमभयं ब्रह्म,
यद्विद्वान्न विभेति कुतश्चन ।

तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिर्ज्ञान-
मात्मस्वभावचैतन्यं तदेव ज्ञान-
मालोकः प्रकाशो यस्य तद्ब्रह्म
ज्ञानालोकं विज्ञानैकरसघनमि-
त्यर्थः । समन्ततः समन्तात्सर्वतो
व्योमवच्चैरन्तर्येण व्यापक-
मित्यर्थः ॥ ३५ ॥

पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं
होता, अर्थात् अज्ञानरूप बीजभावको
प्राप्त नहीं होता । अतः सुषुप्त और
समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक
ही है ।

जिस समय चित्त ग्राह्य-ग्राहकरूप
अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके
मलोंसे रहित हो जाता है उस
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप
ही हो जाता है । अतः द्वैतग्रहणरूप
भयके कारणका अभाव हो जानेसे
[उस अवस्थामें] वही निर्भय होता
है । ब्रह्म शान्त और अभयपद है,
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे
नहीं डरता ।

उसीका विशेषण ब्रतल रहे हैं
—ज्ञानका अर्थ ज्ञप्ति अर्थात् आत्म-
स्वरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही
जिसका आलोक यानी प्रकाश है
वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात् विज्ञानैक-
रसस्वरूप है । समन्ततः—सब ओर
अर्थात् आकाशके समान निरन्तरता-
से सब ओर व्यापक है ॥ ३५ ॥

ब्रह्मका स्वरूप

अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् ।
सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६ ॥

वह ब्रह्म जन्मरहित, [अज्ञानरूप] निद्रारहित, स्वप्नशून्य, नाम-
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशस्वरूप और सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका
कर्तव्य नहीं है ॥ ३६ ॥

जन्मनिमित्ताभावात्सवाह्या-
भ्यन्तरमजम् । अविद्यानिमित्तं
हि जन्म रज्जुसर्पवदित्यवोचाम ।
सा चाविद्यात्मसत्यानुबोधेन
निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रम् ।
अविद्यालक्षणानादिर्माथानिद्रा ।
स्वाप्तात्प्रबुद्धोऽद्वयस्वरूपेणात्मनातः
अस्वप्नम् । अप्रबोधकृते ह्यस्य
नामरूपे । प्रबोधाच्च ते रज्जुसर्प-
वद्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रका-
रेणेत्यनामकमरूपकं च तत् ।
“यतो वाचो निवर्तन्ते” (तै०
उ० २।४।१) इत्यादिश्रुतेः ।

किं च सकृद्विभातं सदैव
विभातं सदा भासरूपसग्रहणान्यथा-
ग्रहणाविर्भावतिरोभाववर्जित-

जन्मके कारणका अभाव होनेसे
ब्रह्म वाह्याभ्यन्तरवर्ती और अजन्मा है ।
रज्जुमें सर्पके समान जीवका जन्म
अविद्याके कारण है—ऐसा हम पहले
कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका
अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध
हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा
है और इसीसे अनिद्र भी है । यहाँ
अविद्यारूपा अनादिमाया ही निद्रा है ।
अपने अद्वयस्वरूपसे वह स्वप्नसे जगा
हुआ है; इसलिये अस्वप्न है । उसके
नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं ।
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमें प्रतीत होने-
वाले सर्पके समान नष्ट हो जाते
हैं । अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन
नहीं किया जाता और न किसी
प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता
है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है;
जैसा कि “जहाँसे वाणी लौट आती
है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

यहाँ नहीं; वह अग्रहण, अन्यथा-
ग्रहण तथा आविर्भाव-तिरोभावसे
रहित होनेके कारण सकृद्विभात-
सदा ही भासनेवाला अर्थात् नित्य-

त्वात् । ग्रहणाग्रहणे हि रात्र्यहनी
 तमश्चाविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे
 कारणम् । तदभावान्नित्यचैतन्य-
 भारूपत्वाच्च युक्तं सकृद्विभात-
 मिति । अत एव सर्वं च
 तज्ज्ञस्वरूपं चेति सर्वज्ञम् । नेह
 ब्रह्मण्येवंविध उपचरणमुपचारः
 कर्तव्यः । यथान्येषामात्मस्वरूप-
 व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचारः ।
 नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वा-
 द्ब्रह्मणः कथंचन न कथंचिदपि
 कर्तव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः
 ॥ ३६ ॥

प्रकाशस्वरूप है । ग्रहण और
 अग्रहण ही रात्रि और दिन हैं तथा
 अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा
 ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण
 है । उसका अभाव होनेसे और
 नित्यचैतन्यस्वरूप होनेसे ब्रह्मका
 नित्यप्रकाशस्वरूप होना ठीक ही है ।
 अतः सर्व और ब्रह्मिरूप होनेसे वह
 सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई
 उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस
 प्रकार कि दूसरोंको आत्मस्वरूपसे
 भिन्न समाधि आदि कर्तव्य हैं ।
 तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध-
 बुद्ध-मुक्तस्वभाव है; इसलिये अविद्या-
 का नाश हो जानेपर विद्वान्को
 कुछ भी कर्तव्य रहना सम्भव नहीं
 है ॥ ३६ ॥

अनामकत्वाद्युक्तार्थसिद्धये
 हेतुमाह—

अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थ-
 की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं—

सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः ।

सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ ३७ ॥

वह सब प्रकारके वाग्व्यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन
 (अन्तःकरणके व्यापार) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधि-
 स्वरूप, अचल और निर्भय है ॥ ३७ ॥

अभिलप्यतेऽनेनेत्यभिलापो
वाकरणं सर्वप्रकारस्याभिधानस्य,
तस्माद्विगतः। वागत्रोपलक्षणार्था,
सर्ववाह्यकरणवर्जित इत्येतत् ।

तथा सर्वचिन्तासमुत्थितः ।
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि-
स्तस्याः समुत्थितोऽन्तःकरण-
वर्जित इत्यर्थः “अप्राणो ह्यक्षनाः
शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः” (मु०
उ० २।१।२) इत्यादिश्रुतेः ।

यस्मात्सर्वविषयवर्जितोऽतः
सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदैव-
ज्योतिरात्मचैतन्यस्वरूपेण,
समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव-
गम्यत्वात्, समाधीयतेऽस्मिन्निति
वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः,
अत एवाभयो विक्रियाभावात् ३७

जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया
जाता है वह 'अभिलाप' अर्थात्
'वाक्' है, जो सब प्रकारके शब्दो-
च्चारणका साधन है, उससे रहित ।
यहाँ वागिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है,
अतः तात्पर्य यह है कि वह सब
प्रकारकी वाह्य इन्द्रियोंसे रहित है ।

तथा सब प्रकारकी चिन्तासे
उठा हुआ है । जिससे चिन्तन
किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता
है, उससे उठा हुआ है अर्थात्
अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि
“प्राणरहित, मनोरहित और शुद्ध
है तथा पर अक्षरसे भी पर है”
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ।

क्योंकि वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित
है इसलिये अत्यन्त शान्त है,
सकृज्ज्योति अर्थात् आत्मचैतन्यरूप-
से सदा ही प्रकाशस्वरूप है, समाधिके
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध
होनेके कारण समाधि है, अथवा
इसमें चित्त समाहित किया जाता
है इसलिये इसे समाधि कहते हैं,
अचल अर्थात् अविकारी है और
इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण
ही अभय है ॥ ३७ ॥

यस्माद्ब्रह्मैव समाधिस्त्रचलोऽभय
इत्युक्तमतो—

क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिस्वरूप,
अचल और अभय है' ऐसा कहा
गया है, इसलिये—

ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते ।

आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम् ॥ ३८ ॥

जिस (ब्रह्मपद) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान
जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥

न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि ग्रहो
ग्रहणमुपादानम्, नोत्सर्ग उत्सर्जनं
हानं वा विद्यते । यत्र हि वि-
क्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र
हानोपादाने स्यातां न तद्द्वयमिह
ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोर-
न्यस्याभावान्निरवयवत्वाच्च ।
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः ।
चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्व-
प्रकारैव चिन्ता न संभवति
यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र हानो-
पादाने इत्यर्थः ।

वहाँ—उस ब्रह्ममें न तो ग्रह-
ग्रहण यानी उपादान है और न
उत्सर्ग—उत्सर्जन अर्थात् त्याग ही
है । जहाँ विकार अथवा विकारकी
विषयता (विकृत होनेकी योग्यता)
होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी
रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन
दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है,
क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई
अन्य पदार्थ है नहीं और वह स्वयं
निरवयव है । इसलिये तात्पर्य यह है कि
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव
नहीं हैं । जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्
मनोरहित होनेके कारण जिसमें
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं
है वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह
सकते हैं ?

यदैवात्मसत्त्वानुबोधो जात-
स्त्वेवात्मसंस्थं विषयाभावा-
दग्न्युप्यवदात्मन्येव स्थितं
ज्ञानम् ; अजाति जातिवर्जितम् ,
समतां गतं परं साध्यसापन्नं
भवति ।

यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या-
व्यकार्ष्यमजाति समतां
गतमितीदं तदुपपत्तितः शास्त्र-
तथोक्तमुपपन्नं हियते, अजाति
समतां गतमिति । एतस्मादात्मस-
त्त्वानुबोधात्कार्ष्यविषयस्य न्यत्
“ओ वा एतदक्षरं गार्ग्यचि-
द्वित्यास्माद्धोकात्प्रैति स कृपणः”
(बृ० उ० ३ । ८ । १०) इति
श्रुतेः । प्राप्यैतत्सर्वः कृतकृत्यो
ब्राह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ॥ ३८ ॥

जिस समय भी आत्मसत्यका बोध
होता है उसी समय आत्मसंस्थ
अर्थात् विषयका अभाव होनेके
कारण अग्निकी उष्णताके समान
आत्मामें ही स्थित ज्ञान अजाति—
जन्मरहित और समताको प्राप्त
हो जाता है ।

पहले (इस प्रकरणके दूसरे
श्लोकमें) जो प्रतिज्ञा की थी कि
‘इसलिये मैं समान भावको प्राप्त,
अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा’
उस पूर्वकथनका ही यहाँ ‘अजाति
समतां गतन्’ ऐसा कहकर युक्ति
और शास्त्रद्वारा उपसंहार किया
गया है । “हे गार्गि ! जो पुरुष इस
अक्षर ब्रह्मको विना जाने ही इस
लोकसे चला जाता है वह कृपण
है” इति श्रुतिके अनुसार कृपणताका
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे
भिन्न ही है । तात्पर्य यह है कि
इस तत्त्वको प्राप्त कर लेनेपर तो हर
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्मनिष्ठ) हो
जाता है ॥ ३८ ॥

अस्पर्शयोगकी दुर्गमता

यद्यपीदमित्थं परमार्थतत्त्वम्

यद्यपि यह परमार्थ तत्त्व ऐसा है

[तथापि]—

अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः ।

योगिनो विभ्यति ह्यस्माद्भये भयदर्शिनः ॥ ३६ ॥

[सब प्रकारके स्पर्शसे रहित] यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियों-के लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है । इस अभय पदमें भय देखनेवाले योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥

अस्पर्शयोगो नामायं सर्व-
संबन्धाख्यस्पर्शवर्जितत्वादस्पर्श-
योगो नाम वै स्मर्यते प्रसिद्ध-
मुपनिपत्सु । दुःखेन दृश्यत इति
दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः वेदान्त-
विहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगि-
भिः । आत्मसत्यानुबोधायामलभ्य
एवेत्यर्थः ।

यह अस्पर्शयोग नामवाला है
अर्थात् सर्व-सम्बन्धरूप स्पर्शसे
रहित होनेके कारण यह-उपनिषदोंमें
अस्पर्श-योग नामसे प्रसिद्ध होकर
स्मरण किया गया है । यह वेदान्त-
विज्ञानसे रहित सभी योगियोंको
कठिनतासे दिखायी देता है, इसलिये
उनके लिये दुर्दर्श है । तात्पर्य यह
है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके
अनुभव और [श्रवण-मनन एवं
प्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही
प्राप्त होने योग्य है ।

योगिनो विभ्यति ह्यस्मात्सर्व-
भयवर्जितादप्यात्मनाशरूपमिमं
योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति
अभयेऽस्मिन्भयदर्शिनो भय-
निमित्तात्मनाशदर्शनशीला
अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश-
रूप माननेके कारण इस अभय
योगमें भय देखनेवाले—भयका
निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले
अर्थात् अविवेकी योगीलोग इससे
भय मानते हैं ॥ ३९ ॥

अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिग्रहके अधीन है

येषां पुनर्ब्रह्मस्वरूपव्यतिरेकेण
रज्जुसर्पवत्कल्पितमेव मन
इन्द्रियादि च न परमार्थतो
विद्यते तेषां ब्रह्मस्वरूपाणासभयं
सोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः
स्वभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता
नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम् ।
ये त्वतोऽन्ये योगिनो मार्गवा
हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म-
व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि पश्यन्ति
तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानाम्
मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥

समस्त योगियोंके अमय, दुःखक्षय, प्रबोध और अक्षय शान्ति मनके निग्रहके ही अधीन हैं ॥ ४० ॥

मनसो निग्रहायत्तमभयं
सर्वेषां योगिनाम् । किं च
दुःखक्षयोऽपि, न ह्यात्मसंबन्धिनि
मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति ।

जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मस्वरूपसे अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आदि रज्जुमें सर्पके समान कल्पित ही हैं—परमार्थतः हैं ही नहीं, उन ब्रह्मभूतोंकी निर्भयता और मोक्ष-संज्ञक अक्षय शान्ति तो स्वभावसे ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन नहीं है; जैसा कि 'उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है' ऐसा हम पहले (छर्त्तासर्वे श्लोकमें) कह चुके हैं । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ-पथमें चलनेवाले हीन और मध्यम दृष्टिवाले योगी मनको आत्मासे भिन्न आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन आत्मसत्यके बोधसे रहित—

समस्त योगियोंका अमय मनके निग्रहके अधीन है । यही नहीं, दुःखक्षय भी [मनोनिग्रहके ही अधीन है], क्योंकि आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले मनके चलायमान रहते हुए अत्रिवेकी पुरुषोंका दुःख-

अविवेकिनाम् । किं चात्सम-
बोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव ।
तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः
तेषां मनोनिग्रहायत्तैव ॥४०॥

क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा
उनका आत्मज्ञान भी मनके निग्रहके
ही अधीन है तथा मोक्षनाम्नी उनकी
अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही
अधीन है ॥ ४० ॥



मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है

उत्सेक उदधेर्यद्वत्कुशाग्रेणैकबिन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥ ४१ ॥

जिस प्रकार [उद्विग्नता छोड़कर] कुशाके अग्रभागसे एक-एक
बूँदद्वारा समुद्रको उलीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी
खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥

मनोनिग्रहोऽपि तेषामुदधेः
कुशाग्रेणैकबिन्दुना उत्सेचनेन
शोषणव्यवसायवद्व्यवसायवता-
मनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदा-
दपरिखेदतो भवतीत्यर्थः ॥४१॥

कुशाके अग्रभागसे एक-एक
बूँदके द्वारा समुद्रके उत्सेचन
अर्थात् सुखानेके प्रयत्नके समान
अखिन्नचित्त और उद्यमशील
रहनेवाले उन योगियोंके मनका
निग्रह भी खेदशून्य रहनेसे ही होता
है—यह इसका तात्पर्य है ॥ ४१ ॥



मनोनिग्रहके विषय

किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र-
मेव मनोनिग्रह उपायः ? न,
इत्युच्यते ।

तो क्या खेदरहित उद्योग ही
मनोनिग्रहका उपाय है ? इसपर
कहते हैं—'नहीं'

उपायेन निगृहीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः ।

सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२ ॥


काम्यविषय और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह करे तथा लयावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम करे, क्योंकि जैसा [अनर्थकारक] काम है वैसा ही लय भी है ॥४२॥

अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्
वक्ष्यमाणेनोपायेन कामभोग-
विषयेषु विक्षिप्तं मनो निगृही-
यान्निरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यर्थः ।
किं च लीयतेऽस्मिन्निति सुषुप्तो
लयस्तस्मिँल्लये च सुप्रसन्नम्
आयासवर्जितम् अपि इत्येतत्,
निगृहीयादित्यनुवर्तते ।

सुप्रसन्नं चैत्कस्मान्निगृह्यत
इत्युच्यते । यस्माद्यथा कामो-
ऽनर्थहेतुस्तथा लयोऽपि । अतः
कामविषयस्य मनसो निग्रह-
बलयादपि निरोद्धव्यमित्यर्थः ४२

अथक उद्योगशील होकर आगे
कहे जानेवाले उपायसे काम और
भोगरूप विषयोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका
निग्रह करे, अर्थात् उसका आत्मामें ही
निरोध करे । तथा, जिस अवस्थामें
चित्त लीन हो जाता है उस सुषुप्ति-
का नाम लय है, उस लयावस्थामें
अत्यन्त प्रसन्न अर्थात् आयासरहित
स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका भी
निग्रह करे । यहाँ 'निगृहीयात्'
इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है ।

यदि उक्त अवस्थामें चित्त अत्यन्त
प्रसन्न हो जाता है तो उसका
निग्रह क्यों करना चाहिये ? इसपर
कहा जाता है—क्योंकि जिस प्रकार
काम अनर्थका कारण है उसी
प्रकार लय भी है; इसलिये तात्पर्य
यह है कि कामविषयक मनके
निग्रहके समान उसका लयसे भी
निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥



कः स उपायः ? इत्युच्यते—

वह उपाय क्या है ? इस विषय-
में कहा जाता है—

दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् ।

अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ ४३ ॥

सम्पूर्ण द्वैत दुःखरूप है—ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको कामजनित भोगोंसे हटाये । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४३ ॥

सर्वं द्वैतमविद्याविजृम्भितं ;
दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य कामभोगा-
त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविषय-
स्तस्माद्विप्रसृतं मनो निवर्तये-
द्वैराग्यभावनयेत्यर्थः । अजं ब्रह्म
सर्वमित्येतच्छास्त्राचार्योपदेशतो-
ऽनुस्मृत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नैव
तु पश्यति, अभावात् ॥४३॥

अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा
द्वैत दुःखरूप ही है—ऐसा निरन्तर
स्मरण करता हुआ कामभोगसे—
कामनानिमित्तक भोगसे अर्थात्
इच्छाजनित विषयसे उसमें फँसे हुए
चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा निवृत्त
करे—यह इसका तात्पर्य है । फिर
'यह सब अजन्मा ब्रह्म ही है'
ऐसा शास्त्र और आचार्यके उपदेशा-
नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ
उससे विपरीत द्वैतजातको—उसका
अभाव हो जानेके कारण—वह नहीं
देखता ॥ ४३ ॥

लये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।

सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥ ४४ ॥

चित्त [सुप्तिसमें] लीन होने लगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [यदि इन
दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे] सकषाय—रागयुक्त समझे ।
तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे ॥ ४४ ॥

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य-
 द्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं
 संबोधयेन्मन आत्मविवेक-
 दर्शनेन योजयेत् । चित्तं मन
 इत्यनर्थान्तरम् । विक्षिप्तं च
 कामभोगेषु जमयेत्पुनः । एवं
 पुनः पुनरभ्यस्यतो लयात्संबोधितं
 विषयेभ्यश्च व्यावर्तितं नापि
 साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सक्रपायं
 सरागं वीजसंयुक्तं मन इति
 विजानीयात् । ततोऽपि यत्नतः
 साम्यसापादयेत् । यदा तु
 समप्राप्तं भवति समप्राप्त्यभिमुखी-
 भवतीत्यर्थः, ततस्तत्र विचाल-
 येद्विषयाभिमुखं न कुर्यादि-
 त्यर्थः ॥ ४४ ॥

इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और
 वैराग्य—इन दो उपायोंसे, लय अर्थात्
 सुषुप्तिमें लीन हुए चित्तको, सम्बोधित
 अर्थात् आत्मविवेकदर्शनमें नियुक्त
 करे । चित्त और मन—ये कोई भिन्न
 पदार्थ नहीं हैं । तथा कामना और
 भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुनः
 शान्त करे । इस प्रकार वारम्बार
 अन्यासद्वारा लयावस्थासे सम्बोधित
 और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ
 चित्त जब अन्तरालावस्थामें स्थित
 होकर समताको भी प्राप्त न हो
 तो यह समझे कि इस समय
 मन सक्रपाय—रागयुक्त अर्थात् वीजा-
 वस्थासंयुक्त है । उस अवस्थासे भी
 उसे यत्नपूर्वक साम्यावस्थामें स्थित
 करे । किन्तु जिस समय वह
 समताको प्राप्त हो अर्थात् साम्या-
 वस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस समय
 उस अवस्थामें उसे विचलित न करे;
 अर्थात् विषयाभिमुख न करे ॥ ४४ ॥

नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।

निश्चलं निश्चरच्चित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥ ४५ ॥

उस साम्यावस्थामें [प्राप्त होनेवाले] सुखका आस्वादन न करे,
 बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसंग रहे । फिर यदि चित्त बाहर
 निकलने लगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल और एकाग्र करे ॥ ४५ ॥

समाधित्सतो योगिनो
यत्सुखं जायते तन्नास्वादयेत्,
तत्र न रज्येतेत्यर्थः । कथं तर्हि ?
निःसङ्गो निःस्पृहः प्रज्ञया विवेक-
बुद्ध्या यदुपलभ्यते सुखं तद-
विद्यापरिकल्पितं मृषैवेति
विभावयेत् । ततोऽपि सुख-
रागान्निगृह्णीयादित्यर्थः ।

यदा पुनः सुखरागान्निवृत्तं
निश्चलस्वभावं सन्निश्चरद्ब्रह्मिर्नि-
र्गच्छद्भवति चित्तं ततस्ततो
नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवैकी-
कुर्यात्प्रयत्नतः । चित्स्वरूपसत्ता-
मात्रमेवापादयेदित्यर्थः ॥ ४५ ॥

समाधिकी इच्छावाले योगीको
जो सुख प्राप्त होता है उसका
आस्वादन न करे अर्थात् उसमें राग
न करे । तो फिर कैसे रहे ? निः-
सङ्ग अर्थात् निःस्पृह होकर प्रज्ञा-
विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और
मिथ्या ही है । तात्पर्य यह कि उस
सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह
करे ।

जिस समय सुखके रागसे निवृत्त
होकर निश्चलस्वभाव हुआ चित्त फिर
बाहर निकलने लगे तब उसे उपर्युक्त
उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्न-
पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे । तात्पर्य
यह है कि उसे चित्स्वरूप सत्ता-
मात्र ही सम्पादित करे ॥४५॥


मन कब ब्रह्मरूप होता है ?

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।

अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥

जिस समय चित्त सुषुप्तिमें लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो
तथा निश्चल और विषयाभाससे रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही
हो जाता है ॥ ४६ ॥

यथाक्तोपायेन निवृत्तं उच्युक्त उपायसे निग्रह क्रिया
 चित्तं यदा सुषुप्ते न लीयते न बुद्धा चित्तं जिस समय सुषुप्तिमें
 च पुनर्विषयेषु विशिष्यते, द्वियोंने ही विशिष्य होता है तथा
 अनिङ्गनमचलं निघातप्रदोष- वायुगन्ध स्थानमें रखे हुए दीपकके
 कल्पसु, अनाभासं न केन- समान निश्चल और अनाभास अर्थात्
 चिन्कल्पितेन विषयभावेनाव- जो किसी भी कल्पित विषयभावसे
 भासन इति, यदैशंलक्षणं चित्तं प्रकाशित नहीं होता—ऐसा जिस
 नदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपेण समय वह चित्त हो जाता है उस
 निष्पन्नं चित्तं भवतीत्यर्थः ॥४६॥ रूपमे निष्कृत हो जाता है ॥४६॥



स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणलकथ्यं सुखमुत्तमम् ।

अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७ ॥

[उस अकथ्यमें जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग]
 स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा,
 अजन्मा इत्ये (ब्रह्म) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाने हैं ॥ ४७ ॥

यथाक्तं परमार्थसुखमात्म- उपयुक्त आत्मसत्यानुबोधरूप
 नत्यानुबोधलक्षणं स्वस्थं स्वात्मनि परमार्थ-सुख 'स्वस्थम्'—अपने आत्मामें
 स्थितम्; शान्तं सर्वानर्थोपशम- ही स्थित, 'शान्तम्'—सत्र प्रकारके
 रूपम्, सनिर्वाणं निर्वृतिनिर्वाण- अनर्थकी निवृत्तिरूप, 'सनिर्वाणम्'—
 कैवल्यं मह निर्वाणेन वर्तते, निर्वाण—निर्वृति अर्थात् कैवल्यको
 तथाकथ्यं न वक्तव्ये कथयितुम्; ब्रह्मते हैं, उस निर्वाणके सहित,
 श्रद्धन्नामाधारणविषयन्वात् ; तथा 'अकथ्यम्'—जो कहा न जा सके,
 क्योंकि उसका विषय अत्यन्त अ-

सुखमुत्तमं निरतिशयं हि
तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातमि-
त्यजं यथा विषयविषयम् ।
अजेनानुत्पन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्तं
सत्स्वेन सर्वज्ञरूपेण सर्वज्ञं ब्रह्मैव
सुखं परिचक्षते कथयन्ति
ब्रह्मविदः ॥ ४७ ॥

साधारण है, 'सुखमुत्तमम्'—योगियोंको ही प्रत्यक्ष होनेवाला होनेके कारण निरतिशय सुख है । तथा 'अजम्'—जो उत्पन्न न हो, जिस प्रकार कि विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, और अज यानी उत्पन्न न होनेवाले ज्ञेयसे अभिन्न होनेके कारण अपने सर्वज्ञरूपसे स्वयं ब्रह्म ही वह सुख है—ऐसा ब्रह्मज्ञलोग [उसके विषयमें] कहते हैं ॥ ४७ ॥



परमार्थसत्य क्या है ?

सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिर्मृ-
च्छोहादिवत्सृष्टिरुपासना चोक्ता
परमार्थस्वरूपप्रतिपत्त्युपायत्वेन न
परमार्थसत्येति । परमार्थसत्यं तु

मृत्तिका और लोहादिके समान ये मनोनिग्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा उपासना परमार्थस्वरूपकी प्राप्तिके उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये परमार्थसत्य नहीं हैं । परमार्थसत्य तो यही है कि—

न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८ ॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है । जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम सत्य है ॥ ४८ ॥

न कश्चिज्जायते जीवः कर्ता
 भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि
 प्रकारेण । अतः स्वभावतोऽ-
 जस्यास्यैकस्यात्मनः संभवः
 कारणं न विद्यते नास्ति ।
 यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न
 कश्चिज्जायते जीव इत्येतत् । पूर्वे-
 षुपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत-
 दुत्तमं सत्यं यस्मिन्सत्यस्वरूपे
 ब्रह्मण्यणुमात्रमपि किञ्चिन्न
 जायत इति ॥ ४८ ॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता—
 अर्थात् किसी भी प्रकारसे कर्ता-
 भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः
 स्वभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा-
 का कोई सम्भव—कारण नहीं है । और
 क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है
 इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी
 नहीं होती—यही इसका तात्पर्य है ।
 पहले उपायरूपसे बतलाये हुए
 सत्योंमें यही उत्तम सत्य है, जिस
 सत्यस्वरूप ब्रह्ममें कोई भी वस्तु
 अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥४८॥



इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
 श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्येऽद्वैताख्यं
 तृतीयं प्रकरणम् ॥ ३ ॥

ॐ तत्सत्



अलङ्कारान्तिकप्रकरणे

—१२३६—

ओङ्कारनिर्णयद्वारेणागतः

प्रतिज्ञातस्याद्वैतस्य

प्रकरण-
प्रयोजनम्

बाह्यविषयभेदवैतथ्या-

च सिद्धस्य पुनरद्वैते

शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षान्निर्धारित-

स्यैतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः

कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या-

द्वैतदर्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो

वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य-

विरोधाद्भागद्वेषादिक्लेशास्पदं

दर्शनमिति मिथ्यादर्शनत्वं

सूचितम् । क्लेशानास्पदत्वा-

त्सम्यग्दर्शनमित्यद्वैतदर्शनं

स्तूयते । तदिह विस्तरेणान्योन्य-

विरुद्धतयाऽसम्यग्दर्शनत्वं प्रदर्श्य

ओंकारके निर्णयद्वारा आगम-
प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्वैतका—

जिसे कि [वैतथ्यप्रकरणमें] बाह्य

विषयभेदके मिथ्यात्वद्वारा सिद्ध किया

है और फिर अद्वैत प्रकरणमें शास्त्र

और युक्तियोंसे साक्षात् निश्चय

किया है, [पिछले प्रकरणके]

अन्तमें 'एतदुत्तमं सत्यम्' ऐसा

कहकर उपसंहार किया गया । वेद-

के तात्पर्यभूत इस अद्वैतदर्शनके

विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक

(बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर

विरोधी होनेके कारण राग-द्वेषादि

क्लेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका

मिथ्यादर्शनत्व सूचित होता

है । और राग-द्वेषादि क्लेशोंका

आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदर्शन

ही सम्यग्दर्शन है—इस प्रकार उसकी

स्तुति की जाती है । अब यहाँ,

परस्पर विरोधी होनेके कारण

विस्तारपूर्वक उन (द्वैतवादी आदि

दार्शनिकोंके दर्शन) का मिथ्या-

दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रति-

तत्प्रतिषेधेनाद्वैतदर्शनसिद्धिरूप-
संहर्तव्यावीतन्यायेनेत्यलात-
शान्तिरारभ्यते ।

तत्राद्वैतदर्शनसम्प्रदायकर्तुः
अद्वैतस्वरूपेणैव नमस्कारार्थो-
ज्यमाद्यश्लोकः । आचार्यपूजा
ह्यभिप्रेतार्थसिद्धयर्थेण्यते शास्त्रा-
रम्भे ।

पेधद्वारा आवीतन्यायसे*अद्वैतदर्शन-
की सिद्धिका उपसंहार करना है—इसी-
लिये अलातशान्तिप्रकरणका आरम्भ
किया जाता है ।

उसमें अद्वैतदर्शनसम्प्रदायके
कर्ताको अद्वैतरूपसे ही नमस्कार
करनेके लिये यह पहला श्लोक है,
क्योंकि शास्त्रके आरम्भमें आचार्यकी
पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये
इष्ट ही है ।

नारायण-नमस्कार

ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् ।

ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम् ॥ १ ॥

जिसने ज्ञेय (आत्मा) से अभिन्न आकाशसदृश ज्ञानसे आकाश-
सदृश धर्मों (जीवों) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता
हूँ ॥ १ ॥

आकाशेनेपदसमाप्तमाकाश-
कल्पमाकाशतुल्यमेतत् । तेना-
काशकल्पेन ज्ञानेन, किम् ?
धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्गग-

जो आकाशकी अपेक्षा कुछ
असम्पूर्ण हो † उसे आकाशकल्प
अर्थात् आकाशतुल्य कहते हैं ।
उस आकाशसदृश ज्ञानसे—किसे ?
आत्माके धर्मोंको । किस प्रकारके

* अनुमान दो प्रकारका है—अन्वयी और व्यतिरेकी । अन्वयी अनुमान-
में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमें
एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी
अनुमानका ही दूसरा नाम 'आवीत अनुमान' भी है ।

† असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा
कुछ न्यून है । इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं
है—आकाशसे कुछ मिलता-जुलता है ।

नोपमान्गगनमुपमा येषां ते गग-
नोपमास्तानात्मनो धर्मान् ।

ज्ञानस्यैव पुनर्विशेषणम्—

ज्ञेयैर्धर्मैरात्मभिरभिन्नमग्न्युष्ण-

वत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञानं तेन

ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन

ज्ञेयात्मस्वरूपाव्यतिरिक्तेन गग-

नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संबुद्धवा-

निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा-

ख्यस्तं वन्देऽभिवादये द्विपदां वरं

द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं

प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः ।

उपदेष्टृनमस्कारमुखेन ज्ञान-

ज्ञेयज्ञातुभेदरहितं परमार्थतत्त्व-

दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद-

यिपितं प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण

प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥

धर्मोको ? गगनोपम धर्मोको—गगन
(आकाश) जिनकी उपमा हो
उन्हें गगनोपम कहते हैं—ऐसे आत्मा-
के धर्मोको । ज्ञानका ही फिर
विशेषण देते हैं—अग्निसे उष्णता
और सूर्यसे प्रकाशके समान जो
ज्ञान ज्ञेय धर्मों अर्थात् आत्माओंसे
अभिन्न है उस ज्ञेयाभिन्न अर्थात्
ज्ञेय आत्माके स्वरूपसे अव्यतिरिक्त
आकाशसदृश ज्ञानसे जिसने
आकाशोपम धर्मोको सदा ही सम्यक्
प्रकार जाना है—ऐसा जो नारायण-
संज्ञक* ईश्वर है उस द्विपदांवर-
दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोंमें श्रेष्ठ
यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना-
अभिवादन करता हूँ ।

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे
यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस
प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित
परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना
अभीष्ट है ॥ १ ॥

* यहाँ अद्वैतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदरिकाश्रमाधीश्वर तापसाप्रगण्य
श्रीनारायणकी वन्दना की गयी है ।

अद्वैतदर्शनकी वन्दना

अधुना अद्वैतदर्शनयोगस्य
नमस्कारस्तत्स्तुतये—

अब अद्वैतदर्शनयोगको, उसकी
स्तुतिके लिये, नमस्कार किया
जाता है—

अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः ।

अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमास्यहम् ॥ २ ॥

[शास्त्रोंमें] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, हितकारो, निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

स्पर्शनं स्पर्शः संबन्धो न
विद्यते यस्य योगस्य केन-
चित्कदाचिदपि सोऽस्पर्शयोगो
ब्रह्मस्वभाव एव, वै नामेति
ब्रह्मविदामस्पर्शयोग इत्येवं-
प्रसिद्ध इत्यर्थः । स च सर्व-
सत्त्वसुखः । भवति कश्चिदत्यन्त-
सुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः,
यथा तपः । अयं तु न तथा ।
किं तर्हि सर्वसत्त्वानां सुखः ।

तथेह भवति कश्चिद्विषयोप-

भोगः सुखो न हितः । अयं तु

जिस योगका किसीसे कभी
स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है उसे
'अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह ब्रह्म-
स्वभाव ही है । 'वै' 'नाम' इन
पदोंका यह तात्पर्य है कि वह
'ब्रह्मवेत्ताओंका अस्पर्शयोग' इस
नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त
प्राणियोंके लिये सुखकर होता है ।
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन-
विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता
है, जैसा कि तप । किन्तु यह ऐसा
नहीं है । तो फिर कैसा है ? यह
सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक है ।

इसी प्रकार इस लोकमें कोई-कोई
विषयसामग्री सुखदायक तो होती
है किन्तु हितकर नहीं होती ।

सुखो हितश्च नित्यमप्रचलित-
स्वभावत्वात् । किं चाविवादो
विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रति-
पक्षपरिग्रहेण यस्मिन्न विद्यते
सोऽविवादः । कस्मात् ? यतो-
ऽविरुद्धश्च । य ईदृशो योगो
देशितः उपदिष्टः शास्त्रेण तं
नमाम्यहं प्रणमामीत्यर्थः ॥ २ ॥

किन्तु यह तो सर्वदा अविचल-
स्वभाव होनेके कारण सुखदायक
भी है और हितकर भी । यही नहीं,
यह अविवाद भी है । जिसमें पक्ष-
प्रतिपक्ष स्वीकार करके विरुद्ध
कथनरूप विवाद नहीं होता उसे
अविवाद कहते हैं । ऐसा यह क्यों
है ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है ।
ऐसे जिस योगका शास्त्रने उपदेश
किया है, उसे मैं नमस्कार यानी
प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

द्वैतवादियोंका पारस्परिक विरोध

कथं द्वैतिनः परस्परं
विरुद्ध्यन्ते ? इत्युच्यते—

द्वैतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार
विरोध है ? सो बतलाया जाता है—

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि ।

अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ॥ ३ ॥

उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत् पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और
कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति
स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो
जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः
केचिदेव हि सांख्या न सर्व

कोई-कोई वादी—केवल सांख्य-
मतावलम्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं—
भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति—
उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि

एव द्वैतिनः । यस्माद्भूतस्या- दूसरे धीर-बुद्धिमान् यानी प्राज्ञा-
विद्यमानस्यापरे वैशेषिका- मिमानी वैशेषिक और नैयायिक-
नैयायिकाश्च धीरा धीमन्तः- का जन्म स्वीकार करते हैं, इसलिये
प्राज्ञामिमानीन इत्यर्थः विव- परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण
दन्तो विरुद्धं वदन्तो ह्यन्योन्य- करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेको
मिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः ॥३॥ तात्पर्य है ॥ ३ ॥

तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्य- । परस्पर विवाद करके एक-दूसरे-
पक्षप्रतिपेधं कुर्वन्निः किं ख्यापितं । के पक्षका खण्डन करनेवाले उन
भवत्युच्यते— वादियोंद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश
| किया जाता है, सो वतलते हैं—

भूतं न जायते किञ्चिद्भूतं नैव जायते ।

विवदन्तोऽद्वया ह्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥

[किन्हींका मत है—] 'कोई सद्वस्तु उत्पन्न नहीं होती' और
[कोई कहते हैं—] 'असद्वस्तुका जन्म नहीं होता'—इस प्रकार
परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वैतवादी* अजाति (अजातवाद) को
ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥

भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते । कोई भी भूत अर्थात् विद्यमान
किञ्चिद्विद्यमानत्वादेवात्मवदित्येवं वस्तु, विद्यमान होनेके कारण ही,
उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आत्मा—
वदन्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति- इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य-
पेधति सज्जन्म । तथा भूतमविद्य- के पक्ष सद्वादका, खण्डन करता है ।
मानमविद्यमानत्वाच्चैव जायते । तथा सांख्य भी 'अभूत-अविद्यमान
वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही

* यहाँ द्वैतवादियोंको ही व्यंगसे 'अद्वैतवादी' कहा है ।

शशश्रुज्जके समान उत्पन्न नहीं हो सकती'—ऐसा कहकर असद्वादीके पक्ष असत्की उत्पत्तिका प्रतिषेध करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये अद्वैतवादी—त्रयोकि वरतुतः ये अद्वैतवादी ही हैं—एक-दूसरेके पक्ष सज्जन्म और असज्जन्मका खण्डन करते हुए अर्थतः अजाति—अनुत्पत्तिको ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥

शशश्रुज्जके समान उत्पन्न नहीं हो सकती'—ऐसा कहकर असद्वादीके पक्ष असत्की उत्पत्तिका प्रतिषेध करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये अद्वैतवादी—त्रयोकि वरतुतः ये अद्वैतवादी ही हैं—एक-दूसरेके पक्ष सज्जन्म और असज्जन्मका खण्डन करते हुए अर्थतः अजाति—अनुत्पत्तिको ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥



द्वैतवादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन

ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम् ।

विवादामो न तैः सार्धमविवादं निबोधत ॥ ५ ॥

उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते हैं। हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [परमार्थदर्शन] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥

तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेव-
मस्त्वित्यनुमोदामहे केवलं न
तैः सार्धं विवादामः पक्षप्रतिपक्ष-
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्य-
भिप्रायः। अतस्तमविवादं विवाद-
रहितं परमार्थदर्शनमनुज्ञातमस्मा-
मिनिबोधत हे शिष्याः ॥५॥

उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित की गयी अजातिका हम 'ऐसा ही हो' इस प्रकार केवल अनुमोदन करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद नहीं करते, जैसा कि वे आपसमें किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण ! हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस अविवाद—विवादरहित परमार्थदर्शन-को तुम अच्छी तरह समझ लो ॥५॥

अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥

ये वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना स्वीकार करते हैं । किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलताको कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ ६ ॥

सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति । यहाँ ['वादिनः' पदसे] सभी सदवादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं । पुरस्तात्कृतभाष्यश्लोकः ॥ ६ ॥ इस श्लोकका भाष्य पहले * किया जा चुका है ॥ ६ ॥

स्वभावविपर्यय असम्भव है

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।

प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ ७ ॥

मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके स्वभावका विपर्यय किसी प्रकार होनेवाला नहीं है ॥ ७ ॥

स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् ।

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ ८ ॥

जिसके मतमें स्वभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको प्राप्त हो जाता है; उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल (चिरस्थायी) कैसे रह सकेगा ? ॥ ८ ॥

* देखिये अद्वैतप्रकरण श्लोक २० का अर्थ ।

उक्तार्थानां श्लोकानामिहोप-
न्यासः परवादिपक्षाणामन्योन्य-
विरोधख्यापितानुत्पत्त्यनुमोदन-
प्रदर्शनार्थः ॥ ७-८ ॥

जिनका अर्थ पहले कहा जा चुका है ऐसे उपर्युक्त [तीन] श्लोकों-का उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके पक्षोंके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने-के लिये किया गया है ॥ ७-८ ॥



यस्माद्धौकिक्यपि प्रकृतिर्न
विपर्येति, कासावित्याह—

क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी-का तो कैसे होगा ?] किन्तु वह प्रकृति है क्या ? इसपर कहते हैं—

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या ।

प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ ९ ॥

जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, स्वभावसिद्धा, सहजा और अकृता है तथा कभी अपने स्वभावका परित्याग नहीं करती वही 'प्रकृति' है—
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥

सम्यक्सिद्धिः संसिद्धिस्तत्र
भवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां
सिद्धानाम् अणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिः
प्रकृतिः । सा भूतभविष्यत्काल-
योरपि योगिनां न विपर्येति
तथैव सा । तथा स्वाभाविकी
द्रव्यस्वभावत एव यथाग्न्या-

सम्यक् सिद्धिका नाम संसिद्धि
है; उससे होनेवालीको 'सांसिद्धिकी'
कहते हैं; जिस प्रकार कि सिद्ध
योगियोंको अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्ति
उनकी प्रकृति है । योगियोंकी उस
प्रकृतिका भूत और भविष्यत् कालमें
भी विपर्यय नहीं होता—वह जैसी-की-
तैसी ही रहती है । तथा 'स्वाभाविकी'
वस्तुके स्वभावसे सिद्ध; जैसी कि

दीनाम् उष्णप्रकाशादिलक्षणा,
सापि न कालान्तरे व्यभिचरति
देशान्तरे च । तथा सहजा
आत्मना सहैव जाता यथा पक्ष्या-
दीनामाकाशगमनादिलक्षणा ।

अन्यापि या काचिदकृता
केनचिन्न कृता यथापां निम्न-
देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि
या काचित्स्वभावं न जहाति सा
सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके ।
मिथ्याकल्पितेषु लौकिकेष्वपि
वस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा भवति
किमुताजस्वभावेषु परमार्थ-
वस्तुष्वमृतत्वलक्षणा प्रकृतिर्ना-
न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥

अग्नि आदिकी उष्णता एवं प्रकाशादि-
रूपा प्रकृति होती है । उसका भी
कालान्तर और देशान्तरमें व्य-
भिचार नहीं होता । तथा 'सहजा'
—अपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली;
जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश-
गमनादिरूपा प्रकृति होती है ।

और भी जो कोई 'अकृता'—
किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई;
जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश-
की ओर जानेकी है । तथा इसके
सिवा अन्य भी जो कोई अपने स्वभाव-
को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें
'प्रकृति' नामसे ही जानना
चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई
लौकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति
अन्यथा नहीं होती; फिर अजस्वभाव
परमार्थ वस्तुओंमें उनकी अमृतत्व-
लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो
सकती—इसमें तो कहना ही क्या
है ? यह इसका अभिप्राय है ॥९॥



जीविका जरामरण माननेमें दोष

किंविषया पुनः सा प्रकृति-
यस्या अन्यथाभावो वादिभिः

वादीलोग जिसके अन्यथाभावकी
कल्पना करते हैं उस प्रकृतिका
विषय क्या है ? और उनकी

कल्प्यते कल्पनायां वा को दोष इत्याह— कल्पनामें क्या दोष है ? इसपर कहते हैं—

जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः ।

जरामरणमिच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥

समस्त जीव स्वभावसे ही जरा-मरणसे रहित हैं । उनके जरा-मरण स्वीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही, स्वभावसे च्युत हो जाते हैं ॥ १० ॥

जरामरणनिर्मुक्ताः—जरा-मरणादिसर्वविक्रियावर्जिता इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व आत्मान इत्येतत्स्वभावतः प्रकृतितः । एवंस्वभावाः सन्तो धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सर्पमात्मनि कल्पयन्तश्च्यवन्ते स्वभावतश्चलन्तीत्यर्थः, तन्मनीषया जन्म-मरणचिन्तया तद्भावभावितत्व-दोषेणेत्यर्थः ॥ १० ॥

‘जरामरणनिर्मुक्ताः’ अर्थात् जरा-मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित हैं । कौन ? सम्पूर्ण धर्म अर्थात् समस्त जीवात्मा, स्वभावतः यानी प्रकृतिसे ही । ऐसे स्वभाववाले होनेपर भी जरा-मरणके इच्छुकके समान इच्छा करनेवाले अर्थात् रज्जु-में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण-की कल्पना करनेवाले जीव, उसकी मनीषा—जरामरणकी चिन्तासे अर्थात् उस भावसे भावित होनेके दोषवश अपने स्वभावसे च्युत—विचलित हो जाते हैं ॥ १० ॥

सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति

कथं सजातिवादिभिः सांख्यैरनुपपन्नमुच्यत इत्याह वैशेषिकः—

सजातिवादी सांख्यमतावलम्बियोंका कथन किस प्रकार असङ्गत है ? सो वैशेषिकमतावलम्बी बतलाते हैं—

कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते ।

जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत् ॥ ११ ॥

जिस (सांख्यमतावलम्बी) के मतमें कारण ही कार्य है उसके सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है । किन्तु जब कि वह जन्म लेनेवाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न (विदीर्ण) होनेपर भी नित्य कैसे हो सकता है ? ॥ ११ ॥

कारणं सूद्रुपादानलक्षणं
यस्य वादिनो वै कार्यं कारणमेव
कार्याकारेण परिणमते यस्य
वादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव
सत्प्रधानादि कारणं महदादि-
कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः ।
महदाद्याकारेण चेज्जायमानं
प्रधानं कथमजमुच्यते तैर्वि-
प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति ।


नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं
भिन्नं विदीर्णं स्फुटितमेकदेशेन
सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न
हि सावयवं घटादि एकदेश-

जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके समान उपादान कारण ही कार्य है अर्थात् जिसके मतमें कारण ही कार्यरूपमें परिणत होता है उसके सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण अजन्मा होता हुआ भी महदादि कार्यरूपसे उत्पन्न होता है—ऐसा इसका तात्पर्य है । किन्तु यदि प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होनेवाला है तो वे उसे अजन्मा कैसे बतलाते हैं ? उत्पन्न होता है और अजन्मा भी है—ऐसा कथन तो परस्पर विरुद्ध है ।

इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी बतलाते हैं । किन्तु वह भिन्न-विदीर्ण अर्थात् एक देशमें स्फुटित यानी विकृत होनेवाला* होकर भी नित्य कैसे हो सकता है ? तात्पर्य यह कि घटादि सावयव पदार्थ, जो एक

स्फुटनधर्मि नित्यं दृष्टं लोक
इत्यर्थः । विदीर्णं च स्यादेकदेशे-
नाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्धं
तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः ॥११॥

देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, लोकमें
कभी नित्य नहीं देखे गये । वह
अपने एक देशमें विदीर्ण होता है
तथा अज और नित्य भी है—यह
तो उनका विरुद्ध कथन ही है—
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥



उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ-
माह—

उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी-
करण करनेके लिये कहते हैं—

कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं यदि ।

जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् ॥ १२ ॥

यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी
अजन्मा है; और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन्न होनेपर
कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है ? ॥ १२ ॥

कारणादजात्कार्यस्य यद्यनन्य-

त्वमिष्टं त्वया ततः

कार्यकारणयोः कार्यमजमिति प्राप्तम् ।

अभिन्नत्वे इदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं

विप्रतिपत्तिः कार्यमजं चेति तव ।

किं चान्यत्कार्यकारणयोरनन्यत्वे

जायमानाद्धि वै कार्यात्कारण-

मनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कथं

भवेत् । न हि कुक्कुट्या एकदेशः

पच्यत एकदेशः प्रसवाय

कल्प्यते ॥ १२ ॥

यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे
कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [तुम्हारे
मतमें] यह बात सिद्ध होती है कि
कार्य भी अजन्मा है । किन्तु कार्य
है और अजन्मा है—यह तुम्हारे
कथनमें एक दूसरा विरोध है ।
इसके सिवा, कार्य और कारणकी
अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशील कार्यसे
अभिन्न उसका कारण नित्य और
निश्चल कैसे रह सकता है ? ऐसा
कभी नहीं हो सकता कि मुर्गीका
एक अंश तो पकाया जाय और
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये
रखा जाय ॥ १२ ॥

किं चान्यत्—

इसके सिवा और भी—

अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै ।

जातान्न जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥

जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । और यदि जात पदार्थसे हो कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो जाती है ॥ १३ ॥

अजादनुत्पन्नाद्वस्तुनो जायते

जिस वादीके मतमें अज-अनु-

यस्य वादिनः कार्य

त्पन्न वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती

जाताजातयोः

दृष्टान्तस्तस्य नास्ति

है उसके पास निश्चय ही कोई

उभयोरपि

वै, दृष्टान्ताभावे-

दृष्टान्त नहीं है । अतः तात्पर्य यह

कारणत्वानुत्पत्तिः

वै, दृष्टान्ताभावे-

हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके

ऽर्थादजान्न किञ्चिज्जायत इति

कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो

सिद्धं भवतीत्यर्थः । यदा

जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी

पुनर्जाताजायमानस्य वस्तुनः

उत्पत्ति नहीं होती । और जब

अभ्युपगमः, तदप्यन्यस्मात्

किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे

जातात्तदप्यन्यस्मादिति न

कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है

व्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थानं

तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे

स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥

उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी

औरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये—इस

प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती;

अर्थात् अनवस्था उपस्थित हो

जाती है ॥ १३ ॥

हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष

“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्”
(वृ० उ० २ । ४ । १४) इति
परमार्थतो द्वैताभावः श्रुत्योक्त-
स्तमाश्रित्याह—

“जिस अवस्थामें इसकी दृष्टिमें
सब आत्मा ही हो गया है” इस
श्रुतिने जो परमार्थतः द्वैतका अभाव
बतलाया है, उसीको आश्रित करके
कहते हैं—

हेतोरादिः फलं येषामादिर्हेतुः फलस्य च ।

हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते ॥ १४ ॥

जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे
हेतु और फलके अनादित्वका प्रतिपादन कैसे करते हैं ? ॥ १४ ॥

हेतोर्धर्मादिरादिः कारणं
देहादिसंघातः फलं येषां
वादिनाम् । तथादिः कारणं
हेतुर्धर्माधर्मादिः फलस्य च देहा-
दिसंघातस्य । एवं हेतुफलयोरित-
रेतरकार्यकारणत्वेनादिमत्त्वं
ब्रुवद्भिरेवं हेतोः फलस्य चाना-
दित्वं कथं तैरुपवर्ण्यते ?
विप्रतिषिद्धमित्यर्थः । न हि
नित्यस्य कूटस्थस्यात्मनो हेतु-
फलात्मता संभवति ॥ १४ ॥

जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात्
धर्मादिका आदि-कारण देहादि
संघातरूप फल है तथा देहादि
संघातरूप फलका आदि-कारण
धर्माधर्मादि हेतु है*—इस प्रकार
हेतु और फलका एक-दूसरेके
कार्य-कारणरूपसे कारणत्व बतलाने-
वाले उन लोगोंद्वारा हेतु और फलका
अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन
किया जाता है ? अर्थात् उनका यह
कथन सर्वथा विरुद्ध है । नित्य कूटस्थ
आत्माकी हेतुफलात्मकता तो किसी
प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ १४ ॥

* अर्थात् जो धर्मादिको शरीरादिकी प्राप्तिका कारण और शरीरको
धर्मादि-सम्पादनका कारण मानते हैं ।

कथं तैर्विरुद्धमभ्युपगम्यत
इत्युच्यते—

वे किस प्रकार विरुद्ध मतको
मानते हैं, सो वतलाया जाता है—

हेतोरादिः फलं येषामादिर्हेतुः फलस्य च ।

तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥ १५ ॥

जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है
उनकी [मानी हुई] उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म
होना ॥ १५ ॥

हेतुजन्यादेव फलाद्धेतो-
र्जन्माभ्युपगच्छतां तेषामीदृशो
विरोध उक्तो भवति यथा
पुत्राज्जन्म पितुः ॥ १५ ॥

हेतुसे उत्पन्न होनेवाले फलसे
ही हेतुका जन्म माननेवाले उन
लोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा
जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म
वतलानेमें ॥ १५ ॥

यथोक्तो विरोधो न युक्तो-
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्नन्यसे—

यदि तुम ऐसा मानते हो कि
उपर्युक्त विरोध मानना उचित
नहीं है तो—

संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया ।

युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत् ॥ १६ ॥

तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम खीकार करना चाहिये,
क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [दायें-बायें] सींगोंके समान
परस्पर [कार्य-कारणरूप] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६ ॥

संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तौ क्रम
एषितव्यस्त्वयान्वेष्टव्यो हेतुः
पूर्वं पश्चात्फलं चेति । इतश्च

तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें
क्रम अर्थात् पहले हेतु होता है
और फिर फल—इस प्रकार दोनोंका
पौर्वापर्य खोजना चाहिये; क्योंकि

युगपत्संभवे यस्माद्धेतुफलयोः
कार्यकारणत्वेनासंबन्धः, यथा
युगपत्संभवतोः सव्येतरगो-
विपाणयोः ॥ १६ ॥

जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले दार्ये और ब्रायें सींगोंका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण-रूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥१६॥



कथमसंबन्धः ? इत्याह—

उनका किस प्रकार सम्बन्ध नहीं होगा ? सो बतलाते हैं—

फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति ।

अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति ॥ १७ ॥

तुम्हारं मतमें यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता है तो वह [हेतुरूपसे] सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ? ॥१७॥

जन्मात्स्वतोऽलब्धात्मकात्

जन्य अर्थात् जो स्वतः प्राप्त नहीं है उस शशशृङ्गके समान असत् फलसे उत्पन्न होनेवाला होने-पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता अर्थात् उसीका जन्म नहीं हो सकता । इस प्रकार शशशृङ्गके समान जिसकी स्वतः उपलब्धि नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे मतमें किस प्रकार फल उत्पन्न कर देगा ? एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध होनेवाले तथा शशशृङ्गके समान सर्वथा असत् पदार्थोंका कार्य-कारण-भावसे अथवा किसी और प्रकार

फलादुत्पद्यमानः सञ्जश-
विपाणादेरिवासतो न हेतुः
प्रसिध्यति जन्म न लभते ।
अलब्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्जश-
विपाणादिकल्पस्तव कथं फल-
मुत्पादयिष्यति ? न हीतरेतरा-
पेक्षसिद्धयोः शशविपाणकल्पयोः
कार्यकारणभावेन संबन्धः

क्वचिद्दृष्टः, अन्यथा वेत्य-
भिप्रायः ॥ १७ ॥

कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया—यह
इसका अभिप्राय है ॥ १७ ॥

यदि हेतोः फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः ।

कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया ॥ १८ ॥

[तुम्हारे मतमें] यदि फलसे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुसे फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षासे कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? ॥ १८ ॥

असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि
हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि
हेतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युप-
गम्यत एव त्वया कतरत्पूर्व-
निष्पन्नं हेतुफलयोर्यस्य पश्चाद्भा-
विनः सिद्धिः स्यात्पूर्वसिद्धय-
पेक्षया तद्ब्रूहीत्यर्थः ॥१८॥

हेतु और फलके कार्य-कारण-
भावका असंबन्धतादोषसे निरा-
करण कर दिया जानेपर भी यदि
तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे
सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु
और फलमेंसे पहले कौन हुआ—सो
वतलाओ; जिसकी पूर्वसिद्धिकी अपेक्षा-
से पीछे होनेवालेकी सिद्धि मानी
जाय ?—यह इसका तात्पर्य है ॥१८॥

अथैतन्न शक्यते वक्तुमिति
मन्यसे,

और यदि तुम ऐसा मानते हो,
कि यह नहीं वतलाया जा सकता
तो—

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः ।

एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता ॥ १९ ॥

यह अशक्ति (असामर्थ्य) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [क्योंकि इनके पूर्वापरत्वका ज्ञान न होनेसे इनमें जो पूर्ववर्ती हैं वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा]

कोई नियम भी नहीं रह सकता] । इस प्रकार उन बुद्धिमानोंने सर्वथा अजातिकों ही प्रकाशित किया है ॥ १९ ॥

स्रेयमशक्तिरपरिज्ञानं तच्चा-
विवेको मृदतेत्यर्थः । अथ वा
योष्यं न्वयोक्तः क्रमो हेतोः
फलस्य सिद्धिः फलाच्च हेतोः
सिद्धिरिनीतरेतरानन्तर्यलक्षण-
स्तस्य कोपो विपर्यासोऽन्यथाभावः
स्यादिन्यभिप्रायः । एवं हेतु-
फलयोः कार्यकारणभावादुप-
पत्तेरजातिः सर्वस्यानुत्पत्तिः
परिदीपिता प्रकाशितान्योन्य-
पक्षदोषं त्रुवद्विर्वादिभिर्बुद्धैः
पण्डितैरित्यर्थः ॥ १९ ॥

यह अशक्ति [तुम्हारा] अपरि-
ज्ञान-तत्त्वका अविवेक अर्थात्
मूढ़ता ही है । अथवा तुमने जो
एक-दूसरेका पार्वीपर्यरूप यह क्रम
बतलाया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि
होती है और फलसे हेतुकी, उसका
कोप-विपर्यास अर्थात् अन्यथाभाव
होजायगा-ऐसा इसका अभिप्राय है ।
इस प्रकार हेतु और फलका कार्य-
कारणभाव असम्भव होनेके कारण
एक-दूसरेके पक्षका दोष बतलाने-
वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात्
पण्डितोंने सबकी अजाति-अनुत्पत्ति
ही प्रकाशित की है ॥ १९ ॥

ननु हेतुफलयोः कार्यकारण-
भाव इत्यस्माभिरुक्तं शब्दमात्र-
माश्रित्यच्छलमिदं त्वयोक्तं
पुत्राज्जन्म पितुर्यथा, विषाण-
वच्चासंवन्ध इत्यादि । न
ह्यस्माभिरसिद्धाद्धेतोः फलसिद्धि-
रसिद्धाद्वा फलाद्धेतुसिद्धिरभ्यु-

पूर्व०-हमने जो कहा कि हेतु
और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव
है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको
पकड़कर छलपूर्वक ऐसा कह दिया
कि 'जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना
है' '[दार्ये-त्रार्ये] सींगोंके समान
[उनका परस्पर] सम्बन्ध ही नहीं
हो सकता' इत्यादि । हमने असिद्ध
हेतुसे फलकी सिद्धि अथवा असिद्ध
फलसे हेतुकी सिद्धि कभी नहीं

पशता । किं तर्हि ? बीजाङ्कुर-
वत्कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यत
इति ।

अत्रोच्यते—

मानी । तो फिर क्या माना है ?
हम तो बीज और अङ्कुरके समान
केवल उनका कार्य-कारणभाव
मानते हैं ।

सिद्धान्ती—इसपर हमें यह
कहना है कि—

बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः ।

न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥

बीजाङ्कुर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान
है । और जो हेतु साध्यके ही सदृश होता है वह साध्यकी सिद्धिमें
उपयोगी नहीं होता ॥ २० ॥

बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तो यः

बीजाङ्कुर नामका जो दृष्टान्त है

बीजाङ्कुरदृष्टान्तस्य
साध्यसन्तवन्

स साध्येन तुल्यो

ममेत्यभिप्रायः ।

ननु प्रत्यक्षः

कार्यकारणभावो बीजाङ्कुर-

योरनादिः ? न, पूर्वस्य पूर्वस्था-

परयदादिमत्त्वाभ्युपगमात् ।

यथेदानीमुत्पन्नोऽपरोऽङ्कुरो बीजा-

दादिमान् बीजं चापरमन्यस्माद-

ङ्कुरादिति क्रमेणोत्पन्नत्वा-

दादिमत् । एवं पूर्वः पूर्वोऽङ्कुरो

बीजं च पूर्वं पूर्वमादिमदेवेति

वह तो साध्यके ही समान है—ऐसा

मेरा अभिप्राय है । यदि कहो कि

बीज और अङ्कुरका कार्य-कारणभाव

तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी

बात नहीं है क्योंकि उनमेंसे पूर्व-

पूर्व [अङ्कुर और फल] को परवर्तियों-

के समान आदिमान् माना गया

है । जिस प्रकार इस समय बीजसे

उत्पन्न हुआ दूसरा अङ्कुर आदिमान्

है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्कुरसे

उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान्

है । इस प्रकार पूर्व-पूर्व अङ्कुर और

पूर्व-पूर्व बीज आदिमान् ही है ।

प्रत्येकं सर्वस्य बीजाङ्कुरजात-

स्यादिमत्त्वात्कस्यचिदप्यनादि-

त्वानुपपत्तिः । एवं हेतुफलानाम् ।

अथ बीजाङ्कुरसन्ततेरनादि-

मत्त्वमिति चेत् ? न,

बीजाङ्कुर-
सन्ततिनिरासः एकत्वानुपपत्तेः । न

हि बीजाङ्कुरव्यति-

रेकेण बीजाङ्कुरसन्ततिर्नामैका-

भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा

तदनादित्ववादिभिः । तस्मात्सूक्तं

हेतोः फलस्य चानादिः कथं

तैरुपवर्ण्यत इति । तथा चान्य-

दप्यनुपपत्तेर्नञ्छलमित्यभिप्रायः ।

न च लोके साध्यसमो हेतुः

साध्यसिद्धौ सिद्धिनिमित्तं

प्रयुज्यते प्रमाणकुशलैरित्यर्थः ।

हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्राभिप्रेतः,

गमकत्वाद् । प्रकृतो हि दृष्टान्तो

न हेतुरिति ॥ २० ॥

अतः सम्पूर्ण बीजाङ्कुरवर्गका प्रत्येक

बीज और अङ्कुर आदिमान् होनेके

कारण किसीका भी अनादि होना

असम्भव है । यही न्याय हेतु और

फलके विषयमें भी समझना चाहिये ।

यदि कहो कि बीजाङ्कुरपरम्परा

तो अनादि हो ही सकती है; तो

ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि

उसका एकत्व नहीं माना गया ।

हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन

करनेवालोंने बीज और अङ्कुरसे

भिन्न बीजाङ्कुरपरम्परा अथवा हेतु-

फलपरम्परा नामका कोई एक

स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः

'वे लोग हेतु और फलका अनादित्व

किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं'

यह कथन बहुत ठीक है । इसके सिवा

अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा

कथन छल नहीं है—ऐसा इसका

तात्पर्य है । अभिप्राय यह है कि

लोकमें प्रमाणकुशल पुरुषोंद्वारा

साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही

सदृश हेतुका प्रयोग नहीं किया

जाता । यहाँ 'हेतु' शब्दका अभिप्राय

दृष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका

ज्ञापक है; यहाँ दृष्टान्तका ही प्रकरण

भी है—हेतुका नहीं ॥ २० ॥



अजातवाद-निरूपण

कथं बुद्धैरजातिः परिदीपिते-
त्याह—

पण्डितोंने अजातिको ही किस प्रकार प्रकाशित किया है ? इसपर कहते हैं—

पूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम् ।

जायमानाद्धि वै धर्मात्कथं पूर्वं न गृह्यते ॥ २१ ॥

[हेतु और फलके] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिका ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [सचमुच] उत्पन्न हुआ होता तो उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता ? ॥ २१ ॥

यदेतद्धेतुफलयोः पूर्वापरापरि-
ज्ञानं तच्चैतदजातेः परिदीपकम-
वबोधकमित्यर्थः । जायमानो हि
चेद्धर्मो गृह्यते, कथं तस्मात्पूर्वं
कारणं न गृह्यते । अवश्यं हि
जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं
ग्रहीतव्यम् । जन्यजनकयोः
संबन्धस्यानपेतत्वात् । तस्माद-
जातिपरिदीपकं तदित्यर्थः ॥ २१ ॥

यह जो हेतु और फलके पौर्वा-
पर्यका अज्ञान है वह अजातिका ही
परिदीपक अर्थात् ज्ञापक है । यदि
कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया
जाता है तो उससे पूर्ववर्ती कारण
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता ?
उत्पन्न होनेवाली वस्तुको ग्रहण
करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति-
का कारण भी अवश्य ही ग्रहण
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य
और जनक पदार्थोंका सम्बन्ध
अनिवार्य है । इसलिये तात्पर्य यह
है कि यह अजातिका ही प्रकाशक
है ॥ २१ ॥

सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति

इत्थं न जायते किञ्चित्,
यज्जायमानं वस्तु—

इसलिये भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं
होती, क्योंकि उत्पन्न होनेवाली वस्तु—

स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ।

सदसत्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ॥ २२ ॥

स्वतः अथवा परतः [किसी भी प्रकार] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि सत्, असत् अथवा सदसत्, ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती ॥ २२ ॥

स्वतः परत उभयतो वा
सदसत्सदसद्वा न जायते न
तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म
संभवति । न तावत्स्वयमेवापरि-
निष्पन्नात्स्वतः स्वरूपात्स्वयमेव
जायते यथा घटस्तस्मादेव घटात् ।
नापि परतोऽन्यस्मादन्यो यथा
घटात्पटः पटात्पटान्तरम् । तथा
नोभयतः, विरोधात्; यथा
घटपटाभ्यां घटः पटो वा
न जायते ।

ननु मृदो घटो जायते पितुश्च
पुत्रः । सत्यम्, अस्ति जायत
इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम् ।

अपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंहीसे
सत्, असत् अथवा सदसद्रूपसे
उत्पन्न नहीं होती—किसी भी प्रकार
उसका जन्म होना सम्भव नहीं है ।
जिस प्रकार घड़ा उसी घड़ेसे उत्पन्न
नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई
भी वस्तु स्वयं अपने अपरिनिष्पन्न
(पूर्णतया तैयार न हुए) स्वरूपसे
स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती ।
और न किसी अन्यसे ही अन्यकी
उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे
पटकी अथवा पटसे पटान्तरकी ।
तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण
दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं
हो सकती; जिस प्रकार कि घट
और पट दोनोंसे घट या पट कोई
उत्पन्न नहीं हो सकता ।

यदि कहो कि मिट्टीसे घड़ा
उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका
जन्म होता है तो; ठीक है, परन्तु
'उत्पन्न होता है' ऐसा शब्द और
उसकी प्रतीति मूर्खोंको ही हुआ

तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः
परीक्ष्येते किं सत्यमेव तावुत
मृपेति । यावता परीक्ष्यमाणे
शब्दप्रत्ययविपर्यं वस्तु घट-
पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत् ।
“वाचारम्भणम्” (छा० उ०
६ । १ । ४) इति श्रुतेः ।

सचेन्न जायते सत्त्वान्मृत्पित्रा-
दिवत् । यद्यसत्तथापि न जायते-
ऽसत्त्वादेव शश्विषाणादिवत् ।
अथ सदसत्तथापि न जायते
विरुद्धस्यैकस्यासंभवात् । अतो
न किञ्चिद्वस्तु जायत इति सिद्धम् ।

येषां पुनर्जनिरेव जायत
इति क्रियाकारकफलैकत्वम्
अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं
च वस्तुनः, ते दूरत एव

करती है । विवेकी लोग तो उन
शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हैं
अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा
किया करते हैं । किन्तु परीक्षा की
जानेपर तो शब्द और उसकी
प्रतीतिकी विपर्यभूत घट अथवा
पुत्रादिरूप वस्तु केवल शब्दमात्र ही
हैं; जैसा कि “वाचारम्भणम्”
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।

यदि वस्तु सत् (विद्यमान)
हैं तो मृत्तिका और पिता आदिके
समान सत् होनेके कारण ही उत्पन्न
नहीं हो सकती । यदि असत् है,
तो भी शश्वृङ्गादिके समान असत्
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो
सकती । और यदि सदसत् है तो
भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि
एक ही वस्तु विरुद्ध संभाववाली
होनी असम्भव है । अतः यही
सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न
नहीं होती ।

इसके विपरीत जिन (बौद्धों) के
मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता
है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक और
फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्व
स्वीकार करते हैं वे तो विल्कुल ही

न्यायापेताः । इदमित्थमित्यव-
धारणक्षणान्तरानवस्थानादननु-
भूतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्च ॥ २२ ॥

युक्तिशून्य हैं क्योंकि 'यह ऐसा है'
इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे
दूसरे ही क्षणमें स्थिति न रहनेके
कारण [पदार्थका अनुभव नहीं
हो सकता]; और बिना अनुभव
हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्भव
है ॥२२॥



हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका सूचक है

किं च हेतुफलयोरनादित्वम-
भ्युपगच्छता त्वया बलाद्धेतुफल-
योरजन्मैवाभ्युपगतं स्यात् ।
तत्कथम् ?

यही नहीं, हेतु और फलका
अनादित्व स्वीकार करनेवाले तुम्हारे
द्वारा तो बलात्कारसे हेतु और फलकी
अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली गयी है ।
सो किस प्रकार ?

हेतुर्न जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः ।

आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते ॥ २३ ॥

अनादि फलसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार
स्वभावसे ही [अनादि हेतुसे] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती,
क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि (कारण) नहीं होता उसका आदि
(जन्म) भी नहीं होता ॥ २३ ॥

अनादेरादिरहितात्फलाद्धेतुर्न
जायते । न ह्यनुत्पन्नादनादेः
फलाद्धेतोर्जन्मेष्यते त्वया । फलं
चादिरहितादनादेर्हेतोरजात्स्व-
भावत एव निर्निमित्तं जायत
इति नाभ्युपगम्यते ।

अनादि अर्थात् आदिरहित फल-
से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी
कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि
फलसे तो तुम हेतुका जन्म मानते
ही नहीं हो; और न ऐसा ही
मानते हो कि अनादि—आदिरहित
अर्थात् अजन्मा हेतुसे बिना किसी
निमित्तके स्वभावतः ही फलकी
उत्पत्ति हो जाती है ।

तस्मादनादित्वमभ्युपगच्छता
त्यया हेतुफलयोरजन्मैवाभ्युप-
गम्यते । यस्मादादिः कारणं न
विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः
पूर्वोक्ता जातिर्न विद्यते । कारण-
वत् एव ह्यादिरभ्युपगम्यते
नाकारणवत्तः ॥ २३ ॥

अतः हेतु और फलका अनादित्व
माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी
अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती
है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका
आदि-कारण नहीं होता उसका
आदि अर्थात् पूर्वोक्त जन्म भी नहीं
होता । जिसका कोई कारण होता है
उसीका जन्म भी माना जाता है;
कारणरहित पदार्थका नहीं ॥२३॥



बाह्यार्थवाद-निरूपण

उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरण- पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी
चिकीर्षया पुनराक्षिपति— इच्छसे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं—

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा द्वयनाशतः ।

संक्षेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४ ॥

प्रज्ञप्ति (शब्दस्पर्शादि ज्ञान) को सनिमित्त (बाह्यविषययुक्त)
मानना चाहिये; नहीं तो [शब्दस्पर्शादि] द्वैतका नाश हो जायगा ।
इसके सिवा [अग्निदाह आदि] हेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता-
वलम्बियोंके शास्त्रद्वारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है ॥ २४ ॥

प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि-
प्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वम्;
निमित्तं कारणं विषय इत्ये-
तत्सनिमित्तत्वं सविषयत्वं
स्वात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्
प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया

प्रज्ञान अर्थात् शब्दादि-प्रतीति-
का नाम प्रज्ञप्ति है । वह सनिमित्त
है । निमित्त-कारण अर्थात् विषयको
कहते हैं; अतः सनिमित्त—सविषय
यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके
सहित है—ऐसी हम [उसके विषय-
में] प्रतिज्ञा करते हैं । [अर्थात्

प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात् ,
 तस्याः सनिमित्तत्वात् । अन्यथा
 निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीत-
 लोहितादिप्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य
 नाशतो नाशोऽभावः प्रसज्येते-
 त्यर्थः । न च प्रत्ययवैचित्र्यस्य
 द्वयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात् ।
 अतः प्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य
 दर्शनात्, परेषां तन्त्रं परतन्त्र-
 मित्यन्यशास्त्रम्, तस्य परतन्त्रस्य
 परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान-
 व्यतिरिक्तस्यास्तित्वा मताभिप्रेता ।

न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रस्वरू-
 पाया नीलपीतादिबाह्यालम्बन-
 वैचित्र्यमन्तरेण स्वभावभेदेनैव
 वैचित्र्यं संभवति । स्फटिकस्यैव
 नीलाद्युपाध्याश्रयैर्विना वैचित्र्यं
 न घटत इत्यभिप्रायः ।

हमारा कथन है कि] प्रज्ञप्ति यानी
 शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो
 सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है ।
 अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो
 शब्द, स्पर्श एवं नील, पीत और
 लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता-
 रूप द्वैतका नाश हो जायगा
 अर्थात् उसके नाश यानी अभावका
 प्रसंग उपस्थित हो जायगा और
 प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय-
 वैचित्र्यरूप द्वैतका अभाव है नहीं ।
 अतः प्रत्ययवैचित्र्यरूप द्वैतकी
 उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके
 शास्त्र; उन परकीय तन्त्रोंका
 अर्थात् परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो
 प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ
 हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार
 किया गया है ।

केवल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ति-
 की यह विचित्रता नील-पीतादि
 बाह्य आलम्बनोंकी विचित्रताके
 सिवा केवल स्वभावभेदसे ही होनी
 सम्भव नहीं है । तात्पर्य यह है
 कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि
 उपाधियोंको आश्रय किये बिना,
 यह विचित्रता नहीं हो सकती ।

इतश्च परतन्त्राश्रयस्य दाहार्थ-
स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तितः ।
संक्लेशं संक्लेशो दुःखमिदं यथेः ।
उपलभ्यते ह्यग्निदाहादिनिमित्तं
दुःखम् । यद्यग्न्यादिवाह्यं दाहादि-
निमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्तं न
स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप-
लभ्यते । उपलभ्यते तु । अन्तरेण
मन्यामहेति वाह्योऽर्थे इति ।
न हि विज्ञानमात्रे संक्लेशो युक्तः,
अन्यत्रादर्शनादित्यभिप्रायः ॥२४॥

इतके सिवा इत्तलिये भी दूसरों-
के शाब्दिक आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त
वाह्य पदार्थोंका अस्तित्व स्वीकार
क्रिया गया है कि अग्निदाहादि-
के कारणमे होनेवाला संक्लेश यानी
दुःख उपलब्ध होता है । संक्लेशका
अर्थ संक्लेशन अर्थात् दुःख है । यदि
विज्ञानमे अतिरिक्त दाहादिका
निमित्तभूत अग्नि आदि कोई वाह्य
पदार्थ न होना तो दाहादिजनित
दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये
था । किन्तु उपलब्ध होता ही है;
इन्मे हम मानते हैं कि वाह्य पदार्थ
अवश्य है । अभिप्राय यह है कि
केवल विज्ञानमात्रमें क्लेश होना
सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र
देखा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥



विज्ञानवादिकर्तृक वाह्यार्थवादनिषेध

अत्रोच्यते—

इस विषयमें हमारा कथन है कि

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात् ।

निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात् ॥ २५ ॥

पृथक् युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार करते
हो । परन्तु निमित्तदृष्टिमे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २५ ॥

वाढमेवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं
द्वयसंक्लेशोपलब्धि युक्तिदर्शना-

ठीक है, इस प्रकार दुःखमय
द्वैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार

दिप्यते त्वया । स्थिरीभव
तावचं युक्तिदर्शनं वस्तुनस्तथा-
त्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र ।

ब्रूहि किं तत इति ।

उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ-
त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेर-
निमित्तत्वमनालम्बनत्वं वैचित्र्या-
हेतुत्वमिष्यतेऽस्माभिः । कथम् ?
भूतदर्शनात्परमार्थदर्शनादित्ये-
तत् । न हि घटो यथाभूतमृद्रूप-
दर्शनं सति तद्व्यतिरेकेणास्ति,
यथाश्चान्महिषः पटो वा तन्तु-
व्यतिरेकेण, तन्तवश्चांशुव्यति-
रेकेणेत्येवमुत्तरोत्तरभूतदर्शन आ-
शब्दप्रत्ययनिरोधान्नैव निमित्त-
मुपलभामह इत्यर्थः ।

अथ शाभूतदर्शनाद्राह्वार्य-
स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा-
दाविव सर्पादिरित्यर्थः । श्रान्ति-

तुम प्रज्ञप्तिका सन्निपत्य स्वीकार
करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्शनं वस्तुकी
यथार्थताके ज्ञानमें कारण है'-अपने
इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ ।

वालार्थवादी- दाहिजे, उससे क्या
आपत्ति होती है ?

विज्ञानवादी-हमारा कथन है
कि प्रज्ञप्तिके आश्रयरूपसे स्वीकार
किये हुए घटादि विषयका हम
अधिपत्य-प्रतीतिका अनाश्रयत्व
अर्थात् विचित्रताका अहेतुत्व मानते
हैं । कैसे मानते हैं ? भूतदृष्टिसे
अर्थात् परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार
अश्वसे महिष पृथक् है, उस प्रकार
मृत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान
होनेपर, घट उससे पृथक् सिद्ध नहीं
होता । इसी प्रकार तन्तुसे पृथक्
पट और अंशुसे पृथक् तन्तु भी
सिद्ध नहीं होते । तात्पर्य यह है
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ
तत्त्वको देखते-देखते शब्द प्रतीतिका
निरोध हो जानेपर हम कोई भी
विषय नहीं देखते ।

अथवा [यों समझो कि] जिस
प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित सर्पादि
वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं
उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण
हम बाह्यार्थको प्रतीतिका आलम्बन

दर्शनविषयत्वाच्च निमित्तस्या-
 निमित्तत्वं भवेत् । तदभावे-
 ऽभावात् । न हि सुपुप्तसमाहित-
 मुक्तानां भ्रान्तिदर्शनाभाव
 आत्मव्यतिरिक्तो बाह्योऽर्थ
 उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगतं
 वस्त्वनुन्मत्तैरपि तथाभूतं गम्यते ।
 एतेन द्वयदर्शनं संक्लेशोपलब्धिश्च
 प्रत्युक्ता ॥२५॥

नहीं मानते । भ्रान्तिदृष्टिके विषय
 होनेके कारण इन निमित्तोंका अ-
 निमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव
 होनेपर इनकी भी उपलब्धि नहीं
 होती । सोये हुए, समाधिस्थ और
 मुक्त पुरुषोंको, उनकी भ्रान्तिदृष्टिका
 अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त
 किसी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं
 होती । उन्मत्त पुरुषको दिखायी
 देनेवाली वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको
 भी यथार्थ नहीं जान पड़ती । इस
 कथनसे द्वैतदर्शन और क्लेशकी
 उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण
 किया गया है ॥ २५ ॥

यस्मान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतः

क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं,
 इसलिये—

चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च ।

अभूतो हि यतश्चार्यो नार्थाभासस्ततः पृथक् ॥ २६ ॥

चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी
 अर्थाभासका ही ग्रहण करता है । क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये
 पदार्थाभास भी उस चित्तसे पृथक् नहीं है ॥ २६ ॥

चित्तं न स्पृशत्यर्थं बाह्या-

लम्बनविषयम्, नाप्यर्थाभासं
 चित्तत्वात्स्वप्नचित्तवत् । अभूतो

चित्त, चित्त होनेके कारण ही
 स्वप्नचित्तके समान, बाह्य आलम्बन-
 के विषयभूत किसी पदार्थको स्पर्श
 नहीं करता और न अर्थाभासको ही

हि जागरितेऽपि स्वमार्थवदेव
बाह्यः शब्दाद्यर्थो यत उक्तहेतु-
त्वाच्च । नाप्यर्थाभासश्चि-
त्तात्पृथक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थ-
वदवभासते यथा स्वप्ने ॥ २६ ॥

ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त
हेतुसे ही स्वप्नगत पदार्थोंके समान
जागरित अवस्थामें भी शब्दादि बाह्य
पदार्थ हैं नहीं, और न चित्तसे
पृथक् अर्थाभास ही है । घटादि
पदार्थोंके समान चित्त ही भासता
है, जैसा कि वह स्वप्नमें भासा
करता है ॥ २६ ॥



ननु विपर्यासस्तर्ह्यसति
घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य ।
तथा च सत्यविपर्यासः क्वचि-
द्वक्तव्य इति । अत्रोच्यते—

घटादिके न होनेपर भी चित्तको
घटादिकी प्रतीति होना—यह तो
विपरीत ज्ञान है । ऐसी अवस्थामें
अविपरीत (सम्यक्) ज्ञान कब
होगा ? यह बतलाना चाहिये ।
इसपर कहते हैं—

निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु ।

अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७ ॥

[भूत, भविष्यत् और वर्तमान] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी
किसी विषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत
ज्ञान कैसे हो सकता है ? ॥ २७ ॥

निमित्तं विषयमतीतानागत-
वर्तमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा
चित्तं न स्पृशेदेव हि । यदि हि
क्वचित् संस्पृशेत् सोऽविपर्यासः
परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षया-

अतीत, अनागत और वर्तमान—
इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त कभी
निमित्त यानी विषयको स्पर्श नहीं
करता । यदि वह कभी उसे स्पर्श
करता तो 'वह अविपर्यास अर्थात्
परमार्थ है' ऐसा माना जाता । अतः

सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः
स्यान्न तु तदस्ति कदाचिदपि
चित्तस्यार्थसंस्पर्शनम् । तस्माद्-
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य
चित्तस्य भविष्यति; न कथंचिद्वि-
पर्यासोऽस्तीत्यभिप्रायः । अथमेव
हि स्वभावश्चित्तस्य यदुतासति
निमित्ते घटादौ तद्वदवभासनम् २७

उसकी अपेक्षासे ही घटकेन होनेपर
भी घटका प्रतीत होना विपर्यास
कहलाता । किन्तु चित्तका पदार्थके
साथ कभी स्पर्श है ही नहीं । अतः
बिना निमित्तके ही उस चित्तको
विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ?
तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रकार
विपरीत ज्ञान है ही नहीं । चित्तका
यही स्वभाव है कि घटादि निमित्तके
न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती
रहे ॥ २७ ॥

विज्ञानवादका खण्डन

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमित्याद्ये-
तदन्तं विज्ञानवादिनो ब्रौद्धस्य
वचनं बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेध-
परमाचार्येणानुमोदितम् । तदेव
हेतुं कृत्वा तत्पक्षप्रतिषेधाय
तदिदमुच्यते—

“प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्” इस
(पञ्चीसर्वे) श्लोकसे लेकर यहाँतक
आचार्यने विज्ञानवादी ब्रौद्धके,
बाह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करने-
वाले वचनका अनुमोदन किया । अब
उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका
प्रतिषेध करनेके लिये इस प्रकार
कहा जाता है—

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते ।

तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम् ॥ २८ ॥

इसलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही
उत्पन्न होता है । जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाशमें
[पक्षी आदिके] चरण (चरण-चिह्न) देखते हैं ॥ २८ ॥

यस्मादसत्येव घटादौ घटाद्या-
भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना-

क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके
न होनेपर भी चित्तको घटादिकी
प्रतीति होनी स्वीकार की है और

भ्युपगता तदनुमोदि-
तम् अस्माभिरपि भूतदर्शनात्,
तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना-
वभासतासत्येव जन्मनि युक्ता
भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्,
यथा चित्तदृश्यं न जायते ।

अतस्तस्य चित्तस्य ये जातिं
पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि-
कत्वदुःखित्वशून्यत्वानात्मत्वादि-
च, तेनैव चित्तेन चित्तस्वरूपं
द्रष्टुमशक्यं पश्यन्तः खे वै
पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम् ।
अत इतरेभ्योऽपि द्वैतिभ्यो-
ऽत्यन्तसाहसिका इत्यर्थः । येऽपि
शून्यवादिनः पश्यन्त एव
सर्वशून्यतां स्वदर्शनस्यापि
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि
साहसिकतराः खं मुष्टिनापि
जिघृक्षन्ति ॥ २८ ॥

यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका
हमने भी अनुमोदन किया है,
इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति-
के अभावमें ही होनी सम्भव है ।
अतः जिस प्रकार चित्तके दृश्यका
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त-
की भी उत्पत्ति नहीं होती ।

इसलिये जो विज्ञानवादी उस
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके
क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं
अनात्मत्व आदि देखते हैं—उस-
चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा
असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको
देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशमें
पक्षी आदिके चरण देखते हैं । अतः
तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैत-
वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी
हैं । और जो शून्यवादी सबकी
शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी
भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे
तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं—वे
आकाशको मुट्टीसे ही पकड़ना
चाहते हैं ॥ २८ ॥

उपक्रमका उपसंहार


उक्तहेतुभिरजमेकं ब्रह्मेति | पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ
सिद्धं यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं | कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है । अब,
तत्फलोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः— | पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके
श्लोक है— | फलका उपसंहार करनेके लिये यह

अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः ।

प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २६ ॥

क्योंकि अजन्मा [चित्त] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति ही उसका स्वभाव है; और स्वभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं होगी ॥ २९ ॥

अजातं यच्चित्तं ब्रह्मैव जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है
इति वादिभिः परिकल्प्यते | वही उत्पन्न होता है—ऐसी वादियों-
द्वारा कल्पना की जाती है; क्योंकि]
तदजातं जायते यस्मादजातिः | उस अजातका ही जन्म होता है
प्रकृतिस्तस्य । ततस्तस्मादजात- | इसलिये अजाति उसका स्वभाव है ।
रूपायाः प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म | तब, इसीलिये उस अजातरूप स्वभाव-
का जन्मरूप विपरीतभाव किसी
न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९ ॥ | प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥



अयं चापर आत्मनः संसार- | आत्माके संसार और मोक्ष-
मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां | दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व
दोष उच्यते— | स्वीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका
यह एक दूसरा दोष बतलाया
जाता है—

अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति ।

अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥

अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३० ॥

अनादेरतीतकोटिरहितस्य

संसारस्यान्तवत्त्वं समाप्तिर्न
सेत्स्यति युक्तितः सिद्धिं नोप-
यास्यति । न ह्यनादिः सन्नन्त-
वान्कश्चित्पदार्थो दृष्टो लोके ।
बीजाङ्कुरसंबन्धनैरन्तर्याविच्छेदो
दृष्ट इति चेत्, न; एकवस्त्व-
भावेनापोदितत्वात् ।

तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्ति-
कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न
भविष्यति, घटादिष्वदर्शनात् ।
घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष
इति चेत्, तथा च मोक्षस्य
परमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहानिः ।

अनादि-अतीतकोटिसे रहित
संसारका अन्तवत्त्व अर्थात् समाप्त होना
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा । लोकमें कोई
भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्
होता नहीं देखा गया है । यदि कहो कि
बीजाङ्कुरसम्बन्धकी निरन्तरताका
विच्छेद होता देखा गया है ? तो
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि
बीजाङ्कुरसन्तति कोई एक पदार्थ न
होनेके कारण उसके अनादित्वका
निराकरण तो पहले कर दिया
गया है ।

इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिके
समय होनेवाले सादि मोक्षकी
अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि
घटादि [जन्य पदार्थों] में ऐसा
देखा नहीं गया । यदि कहो कि
घटादिनाशके समान अवस्तरूप
होनेसे [मोक्षमें] यह दोष नहीं
आ सकता तो इससे मोक्षके
पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी
हानि होगी । इसके सिवा [यदि
मोक्षको असद्रूप ही माना जाय तो

असत्त्वादेव शशविषाणस्येवा-
दिमत्त्वाभावश्च ॥ ३० ॥

भी] शशशृङ्गके समान असत्
होनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व-
का अभाव ही है ॥ ३० ॥

प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा [अर्थात् असद्रूप] ही है । ये पदार्थसमूह असत्के समान होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ३२ ॥

उन (जाग्रत-पदार्थों) की सप्रयोजनता स्वप्नावस्थामें असिद्ध हो जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या माने गये हैं ॥ ३२ ॥

वैतथ्ये कृतव्याख्यानाँ
श्लोकाविह संसारमोक्षाभाव-

प्रसङ्गेन पठितौ ॥ ३१-३२ ॥

वैतथ्यप्रकरणमें इन दोनों श्लोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ संसार और मोक्षके अभावके प्रसङ्गमें उन्हें फिर पढ़ दिया है ॥ ३१-३२ ॥

सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् ।

संवृतेऽस्मिन्प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः ॥ ३३ ॥

जब कि शरीरक भीतर देखे जानेके कारण स्वप्नावस्थामें सभी पदार्थ मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें (निरवकाश ब्रह्ममें) ही भूतोंका दर्शन कैसे हो सकता है ? ॥ ३३ ॥

निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते । इन श्लोकोंद्वारा “निमित्तस्यानि-
मित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्”
भूतदर्शनादिन्ययमर्थः प्रपञ्च्यते । (४ । २५) इस श्लोकके ही
अर्थका विस्तार किया गया
एतैः श्लोकैः ॥ ३३ ॥ है ॥ ३३ ॥

स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण

न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतौ ।

प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥

देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता है [स्वप्नावस्थामें] उसका नियम न होनेके कारण स्वप्नके पदार्थोंको उनके पास जाकर देखना तो सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस (स्वप्नदृष्ट) देशमें नहीं रहता ॥ ३४ ॥

जागरिते गत्यागमनकालो जागृतिमें जो आने-जानेके समय
नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या- और प्रमाणसिद्ध देश नियत हैं
नियमान्नियमस्याभावात्स्वप्ने न उनका नियम न होनेके कारण
स्वप्नावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं
देशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ होता—यह इसका अभिप्राय है ॥ ३४ ॥

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते ।

गृहीतं चापि यत्किञ्चित्प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३५ ॥

[स्वप्नस्थामे] मित्रादिके साय मन्त्रणा कर [वह स्वप्नदर्शी पुरुष] जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [स्वप्नावस्थामे] ग्रहण किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ ॥

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य तदेव
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते ।
गृहीतं च यत्किञ्चिद्भिरण्यादि
न प्राप्नोति । अतश्च न देशान्तरं
गच्छति स्वप्ने ॥ ३५ ॥

[स्वप्ने] मित्रादिके साय
मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर
उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और
[उस समय] उसने जो कुछ
स्वप्नादि ग्रहण किया होता है उसे
भी प्राप्त नहीं करता । इसलिये भी
स्वप्नस्थामे वह किसी देशान्तरको
नहीं जाता ॥ ३५ ॥



स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् ।

यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम् ॥ ३६ ॥

स्वप्ने जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे मित्र एक दूसरा शरीर [शय्यापर पड़ा हुआ] देखा जाता है । जैसा वह शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदृश्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥

स्वप्ने चाटन्दृश्यते यः कायः
सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्य स्थाप-
देशस्य पृथक्स्थान्तरस्य
दर्शनात् । यथा स्वप्नदृश्यः
कायोऽसंस्तथा सर्वं चित्तदृश्यम-
वस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदृश्य-

स्वप्ने घूमता हुआ जो शरीर
देखा जाता है वह अवस्तु है,
क्योंकि उस स्वप्नप्रदेशस्य शरीरसे
मित्र एक और शरीर [शय्यापर
पड़ा हुआ] देखा जाता है । जिस
प्रकार स्वप्ने दिखायी देनेवाला
शरीर अस्तत् है उसी प्रकार जागरित
अवस्थामें सारा चित्तदृश्य, केवल
चित्तका ही दृश्य होनेके कारण,

न्वादित्यर्थः । स्वप्नसमत्वाद्- असत् है—यह इसका तात्पर्य है ।
 प्रकृत अर्थ यह हुआ कि स्वप्नके समान
 सज्जागरितमपीति प्रकरणार्थः ३६ होनेके कारण जाग्रत्-अवस्था भी
 असत् ही है ॥ ३६ ॥

स्वप्न और जाग्रत्का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है

इतथासन्त्वं जाग्रद्वस्तुनः— जाग्रत्पदार्थोंकी असत्ता इसलिये
 भी है कि—

ग्रहणाज्जागरितवत्तद्वेतुः स्वप्न इष्यते ।

तद्वेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ॥ ३७ ॥

जाग्रत्के समान ग्रहण किया जानेके कारण स्वप्न उसका कार्य
 माना जाता है । किन्तु जाग्रत्का कार्य होनेके कारण स्वप्नद्रष्टाके
 लिये ही जाग्रत्-अवस्था सत्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥

जागरितवज्जागरितस्य इव जागरितके समान ही ग्राह्य-
 ग्रहणाद्ग्राह्यग्राहकरूपेण स्वप्नस्य ग्राहकरूपसे स्वप्नका भी ग्रहण होनेसे
 तज्जागरितं हेतुरस्य स्वप्नस्य स इस स्वभावस्थाका जाग्रत् कारण है,
 स्वप्नस्तद्वेतुर्जागरितकार्यमिष्यते । इसलिये वह स्वभावस्था तद्वेतुक
 तद्वेतुत्वाज्जागरितकार्यत्वात्तस्यैव यानी जाग्रत्का कार्य मानी जाती है ।
 स्वप्नद्रष्टा एव सज्जागरितं न तद्वेतुक अर्थात् जाग्रत्का कार्य
 त्वन्येषाम् । यथा स्वप्न इत्य- होनेके कारण उस स्वप्नद्रष्टाके ही
 भिप्रायः । लिये जाग्रत्-अवस्था सत्य है, औरोंके
 लिये नहीं; जैसा कि स्वप्न—यह
 इसका तात्पर्य है ।

यथा स्वप्नः स्वप्नदृश एव चित्त प्रकार लक्ष लक्षप्रश्नाको
 सन्साधारणविद्यमानवस्तुवदव- ही सत् अर्थात् जागरण विद्यमान
 भासते तथा तत्कारणत्वा- वस्तुके समान भासता है उसी
 त्साधारणविद्यमानवस्तुवदव- प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत्-
 भासमानं न तु साधारणं समान प्रतीति होती है। किन्तु
 विद्यमानवस्तु स्वप्नवदेवैव- वस्तुनः स्वप्नके समान ही वह
 भिन्नावः ॥ ३७ ॥ जागरण विद्यमान वस्तु है नहीं—
 वह इन्द्रा अभिप्राय है ॥ ३७ ॥



तनु स्वप्नकारणत्वेऽपि चक्र-चक्रके कारण होनेपर भी
 जागरितवस्तुनो न स्वप्नवद- जाग्रदवस्थाके स्वप्नके समान
 वस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो हि अवस्तुत्र नहीं है, क्योंकि स्वप्न तो
 स्वप्नो जागरितं तु स्थिरं अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाग्रत्-
 लक्ष्यते । अवस्था स्थिर देखी जाती है ।

सत्यमेवमविवेकितां स्यात् । समाधान-ठीक है, अद्विवेकियों-
 विवेकितां तु न कस्यचिद्वस्तुन के लिये ऐसी बात हो सकती है;
 उत्पादः प्रसिद्धोऽज- किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्तु-
 अतः— की उन्नि सिद्ध ही नहीं है ।

उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादर्जं सर्वमुदाहृतम् ।

न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥ ३८ ॥

उपनिषदे प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अब ही कहा जाता
 है। इसके सिवा सब वस्तुने अनन्तकी उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी
 नहीं सकती ॥ ३८ ॥

अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मैव
सर्वमित्यजं सर्वमुदाहृतं वेदान्तेषु
“सवाद्याभ्यन्तरो ह्यजः”
(मु० उ० २।१।२) इति ।
यदपि मन्यसे जागरितात्सतो-
ऽसत्स्वप्नो जायत इति तदसत् ।
न भूताद्विद्यमानाद्भूतस्यासतः
सम्भवोऽस्ति लोके । न ह्यसतः
शशविषाणादेः सम्भवो दृष्टः
कथञ्चिदपि ॥ ३८ ॥

उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब
कुछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तोंमें
“सवाद्याभ्यन्तरो ह्यजः” इत्यादि
रूपसे सबको अज ही कहा है ।
और तुम जो मानते हो कि सत्
जाग्रतसे असत् स्वप्नकी उत्पत्ति
होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि
लोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत्-
का जन्म नहीं हुआ करता । शश-
शृङ्गादि असत्पदार्थोंका जन्म किसी
भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥



ननूक्तं त्वयैव स्वप्नो जागरित-
कार्यमिति तत्कथमुत्पादोऽप्रसिद्ध
इत्युच्यते ?

शृणु तत्र यथा कार्यकारण-
भावोऽस्माभिरभिप्रेत इति—

असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः ।

असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३९ ॥

[जीव] जाग्रत-अवस्थामें असत्पदार्थोंको देखकर उन्हींके संस्कारसे
युक्त हो उन्हें स्वप्नमें देखता है, किन्तु स्वप्नावस्थामें भी असत्पदार्थोंको ही
देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥

असद्विद्यमानं रज्जुसर्प-
वद्विकल्पितं वस्तु जागरिते दृष्ट्वा

जागरित अवस्थामें असत् अर्थात्
रज्जुमें सर्पके समान कल्पना किये
हुए अविद्यमान पदार्थोंको देखकर

तद्भावभावितस्तन्मयः स्वप्नेऽपि । उनके भावसे भावित हो स्वप्नमें
जागरितवद्ग्राह्यग्राहकरूपेण । भी तन्मयभावसे जागरितके
विकल्पयन्पश्यति । तथासत्स्वप्ने- । समान ग्राह्य-ग्राहकरूपसे विकल्प
ऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्य- । करता हुआ उन्हें देखता है । तथा
त्यविकल्पयन् । च शब्दात्तथा । स्वप्नमें भी असत्पदार्थोंको देखकर
जागरितेऽपि दृष्ट्वा स्वप्ने न । जागनेपर विकल्प न करनेके कारण
पश्यति कदाचिदित्यर्थः । तस्मा- । उन्हें नहीं देखता । 'च' शब्दसे
जागरितं स्वप्नेहेतुरुच्यते न तु । यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार
परमार्थमदिति कृत्वा ॥ ३९ ॥ कभी जाग्रतमें देखकर भी उन
पदार्थोंको स्वप्नमें नहीं देखता ।
इसीलिये यह कहा जाता है कि
जाग्रत-अवस्था स्वप्नका कारण है,
उसे परमार्थसत् मानकर ऐसा नहीं
कहा जाता ॥ ३९ ॥



परमार्थतस्तु न कस्यचित्केन- । परमार्थतः तो किसीका किसी
चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव- । भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना
उपपद्यते । कथम् ?— सम्भव नहीं है । किस प्रकार ?
[तो बतलाते हैं—]


नास्त्यसद्हेतुकमसत्सदसद्हेतुकं तथा ।

सच्च सद्हेतुकं नास्ति सद्हेतुकमसत्कृतः ॥ ४० ॥

न तो असत्पदार्थ ही असत् कारणवाला है और न सत् पदार्थ ही
असत् कारणवाला है । इसी प्रकार सत् पदार्थ भी सत् कारणवाला नहीं
है; किन्तु असत् पदार्थ ही सत् कारणवाला कैसे हो सकता है ? ॥४०॥

नास्त्यसद्भेतुकमसञ्छ-
विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत्
एव खकुसुमादेस्तदसद्भेतुकमसन्न
विद्यते । तथा सदपि घटादि-
वस्तु असद्भेतुकं शशविषाणादि-
कार्यं नास्ति । तथा सच्च
विद्यमानं घटादि विद्यमान-
घटादिवस्त्वन्तरकार्यं नास्ति ।
सत्कार्यमसत्कुत एव सम्भवति ?
न चान्यः कार्यकारणभावः
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम् ?
अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य-
कारणभावः कस्यचिदित्य-
भिप्रायः ॥ ४० ॥

असत् कारणवाला असत्पदार्थ
भी नहीं है—जिस आकाशपुष्प
आदि असत्पदार्थका कोई शश-
शृङ्गादि असत् कारण हो ऐसा कोई
असद्भेतुक असत् पदार्थ भी विद्यमान
नहीं है । तथा घटादि सद्वस्तु भी
असद्भेतुक अर्थात् शशविषाणादि
[असत्पदार्थ] का कार्य नहीं है । इसी
प्रकार सत् यानी विद्यमान घट
आदि किसी अन्य सद्वस्तुका भी कार्य
नहीं है । फिर सत्का कार्य असत् ही
कैसे हो सकता है ? इनके सिवा किसी
अन्य कार्य-कारण भावकी न तो
सम्भावना है और न कल्पना
ही की जा सकती है । अतः
तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके लिये
तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण-
भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० ॥



पुनरपि जाग्रत्स्वप्नयोरसतोरपि
कार्यकारणभावाशङ्कामपनयन्
आह—

जाग्रत् और स्वप्न असत् होनेपर
भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध-
में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति
करते हुए फिर भी कहते हैं—


विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्स्पृशेत् ।

तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यति ॥ ४१ ॥

जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थोंको
यथार्थवत् ग्रहण करता है उसी प्रकार स्वप्नमें भी भ्रान्तिवश [स्वप्नकालीन]
पदार्थोंको वहीं (उसी अवस्थामें) देखता है ॥ ४१ ॥

त्रिपर्यासादविवेकतो यथा
जाग्रज्जागरितेऽचिन्त्यान्भावान-
शक्यचिन्तनीयान् रज्जुसर्पादीन्
भूतवत्परमार्थवत्स्पृशन्निय वि-
कल्पयेदित्यर्थः कश्चिद्यथा, तथा
स्वप्ने त्रिपर्यासाद्वस्त्यादीन्धर्मान्
पश्यन्निय विकल्पयति; तत्रैव
पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य-
मानानित्यर्थः ॥ ४१ ॥

जिस प्रकार कोई पुरुष त्रिपर्यास
अर्थात् अविवेकके कारण जाग्रत्-
अवस्थामें रज्जु-सर्पादि अचिन्तनीय
अर्थात् जिनका चिन्तन नहीं किया
जा सकता ऐसे पदार्थोंको भूत—
परमार्थवत् स्पर्श करते हुए-से
कल्पना करता है । उसी प्रकार
स्वप्नमें त्रिपर्यासके कारण ही
वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा
कल्पना करता है; अर्थात् उन्हें वह
उसी अवस्थामें देखता है, न कि
जाग्रत्से उत्पन्न होते हुए ॥४१॥



जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये हैं ?

उपलम्भात्समाचारादस्तित्ववस्तुत्वत्रादिनाम् ।

जातिस्तु देशिता बुद्धैरजातेस्त्रसतां सदा ॥ ४२ ॥


[वस्तुओंकी] उपलब्धि और [वर्णाश्रमादि] आचारके कारण
जो पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वानोंने
सर्वदा उन्हींके लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥

यापि बुद्धैरद्वैतवादिभिर्जा-
तिदेशितोपदिष्टा, उपलम्भनम्
उपलम्भस्तस्मादुपलब्धेरित्यर्थः;
समाचाराद्वर्णाश्रमादिधर्मसमा-
चरणान्, ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति-
वस्तुत्वत्रादिनाम् अस्ति वस्तु-
भाव इत्येवं वदनशीलानां

तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों-
ने जो जाति (जगत्की उत्पत्ति) का
उपदेश दिया है [उसका यह
कारण है—] उपलम्भनका नाम
उपलम्भ है उस उपलम्भ अर्थात्
उपलब्धिसे और समाचार-वर्णा-
श्रमादि धर्मोंके सम्यक् आचरणसे—
इन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका
अस्तित्व माननेवाले अर्थात् [द्वैत
पदार्थोंका] वस्तुत्व है' ऐसा कहने-

दृढाग्रहवतां श्रद्धधानानां मन्द-
 विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा
 देशिता जातिः । तां गृह्णन्तु
 तावत् । वेदान्ताभ्यासिनां तु
 स्वयमेवाजाद्वयात्मविषयो विवेको
 भविष्यतीति न तु परमार्थ-
 बुद्ध्या । ते हि श्रोत्रियाः स्थूल-
 बुद्धित्वाद्जातेः अजातिवस्तुनः
 सदा त्रस्यन्त्यात्मनाशंसन्यमाना
 अविवेकिन इत्यर्थः । उपायः
 सोऽवतारायेत्युक्तम् ॥ ४२ ॥

वाले दृढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द-
 विवेकशील पुरुषोंको [ब्रह्मात्मैक्य-
 बोधकी प्राप्तिरूप] अर्थके उपाय-
 रूपसे उस जातिका उपदेश दिया
 है । [उसमें उनका यही तात्पर्य है
 कि] 'अभी वे भले ही उसे स्वीकार
 कर लें, परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते-
 करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा और
 अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो
 जायगा' उन्होंने परमार्थबुद्धिसे
 उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि
 वे केवल श्रुति-परायण अविवेकी
 लोग स्थूलबुद्धि होनेके कारण
 अपना नाश मानते हुए अजाति
 अर्थात् जन्मरहित वस्तुसे सदा भय
 मानते हैं—यह इसका तात्पर्य है ।
 यही बात हमने "उपायः सोऽवता-
 राय" इत्यादि श्लोकमें (अद्वैतप्रकरण
 श्लो० १५ में) कही है ॥४२॥



सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति

अजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये ।


जातिदोषा न सेत्स्यन्तिदोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥

द्वैतकी उपलब्धिके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हैं
 अजातिसे भय माननेवाले उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं

हो सकते, [क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमें प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं] । [और यदि होगा भी तो] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥ ४३ ॥

ये चैवमुपलम्भात्समाचाराच्चा-
जातेरजातिवस्तुनह्नसन्तोऽस्ति-
वस्त्वित्यद्वयादात्मनो वियन्ति
विरुद्धं यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्त
इत्यर्थः । तेषामजातेस्त्रसतां
श्रद्धानानां सन्मार्गावलम्बिनां
जातिदोषा जात्युपलम्भकृता
दोषा न संत्स्यन्ति सिद्धिं
नोपयास्यन्ति, विवेकमार्गप्रवृत्त-
त्वात् । यद्यपि कश्चिद्दोषः
स्यात्सोऽप्यल्प एव भविष्यति ।
सम्यग्दर्शनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः
॥ ४३ ॥

जो लोग इस प्रकार [पदार्थोंकी]
उपलब्धि और [वर्णाश्रमादिके]
आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुसे
डरनेवाले हैं और 'द्वैत पदार्थ है'
ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध
चलते हैं, अर्थात् द्वैत स्वीकार करते
हैं, उन अजातिसे भय माननेवाले
श्रद्धालु और सन्मार्गावलम्बी पुरुषों-
को जातिदोष-जातिकी उपलब्धिके
कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहीं
होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें प्रवृत्त
हैं । और यदि कुछ दोष होगा भी
तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात्
केवल सम्यग्दर्शनकी अप्राप्तिके
कारण होनेवाला दोष ही होगा । ४३ ।



उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता

ननुपलम्भसमाचारयोः प्रमाण-
त्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति, न;
उपलम्भसमाचारयोर्व्यभिचारात् ।
कथं व्यभिचार इत्युच्यते—

यदि कहो कि उपलब्धि और
आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये
द्वैतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं
है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण-
का तो व्यभिचार भी होता है ।
किस प्रकार व्यभिचार होता है ?
सो बतलाया जाता है—

उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते ।

उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥

उपलब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको ['हाथी है'—इस प्रकार] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और आचरणके कारण 'वस्तु है' ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥

उपलभ्यते हि मायाहस्ती
हस्तीव हस्तिनमिवात्र समा-
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति-
सम्बन्धिभिर्धर्मैर्हस्तीति चोच्यते-
ऽसन्नपि यथा तथैवोपलम्भात्समा-
चाराद्द्वैतं भेदरूपमस्ति वस्त्व-
त्युच्यते । तस्मान्नोपलम्भसमा-
चारौ द्वैतवस्तुसद्भावे हेतू भवत
इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥

हाथीके समान ही मायाजनित हाथी भी देखनेमें आता है । हाथीके समान ही यहाँ [मायाहस्तीके साथ] भी बन्धन आरोहण आदि हस्ति-सम्बन्धी धर्मोंद्वारा व्यवहार करते हैं । जिस प्रकार असत् होनेपर भी वह 'हाथी है' ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरणके कारण भेदरूप द्वैत-वस्तु है—ऐसा कहा जाता है । अतः अभिप्राय यह है कि उपलब्धि और आचरण द्वैत वस्तुके सद्भावमें कारण नहीं हैं ॥ ४४ ॥



परमार्थ वस्तु क्या है ?

किं पुनः परमार्थसद्वस्तु
यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्ध्य
इत्याह—

अच्छ तो जिसके आश्रयसे जाति आदि असद्बुद्धियाँ होती हैं वह परमार्थ वस्तु क्या है ? इसपर कहते हैं—


जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च ।

अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥ ४५ ॥

जो कुछ जातिके समान भासनेवाला, चलके समान भासनेवाला और वस्तुके समान भासनेवाला है वह अज, अचल और अवस्तुरूप शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥

अजाति सजातिवदवभासत इति जात्याभासम् । तद्यथा देवदत्तो जायत इति । चलाभासं चलमिवाभासत इति । यथा स एव देवदत्तो गच्छतीति । वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धर्मि तदवभासत इति वस्त्वाभासम् । यथा स एव देवदत्तो गौरो दीर्घ इति । जायते देवदत्तः स्पन्दते दीर्घो गौर इत्यवमवभासते । परमार्थतस्त्वजसचलमवस्तुत्वमद्रव्यं च । किं तदेवंप्रकारम् ? विज्ञानं विज्ञानिः । जात्यादिरहितन्वाच्छान्तम् । अत एवाद्वयं च तदिन्द्रियः ॥ ४५ ॥

जो अजाति होकर भी जातिवत् प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; उसका उदाहरण, जैसे—देवदत्त उज्ज्वल होता है । जो चलके समान प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं; जैसे—वही देवदत्त जाता है । 'वस्त्वाभासत'—वस्तु धर्मी द्रव्यको कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत हो वह वस्त्वाभास है । जैसे—वही देवदत्त गौर और दीर्घ है । देवदत्त उज्ज्वल होता है, चलता है तथा वह गौर और दीर्घ है—इस प्रकार भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही है । ऐसा वह कौन है ? [इसपर कहते हैं—] विज्ञान अर्थात् विज्ञप्ति तथा वह जाति आदिसे रहित होनेके कारण शान्त है और इसीसे अद्वय भी है—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४५ ॥



एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः ।

एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६ ॥

इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने गये हैं । ऐसा जाननेवाले लोग ही भ्रममें नहीं पड़ते ॥ ४६ ॥

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो-
ऽजाः स्मृता ब्रह्मविद्भिः । धर्मा इति बहुवचनं देहभेदानुविधायित्वाद्द्वयस्यैवोपचारतः ।

एवमेव यथोक्तं विज्ञानं जात्यादिरहितमद्वयमात्मतत्त्वं विजानन्तस्त्यक्तवाह्यैषणाः पुनर्न पतन्त्यविधाध्वान्तसागरे विपर्यये । “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” (ई० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ॥४६॥

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे ही चित्तका जन्म नहीं होता, और इसीसे ब्रह्मचेत्ताओंने धर्म यानी आत्माओंको अजन्मा माना है । भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन करनेवाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके लिये ही उपचारसे ‘धर्माः’ इस बहुवचनका प्रयोग किया गया है ।

इसी प्रकार—उपर्युक्त विज्ञानको अर्थात् जाति आदिरहित अद्वितीय आत्मतत्त्वको जाननेवाले बाह्य एषणाओंसे मुक्त हुए लोग फिर विपर्यय अर्थात् अविद्यारूप अन्धकारके समुद्रमें नहीं गिरते । “उस अवस्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?” इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही बात प्रमाणित होती है ॥४६॥

विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका दृष्टान्त

यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्च-
यिष्यन्नाह—


पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका ही विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये कहते हैं—

ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा ।

ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७ ॥

जिस प्रकार अलत (उल्का) का घूमना ही सीधे-ठेंडे आदि रूपोंमें मानित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्वरूप ही ग्रहण और ग्राहक अर्थात् रूपोंमें मानत रहा है ॥ ४७ ॥

यथा हि लोक ऋजुवक्रादि- जिस प्रकार लोकमें सीधे-ठेंडे आदि रूपोंमें मानना होनेवाला अलतका स्पन्द अर्थात् उल्का (जलती हुई बनेती) का घूमना ही है, उसी प्रकार ग्रहण और ग्राहकरूपसे मानने-वाला अर्थात् इन्द्रिय और विषयरूपसे माननेवाला भी है । वह कौन है ? विद्वन्ना स्पन्द, जो अविद्यके कारण ही स्पन्दके समान स्पन्दता प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, क्योंकि [उपर्युक्त श्लोक ४५, में ही] 'वह अज और अचल है' ऐसा कहा अजाचलमिति वृत्तम् ॥ ४७ ॥ जा चुका है ॥ ४७ ॥



अस्पन्दमानमलातनाभासमजं यथा ।

अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८ ॥

जिस प्रकार स्पन्दरहित अलत आनासवृत्त्य और अज है उसी प्रकार स्पन्दरहित विज्ञान भी आनासवृत्त्य और अज है ॥ ४८ ॥

अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं
तदेवालातमृज्वाद्याकारेणाजाय-
मानमनाभासमजं यथा; तथा विद्यया
स्पन्दमानमविद्योपरमेऽस्पन्दमानं
जात्याद्याकारेणानाभासमजमचलं
भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥

जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द-
मान—स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु
आदि आकारोंमें भासित न होनेके
कारण अनाभास और अज रहता
है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित
होनेवाला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति
होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित
न होकर अनाभास, अज और अचल
हो जायगा—ऐसा इसका तात्पर्य
है ॥ ४८ ॥



किं च—

इसके सिवा—

अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः ।

न ततोऽन्यत्र निस्पन्दाच्चालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४९ ॥

अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं
होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते
और न वे अलातमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९ ॥

तस्मिन्नेवालाते स्पन्दमान
ऋजुवक्राद्याभासा अलातादन्यतः
कुतश्चिदागत्यालाते नैव भवन्ति
इति नान्यतोभुवः । न च तस्मा-
न्निस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गताः।
न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि-
शन्ति ते ॥ ४९ ॥

उस अलातके स्पन्दित होनेपर
भी वे सीधे-टेट्टे आदि आभास
अलातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर
अलातमें उपस्थित नहीं हो जाते;
अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी
नहीं हैं । तथा निस्पन्द हुए उस
अलातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले
जाते और न उस निस्पन्द अलातमें
ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ४९ ॥

किं च—

इसके अतिरिक्त—

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः ।

विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥ ५० ॥

उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं निकले हैं । इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके विषयमें भी समझना चाहिये ॥ ५० ॥

न निर्गता अलातात्त आभासा
शृहादिवद्द्रव्यत्वाभावयोगतः—
द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्, तद-
भावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वा-
भावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेर्व-
स्तुत्वाभावादित्यर्थः; वस्तुनो हि
प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः ।
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथैव
स्युराभासस्याविशेषतस्तुल्य-
त्वात् ॥ ५० ॥

द्रव्यत्वाभावयोगके कारण—द्रव्य-
के भावका नाम द्रव्यत्व है उसके
अभावको द्रव्यत्वाभाव कहते हैं उस
द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात् द्रव्यत्वा-
भावरूपयुक्तिके कारण यानी वस्तुत्व-
का अभाव होनेसे वे आभास घर आदि-
से निकलनेके समान अलातसे भी नहीं
निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो
वस्तुके ही सम्भव हैं, अवस्तुके नहीं ।
विज्ञानमें [प्रतीत होनेवाले] जात्यादि
आभास भी ऐसे ही समझने चाहिये,
क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे
उनकी तुल्यता है ॥ ५० ॥

कथं तुल्यत्वमित्याह—

उनकी तुल्यता किस प्रकार है ?
सो बतलाते हैं—

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः ।

न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते ॥ ५१ ॥

न निर्गतास्ते विज्ञानाद्द्रव्यत्वाभावयोगतः ।

कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥ ५२ ॥

विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे नहीं होते तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ५१ ॥ द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय (अनिर्वचनीय) हैं ॥ ५२ ॥

अलातेन समानं सर्वं विज्ञानस्य । सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञानेऽचले किंकृता इत्याह । कार्य-कारणताभावाज्जन्यजनकत्वानुपपत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्ते यतः सदैव ।

यथासत्स्वृज्वाद्याभासेषु ऋज्वादिबुद्धिर्दृष्टालातमात्रे तथा-सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे जात्यादिबुद्धिर्मृषैवेति सद्युदा-यार्थः ॥ ५१-५२ ॥

विज्ञानके विषयमें भी सब कुछ अलातके ही समान है । नित्य अचल रहना—यही विज्ञानकी विशेषता है । अचल विज्ञानमें जाति आदि आभास किस कारणसे होते हैं ? इसपर कहते हैं—क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव अर्थात् अभावरूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही अचिन्तनीय हैं ।

[इन दोनों श्लोकोंका] सम्मिलित अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु (सरल) आदि आभासोंके न होनेपर भी अलातमात्रमें ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान-मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है ॥ ५१-५२ ॥



आत्मानं कार्य-कारणभाव क्यो असम्भव है ?

अजमेकमात्मतत्त्वमिति स्थितं
तत्र यैरपि कार्यकारणभावः
कल्प्यते तेषाम्—

यह निश्चय हुआ कि एक
अजन्मा आत्मतत्त्व है। उसमें जो
लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना
करते हैं उनके मतमें भी—

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि ।

द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥

द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व
दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥

द्रव्यं द्रव्यस्यान्यस्यान्यद्वेतुः
कारणं स्यान्न तु तस्यैव तत् ।
नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणं स्वतन्त्रं
दृष्टं लोके । न च द्रव्यत्वं धर्माणा-
मात्मनामुपपद्यतेऽन्यत्वं वा कुत-
श्चिदेनान्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं
वा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रव्यत्वा-
दनन्यत्वाच्च न कस्यचित्कार्य
कारणं चात्मेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्रव्य
ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य-
का वही। और जो वस्तु द्रव्य नहीं
है उसे लोकमें किसीका स्वतन्त्र
कारण होता नहीं देखा। तथा
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है,
जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके
कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो
सकें। अतः तात्पर्य यह है कि
अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण
आत्मा किसीका भी कार्य अथवा
कारण नहीं है ॥ ५३ ॥



एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धर्मजम् ।

एवं हेतुफलाजार्तिं प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४ ॥

इस प्रकार न तो वाद्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही वाद्य पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ है। अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्म- इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे चित्त
विज्ञानस्वरूपमेव चित्तमिति न आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; न तो
चित्तजा वाद्यधर्मा नापि वाद्य- ही वाद्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए
धर्मजं चित्तम् । विज्ञानस्वरूपा- हैं और न चित्त ही वाद्य पदार्थोंसे
भासमानत्रत्वात्सर्वधर्माणाम् । एवं उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही
न हेतोः फलं जायते नापि फला- धर्म विज्ञानस्वरूपके आभासमात्र हैं ।
द्वेतुरिति हेतुफलयोरजातिं हेतु- इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी
फलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति उत्पत्ति होती है और न फलसे
आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव हेतुकी । अतः मनीषी लोग हेतु और
प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मचिद इत्यर्थः ॥५४॥ फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते
हैं । तात्पर्य यह कि ब्रह्मचेत्ता
लोग आत्मामें हेतु और फलका
अभाव ही देखते हैं ॥५४॥



हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल

ये पुनर्हेतुफलयोरभिनिविष्टा- किन्तु जिनका हेतु और फलमें
स्तेषां किं स्यादित्युच्यते—धर्मा- अभिनिवेश है उनका क्या होगा ?
धर्माख्यस्य हेतोरहं कर्ता मम इसपर कहा जाता है—धर्माधर्मसंज्ञक
धर्माधर्मौ तत्फलं कालान्तरे हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और
क्वचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य अर्धम मेरे हैं, कालान्तरमें किसी
इति— प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका
फल भोगूँगा—इस प्रकार


यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भवः ।

क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५ ॥

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी उत्पत्ति भी है । हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती

यावद्धेतुफलयोरवेशो हेतु-
फलाग्रह आत्मन्यभ्यारोपणं
तच्चित्तेत्यर्थः, तावद्धेतुफल-
योरुद्भवो धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य
चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यर्थः ।
यदा पुनर्मन्त्रौपधिर्वीर्येणैव
ग्रहावेशो यथोक्ताद्वैतदर्शनेना-
विद्योद्भूतहेतुफलावेशोऽपनीतो
भवति तदा तस्मिन्क्षीणे नास्ति
हेतुफलोद्भवः ॥ ५५ ॥

जबतक हेतु और फलका आवेश
—हेतुफलाग्रह अर्थात् उन्हें आत्मामें
आरोपित करना यानी तच्चित्ता है,
तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति
भी है अर्थात् तबतक धर्माधर्म और
उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है ।
किन्तु जिस समय मन्त्र और ओपधि-
की सामर्थ्यसे ग्रहके आवेशके समान
उपर्युक्त अद्वैतबोधसे अविद्याजनित
हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो
जाता है उस समय उसके क्षीण
हो जानेपर हेतु और फलकी उत्पत्ति
भी नहीं होती ॥ ५५ ॥



हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष

यदि हेतुफलोद्भवस्तदा को
दोष इत्युच्यते—

यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति
रहे तो इनमें दोष क्या है ? सो
बतलाते हैं—

यावद्धेतुफलावेशः

संसारस्तावदायतः ।

क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक संसार बढ़ा हुआ है ।
हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान् संसारको प्राप्त नहीं
होता ॥ ५६ ॥

यावत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफला-
वेशो न निवर्ततेऽक्षीणः संसार-
स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः ।
क्षीणे पुनर्हेतुफलावेशे संसारं न
प्रपद्यते कारणाभावात् ॥ ५६ ॥

जवतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और
फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता
तत्रतक संसार क्षीण न होकर
विस्तृत होता जाता है । किन्तु
हेतुफलावेशके क्षीण होनेपर, कोई
कारण न रहनेसे, विद्वान् संसारको
प्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥



नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव
तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य
चोत्पत्तिविनाशाबुच्येते त्वया ?

शंका—अजन्मा आत्मासे भिन्न
तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु
और फल तथा संसारके उत्पत्ति-
विनाशका तुम कैसे वर्णन कर
रहे हो ?

शृणु—

समाधान—अच्छा, सुनो—

संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै ।

सद्भावेन ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७ ॥

सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं; इसलिये वे नित्य
नहीं हैं । परमार्थदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही है; इसलिये किसीका विनाश
भी नहीं है ॥ ५७ ॥

संवृत्या संवरणं संवृत्ति-
रविद्याविषयो लौकिको व्यव-
हारस्तथा संवृत्या जायते सर्वम् ।
तेनाविद्याविषये शाश्वतं नित्यं
नास्ति वै । अत उत्पत्तिविनाश-

‘संवृत्या’—संवरण अर्थात्
अविद्याविषयक लौकिक व्यवहारका
नाम संवृत्ति है; उस संवृत्तिसे ही
सबकी उत्पत्ति होती है । अतः
उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी
वस्तु शाश्वत—नित्य नहीं है ।
इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशील संसार

लक्षणः संसार आयत इत्युच्यते ।
परमार्थसद्भावेन त्वर्जं सर्वमात्मैव
यस्मात् । अतो जात्यभावा-
दुच्छेदस्तेन नास्ति वै कस्य-
चिद्धेतुफलादेरित्यर्थः ॥ ५७ ॥

विस्तृत है—ऐसा कहा जाता है;
क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सब कुछ
अजन्मा आत्मा ही है । अतः जन्मका
अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु
या फल आदिका उच्छेद नहीं होता—
ऐसा इसका तात्पर्य है ॥५७॥



जीवोंका जन्म मायिक है

धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः ।

जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८ ॥

धर्म (जीव) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न
नहीं होते । उनका जन्म मायाके सदृश है और वह माया भी [वस्तुतः]
है नहीं ॥ ५८ ॥

येऽप्यात्मानोऽन्ये च धर्माः
जायन्त इति कल्पन्ते त इत्येवं-
प्रकारा यथोक्तासंबृतिर्निर्दिश्यत
इति संबृत्यैव धर्मा जायन्ते; न ते
तत्त्वतः परमार्थतो जायन्ते ।
यत्पुनस्तत्संबृत्या जन्म तेषां
धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया
जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये-
तव्यम् ।

जों भी आत्मा तथा दूसरे धर्म
'उत्पन्न होते हैं'—इस प्रकार
कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके
सभी धर्म संबृतिसे ही उत्पन्न होते
हैं । यहाँ 'इति' शब्दसे इससे
पहले श्लोकमें कही हुई संबृतिका
निर्देश किया गया है । वे तत्त्वतः—
परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते ।
क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोंका जो
संबृतिसे होनेवाला जन्म है वह
ऐसा है जैसे मायासे होनेवाला
जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके
सदृश समझना चाहिये ।

माया नाम वस्तु तर्हि? नैवम्: तव तो माया एक सत्य वस्तु
सा च माया न विद्यते, मायेत्य- सिद्ध होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं
विद्यमानस्याख्येत्यभिप्रायः॥५८॥ यह है कि 'माया' यह अविद्यमान
वस्तुका ही नाम है ॥५८॥



कथं मायोपमं तेषां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायाके सदृश
जन्मेत्याह— किस प्रकार है? सो बतलाते हैं—

यथा मायामयाद्वीजाज्जायते तन्मयोऽङ्कुरः ।

नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वृद्धमेषु योजना ॥ ५९ ॥

जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है, और वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान् ही, उसी प्रकार धर्मोके विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥

यथा मायामयादाम्रादिवी- जिस प्रकार मायामय आम
जाज्जायते तन्मयो मायामयोऽ- आदिके बीजसे तन्मय अर्थात्
ङ्कुरो नासावङ्कुरो नित्यो न मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है और
चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्त- वह अङ्कुर न तो नित्य ही होता है
द्वदेव धर्मेषु जन्मनाशादियो- और न नाशवान् ही, उसी प्रकार
जना युक्तिः । न तु परमार्थतो असत्य होनेके कारण धर्मोंमें भी
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है।
इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ तन्मय अथवा नाश होना सम्भव
नहीं है ॥५९॥



आत्माकी अनिर्वचनीयता

नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा ।

यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥

इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोंमें नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्त्वमें [नित्य-अनित्य] विवेक भी नहीं कहा जा सकता ॥ ६० ॥

परमार्थतस्त्वात्मस्वजेषु नित्यै-
करसविज्ञप्तिमात्रसत्ताकेषु शाश्व-
तोऽशाश्वत इति वा नाभिधा
नाभिधानं प्रवर्तत इत्यर्थः । यत्र
येषु वर्ण्यन्ते यैरर्थास्ते वर्णाः
शब्दा न प्रवर्तन्तेऽभिधातुं प्रका-
शयितुं न प्रवर्तन्त इत्यर्थः ।
इदमेवमिति विवेको विविक्तता
तत्र नित्योऽनित्यइति नोच्यते ।
“यतो वाचो निवर्तन्ते” (तै०
उ० २ । ४ । १) इति श्रुतेः ॥ ६० ॥

वास्तवमें तो नित्य एकरस
विज्ञानमात्र सत्तास्वरूप अजन्मा
आत्माओंमें नित्य-अनित्य—ऐसे
अभिधान अर्थात् नामकी भी प्रवृत्ति
नहीं है । जहाँ—जिन महात्माओंमें
—जिनसे पदार्थोंका वर्णन किया
जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी
नहीं हैं अर्थात् उसका वर्णन करनेके
लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें
‘यह ऐसा है अर्थात् नित्य है अथवा
अनित्य है’ इस प्रकारका विवेक भी
नहीं कहा जाता; जैसा कि “जहाँ-
से वाणी लौट आती है” इस श्रुति-
से सिद्ध होता है ॥ ६० ॥

यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ।

तथा जाग्रद्द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ॥ ६१ ॥

जिस प्रकार स्वप्नमें चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है उसी प्रकार जाग्रत्कालीन चित्त मायासे भी चित्त मायासे ही स्फुरित होता है ॥ ६१ ॥

अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः ।

अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ६२ ॥

इसमें सन्देह नहीं, स्वप्नावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासने-
वाला है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला
है—इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥

यत्पुनर्वागोचरत्वं परमार्थ-
तोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्म-
नसः स्पन्दनमात्रं न परमार्थत
इति । उक्तार्थो श्लोकौ ॥ ६१-६२ ॥

परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका
जो वाणीका विषय होना है वह मनका
स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः
है नहीं—इस प्रकार इन श्लोकोंकी
व्याख्या पहले (अद्वैत० २९-३०
में) की जा चुकी है ॥ ६१-६२ ॥

द्वैताभावमें स्वप्नका दृष्टान्त

इतश्च वागोचरस्याभावो
द्वैतस्य—

वाणीके विषयभूत द्वैतका
इसलिये भी अभाव है—

स्वप्नदृक्प्रचरन्स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् ।

अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥ ६३ ॥

स्वप्नदृष्टा स्वप्नमें घूमते-घूमते दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज
अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है [वे वस्तुतः उससे पृथक्
नहीं होते] ॥ ६३ ॥

स्वप्नान्पश्यतीति स्वप्नदृक्प्र-
चरन्पर्यटन्स्वप्ने स्वप्नस्थाने दिक्षु
वै दशसु स्थितान्वर्तमानाञ्जीवा-
न्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या-
न्सदा पश्यति ॥ ६३ ॥

जो स्वप्नोंको देखता है उसे स्वप्नदृष्टा
कहते हैं, वह स्वप्न अर्थात् स्वप्नस्थानोंमें
घूमता हुआ दशों दिशाओंमें स्थित
जिन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणियों-
को सर्वदा देखता है [वे वस्तुतः
उससे भिन्न नहीं होते] ॥ ६३ ॥

यद्येवं ततः किम् ? उच्यते—

यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध
क्या हुआ ? सो बतलाते हैं—

स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् ।

तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते ॥ ६४ ॥

वे सब स्वप्नद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे पृथक् नहीं होते । इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥६४॥

स्वप्नदृशश्चित्तं स्वप्नदृक्चित्तम् ।
तेन दृश्यास्ते जीवास्ततस्तस्मा-
त्स्वप्नदृक्चित्तात्पृथङ् न विद्यन्ते
न सन्तीत्यर्थः । चित्तमेव ह्यनेक-
जीवादिभेदाकारेण विकल्प्यते ।
तथा तदपि स्वप्नदृक्चित्तमिदं
तद्दृश्यमेव, तेन स्वप्नदृशा दृश्यं
तद्दृश्यम् । अतः स्वप्नदृग्व्यति-
रेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यर्थः ॥६४॥

स्वप्नद्रष्टाका चित्त 'स्वप्नदृक्चित्त'
कहलाता है, उससे देखे जानेवाले
वे जीव उस स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे
पृथक् नहीं है—यह इसका तात्पर्य
है । अनेक जीवादिभेदरूपसे
चित्त ही कल्पना किया जाता है ।
इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह
चित्त भी उसका दृश्य ही है ।
उस स्वप्नद्रष्टासे देखा जाता है,
इसलिये उसका दृश्य है । अतः तात्पर्य
यह है कि स्वप्नद्रष्टासे भिन्न चित्त
भी कुछ है नहीं ॥६४॥



चरञ्जागरिते जाग्रद्विक्षु वै दशसु स्थितान् ।

अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥ ६५ ॥

जाग्रच्चित्तेक्षण्नीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् ।

तथा तद्दृश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥

जाग्रत्-अवस्थामें घ्रूमते-घ्रूमते जाग्रत्-अवस्थाका साक्षी दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता है ॥ ६५ ॥ वे जाग्रच्चित्तके दृश्य उससे पृथक् नहीं हैं । इसी प्रकार वह जाग्रच्चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥ ६६ ॥

जाग्रतो दृश्या जीवास्तच्चित्ता-
व्यतिरिक्ताश्चित्तेक्षणियत्वात्स्वप्न-
दृक्चित्तेक्षणियजीववत् । तच्च
जीवेक्षणात्मकं चित्तं द्रष्टुरव्यति-
रिक्तं द्रष्टृदृश्यत्वात्स्वप्नचित्तवत् ।
उक्तार्थमन्यत् ॥ ६५-६६ ॥

जाग्रत् पुरुषको दिखलायी देने-
वाले जीव उसके चित्तसे अपृथक्
हैं, क्योंकि स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे देखे
जानेवाले जीवोंके समान वे उसके
चित्तसे ही देखे जाते हैं । तथा
जीवोंको देखनेवाला वह चित्त भी
द्रष्टासे अभिन्न है, क्योंकि स्वप्नचित्त-
के समान वह भी जाग्रद्द्रष्टाका
दृश्य है । शेष अर्थ पहले कहा जा
चुका है ॥६५-६६॥



उभे ह्यन्योन्यदृश्ये ते किं तदस्तीति नोच्यते ।

लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनैव गृह्यते ॥ ६७ ॥

वे [जीव और चित्त] दोनों एक दूसरेके दृश्य हैं; वे हैं क्या वस्तु—सो कहा नहीं जा सकता । वे दोनों ही प्रमाणशून्य हैं और केवल तच्चित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं ॥ ६७ ॥

जीवचित्ते उभे चित्तचैत्ये ते
अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये ।
जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम
भवति । चित्तापेक्षं हि जीवादि
दृश्यम् । अतस्ते अन्योन्यदृश्ये ।

जीव और चित्त अर्थात् चित्त
और चित्तके विषय—ये दोनों ही
अन्योन्यदृश्य अर्थात् एक-दूसरेके
विषय हैं । जीवादि विषयकी अपेक्षा-
से चित्त है और चित्तकी अपेक्षासे
जीवादि दृश्य । अतः वे एक-दूसरेके

तस्माच्च किञ्चिदस्तीति चोच्यते
चित्तं वा चित्तोक्षणीयं वा किं
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न
हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य-
मिप्रायः ।

कथम् ? लक्षणाशून्यं लक्ष्य-
तेऽनर्थेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण-
शून्यमुभयं चित्तं चैत्यं द्रव्यं
यतस्तन्मतेनैव तच्चित्तयैव तद्-
गृह्यते । न हि घटमतिं प्रत्या-
ख्याय घटो गृह्यते नापि घटं
प्रत्याख्याय घटमतिः । न हि
तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते
कल्पयितुमित्यमिप्रायः ॥६७॥

द्वयं हैं । इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर
कि वे हैं क्या ? विवेकी लोग यही
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका
दृश्य—इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं ।
इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि-
प्राय है कि जिस प्रकार स्वप्नमें हाथी
और हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ
(जाग्रत्-अवस्थामें) भी उनका
अभाव है ।

किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि
वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा-
शून्य—प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई
पदार्थ लक्षित होता है उसे 'लक्षणा'
यानी 'प्रमाण' कहते हैं । और वे
तन्मत—तच्चित्तासे ही ग्रहण किये
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया
जाता है और न घटको त्यागकर
घटबुद्धिका ही । तात्पर्य यह कि
उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी
कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा असी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८ ॥

जिस प्रकार स्वप्नका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी
प्रकार वे सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६८ ॥

यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६ ॥

जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६९ ॥

यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि वा ।

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥

जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥७०॥

मायामयो मायाविना यः
कृतो निर्मितको मन्त्रौपध्यादि-
भिर्निष्पादितः । स्वप्नमायानि-
मितका अण्डजादयो जीवा यथा
जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनु-
ष्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव
चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः
॥ ६८—७० ॥

मायामय—जिसे मायावीने रचा
हो, निर्मितक—मन्त्र और ओपधि
आदिसे सम्पादन किया हुआ । स्वप्न,
माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न हुए
अण्डज आदि जीव जिस प्रकार
उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी
प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान
होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र
ही हैं—यह इसका अभिप्राय
है ॥ ६८—७० ॥



अजाति ही उत्तम सत्य है

न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ७१ ॥

[वस्तुतः] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति ही नहीं होती ॥ ७१ ॥

व्यवहारसत्यविषये जीवानां
जन्ममरणादिः स्वप्नादिजीववदि-
त्युक्तम् । उत्तमं तु परमार्थसत्यं
न कश्चिज्जायते जीव इति ।
उक्तार्थमन्यत् ॥७१॥

व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके
जो जन्म-मरणादि हैं वे स्वप्नादिके
जीवोंके ही समान हैं—ऐसा पहले
कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम
सत्य तो यही है कि कोई भी जीव
उत्पन्न नहीं होता। शेष अंशकी
व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥७१॥

चित्तकी असंगता

चित्तरूपन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकवद्द्वयम् ।

चित्तं निर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥ ७२ ॥

विषय और इन्द्रियोंके सहित यह सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया है ॥७२॥

सर्वं ग्राह्यग्राहकवचित्तरूप-
न्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थत
आत्मैवेति निर्विषयं तेन निर्विष-
यत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम् ।
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” (बृ० उ०
४ । ३ । १५, १६) इति श्रुतेः ।
सर्वविषयस्य हि विषये सङ्गः ।
निर्विषयत्वाच्चित्तमसङ्गमित्यर्थः
॥ ७२ ॥

विषय और इन्द्रियोंसे युक्त
सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण है ।
किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही
है, इसलिये वह निर्विषय है । उस
निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असंग
कहा गया है; जैसा कि “यह पुरुष
असंग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित
होता है। जो सर्वविषय होता है उसी-
का अपने विषयसे संग हो सकता है ।
अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय
होनेके कारण चित्त असंग है ॥७२॥

ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्वं
चित्तस्य न निःसङ्गता भवति
यस्माच्छास्ता शास्त्रं शिष्यश्चेत्येव-
मादेर्विषयस्य विद्यमानत्वात् ।

नैष दोषः; कस्मात्—

शंका—यदि निर्विषयताके कारण
ही असंगता होती है तो चित्तकी
असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि
शास्ता (गुरु), शास्त्र और
शिष्य इत्यादि उसके विषय
विद्यमान हैं ।

समाधान—यह दोष नहीं हो
सकता, क्योंकि—

व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती

योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ ।

परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥

जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं
होता; और यदि अन्य मतावलम्बियोंके शास्त्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो
भी तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७३॥


यः पदार्थः शास्त्रादिविद्यते स
कल्पितसंवृत्या; कल्पिता च सा
परमार्थप्रतिपत्त्युपायत्वेन संबृ-
तिश्च सा, तथा योऽस्ति परमार्थेन
नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते द्वैतं
न विद्यत इत्युक्तम् ।

यश्च परतन्त्राभिसंवृत्या पर-
शास्त्रव्यवहारेण स्यात्पदार्थः स

जो भी शास्त्रादि पदार्थ हैं वे
कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात्
जिस व्यवहारकी परमार्थतत्त्वकी
उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की
गयी है उसके कारण जिस पदार्थ-
की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है ।
“ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता”
(आगम० श्लो० १८) ऐसा हम
पहले कह ही चुके हैं ।

इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा-
दिसंबृतिसे—अन्य मतावलम्बियोंके
शास्त्रव्यवहारसे सिद्ध है वह

परमार्थतो निरूप्यमाणो ना- परमार्थतः निरूपण किये जानेपर
स्त्येव । तेन युक्तमुक्तमसङ्गं तेन नहीं है । अतः 'इसीसे उसे असङ्ग
कीर्तितमिति ॥ ७३ ॥ कहा गया है'—यह कथन ठीक ही
है ॥ ७३ ॥



आत्मा अज है—यह कल्पना भी व्यावहारिक है

ननु शास्त्रादीनां संवृतित्वेऽजः शंका—शास्त्रादिको व्यावहा-
इतीयमपि कल्पना संवृतिः रिक नानेपर तो 'अज है' ऐसी
स्यात् ? कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध
होगी ?

सत्यमेवम् ।

समाधान—हाँ, बात तो ऐसी ही है।


अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः ।

परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः ॥ ७४ ॥

आत्मा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है,
परमार्थतः तो 'अज' भी नहीं है । अन्य मतावलम्बियोंके शास्त्रोंसे सिद्ध
जो संवृति (भ्रमजनित व्यवहार) है उसके अनुसार उसका जन्म
होता है । [अतः उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा
गया है] ॥ ७४ ॥

शास्त्रादिकल्पितसंवृत्यैवाज
इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यजः ।
यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर-
शास्त्रसिद्धिमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः
स संवृत्या जायते । अतोऽज
इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये
नैव क्रमत् इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

शास्त्रादिकल्पित व्यवहारके
कारण ही उसे 'अज' ऐसा कहा
जाता है । परमार्थतः तो वह अज
भी नहीं है । क्योंकि यहाँ जिसे अन्य
शास्त्रोंकी सिद्धिकी अपेक्षासे 'अज'
ऐसा कहा है, वह संवृतिसे ही
जन्म भी लेता है । अतः 'वह अज
है' ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ-
राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता ॥ ७४ ॥



द्वैताभावसे जन्माभाव

यस्मादसद्विषयस्तस्मात्— | क्योंकि विषय असत् है, इसलिये—

अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते ।

द्वयाभावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते ॥ ७५ ॥

लोगोंका असत्य [द्वैत] के विषयमें केवल आग्रह है । वहाँ [परमार्थतत्त्वमें] द्वैत है ही नहीं । जीव द्वैताभावका बोध प्राप्त करके ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता ॥ ७५ ॥

<p>असत्यभूते द्वैतेऽभिनिवेशोऽस्ति केवलम् अभिनिवेश मिथ्याभिनिवेश- निवृत्त्या जन्माभावः आग्रहमात्रम् । द्वयं तत्र न विद्यते । मिथ्याभिनिवेश- मात्रं च जन्मनः कारणं यस्मात्त- स्माद्द्वयाभावं बुद्ध्वा निर्निमित्तो निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेशो यः स न जायते ॥ ७५ ॥</p>	<p>असत्यभूत द्वैतमें लोगोंका केवल अभिनिवेश है । आग्रहमात्रका नाम अभिनिवेश है । वहाँ [परमार्थवस्तुमें] द्वैत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका कारण है । अतः द्वैताभावको जानकर जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात् जिसका मिथ्या द्वैतविषयक आग्रह निवृत्त हो गया है उस [अधिकारी जीव] का फिर जन्म नहीं होता ॥ ७५ ॥</p>
---	---

यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान् ।

तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः ॥ ७६ ॥

जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं करता उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव होनेपर फिर फल कहाँ हो संकता है ? ॥ ७६ ॥

जात्याश्रमविहिता आशीर्ष-
 जितैरनुष्ठीयमाना
 हेतुत्रयाभावा-
 जन्माभावः धर्मा देवत्वादि-
 प्राप्तिहेतव उत्तमाः
 केवलाश्च धर्माः । अधर्मव्यामिश्रा
 मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्था मध्यमाः ।
 तिर्यगादिप्राप्तिनिमित्ता अधर्म-
 लक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाश्चाधमाः ।
 तानुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि-
 कल्पितान्यदैकमेवाद्वितीयमात्म-
 तत्त्वं सर्वकल्पनावर्जितं जानन्न
 लभते न पश्यति यथा बालैर्दृश्य-
 मानं गगने मलं विवेकी न पश्यति
 तद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यते
 चित्तं देवाद्याकारैरुत्तमाधम-
 मध्यमफलरूपेण । न ह्यसति
 हेतौ फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव
 इव सस्यादि ॥७६॥

निष्काम मनुष्योंद्वारा अनुष्ठान
 किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके
 हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो
 केवल धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं और
 मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो
 अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हैं
 तथा तिर्यगादि योनियोंकी प्राप्तिकी
 हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियाँ
 अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूर्ण
 कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय
 आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम,
 मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य
 इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता,
 जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशमें
 बालकोंको दिखायी देनेवाली
 मलिनताको नहीं देखता, उस समय
 चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल-
 रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं
 होता । बीजादिके अभावमें जैसे
 अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी
 प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी
 उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥

हेतुभावे चित्तं नोत्पद्यत इति
 ह्युक्तम् । सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य
 कीदृशीत्युच्यते-

हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त
 उत्पन्न नहीं होता—ऐसा पहले कहा
 गया । किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति
 कैसी होती है ? इसपर कहा जाता है—

अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया ।

अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥ ७७ ॥

[इस प्रकार] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है । [क्योंकि पहले भी] वह सर्वदा अजात [अर्थात् अद्वितीय] चित्तकी ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ [प्रतीयमान द्वैतवर्ग] है, सब चित्तका ही दृश्य है ॥ ७७ ॥

परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्मा-
धर्माख्योत्पत्तिनिमित्तस्थानिमित्त-
स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु-
त्पत्तिः सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा-
निर्विशेषाद्वया च । पूर्वमप्यजा-
तस्यैवानुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्या-
द्वयस्येत्यर्थः । यस्मात्प्रागपि
विज्ञानाच्चित्तदृश्यं तद्द्वयं जन्म
च तस्मादजातस्य सर्वस्य सर्वदा
चित्तस्य समाद्वयैवानुत्पत्तिर्न पुनः
कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न
भवति । सर्वदैकरूपैवेत्यर्थः ॥७७॥

परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका
धर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त
हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी
जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह
सर्वदा सब अवस्थाओंमें समान अर्थात्
निर्विशेष और अद्वितीय है । वह
पहलेसे ही अजात-अनुत्पन्न और
सर्व अर्थात् अद्वय चित्तकी ही होती
है । क्योंकि बोध होनेके पूर्व भी
वह द्वैत और जन्म चित्तका ही दृश्य
था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी
अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वय
ही होती है । ऐसी नहीं है कि
कभी होती है और कभी नहीं होती ।
तात्पर्य यह है कि वह सर्वदा
एकरूपा ही है ॥ ७७ ॥



विद्वान्की अभयपदप्राप्ति

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि-
त्तस्य द्वयस्याभावात्—

उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत
द्वैतका अभाव होनेके कारण—

बुद्ध्वानिमित्तां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् ।

वीतशोकं तथाकामसभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ॥

अनिमित्ताको ही सत्य जानकर और [देवादि योनिकी प्राप्तिके] किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान् शोक और कामसे रहित अभयपद प्राप्त कर लेता है ॥ ७८ ॥

अनिमित्तां च सत्यां पर-
मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि-
कारणं देवादियोनिप्राप्तये पृथ-
गनाप्नुवन्ननुपादानस्त्यक्तवा-
ह्यैषणः सन्कामशोकादिवर्जित-
मविद्यादिरहितसभयं पदमश्नुते
पुनर्न जायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

अनिमित्ताको ही सत्य यानी
परमार्थरूप जानकर तथा देवादि
योनियोंकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य
धर्मादि कारणको न पाकर [विद्वान्]
वाह्य एषणाओंसे मुक्त हो कामना एवं
शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अभय-
पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात्
फिर जन्म नहीं लेता ॥७८॥



अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते ।

वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७९ ॥

चित्त असत्य [द्वैत] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है । तथा द्वैत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे निःसंग होकर छूट आता है ॥ ७९ ॥

यस्मादभूताभिनिवेशादसति
द्वये द्रव्यास्तित्वनिश्चयोऽभूताभि-
निवेशस्तस्मादविद्याव्यामोहरूपा-


क्योंकि अभूताभिनिवेशसे जो द्वैत
वस्तुतः असत् है उसके अस्तित्वका
निश्चय करना 'अभूताभिनिवेश'
है—उस अविद्याजनित मोहरूप
असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त

द्धि सदृशे तदनुरूपे तच्चित्तं

तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है ।

प्रवर्तते । तस्य द्वयस्य वस्तुनो-
ऽभावं यदा बुद्ध्वास्तदा तस्मान्नि-
सङ्गं निरपेक्षं सद्रिनिवर्ततेऽधृता-
भिनिवेशविषयात् ॥ ७९ ॥

जिस समय वह उस द्वैत वस्तुका
अभाव जान लेता है उस समय उस
मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे
निःसंग-निरपेक्ष होकर लौट आता
है ॥ ७९ ॥



मनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।

विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥ ८० ॥

इस प्रकार [द्वैतसे] निवृत्त और [विषयान्तरमें] प्रवृत्त न हुए चित्तकी
उस समय निश्चल स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय
है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है ॥ ८० ॥

निवृत्तस्य द्वैतविषयाद्विषया-
न्तरे चाप्रवृत्तस्याभावदर्शनेन
चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता
ब्रह्मस्वरूपैव तदा स्थितिः । यैषा
ब्रह्मस्वरूपा स्थितिश्चित्तस्याद्वय-
विज्ञानैकरसघनलक्षणा, स हि
यस्याद्विषयो गोचरः परमार्थ-
दर्शिनानां बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं
परं निर्विशेषमजमद्वयं च ॥ ८० ॥

उस समय द्वैतविषयसे निवृत्त
और विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी
अभावदर्शनके कारण निश्चल-चलन-
वर्जिता अर्थात् ब्रह्मस्वरूपा स्थिति
रहती है । चित्तकी जो यह
अद्वयविज्ञानैकरसघनस्वरूपा ब्रह्म-
मयी स्थिति है वह, क्योंकि
परमार्थदर्शी ज्ञानियोंका विषय-गोचर
है इसलिये, परमसाम्य-निर्विशेष
अज और अद्वय है ॥ ८० ॥



पुनरपि क्रीदशशासौ बुद्धानां
विषय इत्याह—

वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार-
का है? सो फिर भी बतलाते हैं—

अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् ।

सकृद्विभातो ह्यवैष धर्मो धातुस्वभावतः ॥ ८१ ॥

वह अज, अनिद्र, अल्प और स्वयंप्रकाश है । यह [आत्मा-
नामक] धर्म करने वस्तु-स्वभावसे ही नित्यप्रकाशमान है ॥८१॥

स्वयमेव तत्प्रभातं भवति, वह स्वयं ही प्रकाशित होता
नादित्याद्यपेक्षम्; स्वयंल्योतिःस्व- है—आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं
भावमिन्यर्थः । सकृद्विभातः अर्थात् वह स्वयं प्रकाशस्वभाव है ।
सदैव विभात इत्येतदेष एवलक्षण यह ऐसे लक्षणोंवाला आत्मा नामक
आत्माख्यो धर्मो धातुस्वभावतो धर्म धातुस्वभाव—वस्तुस्वभावसे ही
वस्तुस्वभावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ . सकृद्विभात सदा भानमान है ॥८१॥



आत्माकी दुर्दर्शताका हेतु

एवमुच्यमानसपि परमार्थतत्त्वं इति प्रकार कहे जानेंपर भी
कस्माद्धौकिरुन गृह्यत इत्युच्यते— लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्वका
बोध क्यों नहीं होता ? इसपर
कहते हैं—

सुखमात्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा ।

यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥

वे भगवान्, जित-तिस द्वैत वस्तुके आप्रहसे अनायास ही आच्छादित
हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं ॥८२॥

यन्मात्रस्य कस्यचिद्द्वयवस्तुनो ! क्योंकि जित-तिस धर्म-द्वैत
धर्मस्य ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- वस्तुके ग्रहण-आप्रहसे मिथ्या-

भिनिविष्टतया सुखमात्रियते-
 ज्ञानासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः । द्वयो-
 पलब्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न
 यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च
 वित्रियते प्रकटीक्रियते, परमार्थ-
 ज्ञानस्य दुर्लभत्वात् । भगवान्-
 सावात्माद्वयो देव इत्यर्थः,
 अतो वेदान्तैराचार्यैश्च बहुश
 उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्य
 इत्यर्थः । “आश्चर्यो वक्ता कुश-
 लोऽस्य लब्धा” (क० उ० १ ।
 २ । ७) इति श्रुतेः ॥ ८२ ॥

भिनिवेशके कारण वे भगवान् अर्थात्
 अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत
 हो जाते हैं अर्थात् विना आयासके
 ही आच्छादित हो जाते हैं—क्योंकि
 द्वैतोपलब्धि के निमित्तसे होनेवाला
 आवरण किसी अन्य यत्नकी अपेक्षा
 नहीं करता—और परमार्थज्ञान दुर्लभ
 होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये
 जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचार्योंके
 अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी
 जाननेमें नहीं आ सकते—यह
 इसका तात्पर्य है । “इसका वर्णन
 करनेवाला आश्चर्यरूप है तथा इसे
 ग्रहण करनेवाला भी कोई निपुण
 पुरुष ही होता है” इस श्रुतिसे भी
 यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥

परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश

अस्ति नास्तीत्यादिसूक्ष्मविष-
 या अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः
 परमात्मन आवरणा एव किमुत
 मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव-
 मर्थं प्रदर्शयन्नाह—

अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय
 भी, जो पण्डितोंके आग्रह हैं,
 भगवान् परमात्मके आवरण ही हैं,
 फिर मूर्ख लोगोंके बुद्धिरूप आग्रहों-
 की तो बात ही क्या है ? इसी
 बातको दिखलते हुए कहते हैं—

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः ।

चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव

बालिशः ॥८३॥

आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है—नहीं है—
इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे
मूर्खलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं ॥ ८३ ॥

अस्त्यात्मेति वादी कश्चित्प्र-
तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना-
शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोऽर्ध-
वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा-
त्ताः । नास्ति नास्तीत्यन्तशून्य-
वादी । तत्रास्तिभावश्चलः, घटा-
द्यनित्यविलक्षणत्वाद् । नास्ति-
भावः स्थिरः सदाविशेषत्वाद् ।
उभयं चलस्थिरविषयत्वात्सद-
सद्भावोऽभावोऽत्यन्ताभावः ।

प्रकारचतुष्टयस्यापि तैरेतै-
श्चलस्थिरोभयाभावैः सदसदादि-
वादी सर्वोऽपि भगवन्तमावृणो-
त्येव बालिशोऽविवेकी । यद्यपि
पण्डितो बालिश एव परमार्थ-
तत्त्वानवबोधोऽस्ति स्वभावभूढो
जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ ॥

कोई वादी कहता है—‘आत्मा
है’ । दूसरा वैनाशिक कहता है—
‘नहीं है’ । तीसरा अर्धवैनाशिक
सदसद्वादी दिग्म्बर कहता है—‘है
भी और नहीं भी है’ । तथा अत्यन्त
शून्यवादीका कथन है कि ‘नहीं
है—नहीं है’ । इनमें अस्तिभाव
‘चल’ है, क्योंकि वह घट आदि
अनित्य पदार्थोंसे भिन्न है । [तात्पर्य
यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि
विशेष धर्मोंसे युक्त होनेके कारण
परिणामी—चल है] । सदा अविशेष-
रूप होनेसे नास्तिभाव ‘स्थिर’
है । चल और स्थिरविषयक होनेसे
सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव
अत्यन्ताभावरूप है ।

इन चल, स्थिर, चलस्थिर और
अभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी
मूर्ख अर्थात् विवेकहीन सदसदादि-
वादीगण भगवान्को आच्छादित
ही करते हैं । वे यद्यपि पण्डित हैं,
तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञान न होनेके
कारण मूर्ख ही हैं । अतः तात्पर्य यह
है कि फिर स्वभावसे ही मूर्ख लोगोंकी
तो बात ही क्या है ? ॥ ८३ ॥

कीदृक्पुनः परमार्थतत्त्वं यद्व-
बोधादत्रालिशः पण्डितो भवती-
त्याह—

तो फिर वह परमार्थतत्त्व कैसा
है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य
अत्रालिश अर्थात् पण्डित हो जाता
है ? इसपर कहते हैं—

कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः ।

भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् ॥ ८४ ॥

जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार
ही कोटियाँ हैं । इनसे असंस्पृष्ट (अछूते) भगवानको जिसने देखा है
वही सर्वज्ञ है ॥ ८४ ॥

कोटयः प्रावादुक्शास्त्रनिर्ण-

यान्ता एता उक्ता
चतुष्कोटिवर्जिता-
त्मज्ञानस्य
सर्वदयकारणत्वम्
अस्ति नास्तीत्या-
द्याश्चतस्रो यासां
कोटीनां ग्रहैर्ग्रहणै-

रुपलब्धिनिश्चयैः सदा सर्वदावृत
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुक्ता-
नां यः स भगवानाभिरस्तिना-
स्तीत्यादिकोटिभिश्चतसृभिरप्य-
स्पृष्टोऽस्त्यादिविकल्पनावर्जित
इत्येतद्येन मुनिना दृष्टो ज्ञातो
वेदान्तेष्वौपनिषदः पुरुषः स
सर्वदृक्सर्वज्ञः परमार्थपण्डित
इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

उन प्रवाद करनेवाले ऋदियोंके
शास्त्रोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति-
नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं ।
जिन कोटियोंके ग्रह—ग्रहणसे ही,
अर्थात् उन प्रावादुकोंके इसउपलब्धि-
जनित निश्चयसे ही जो भगवान् सदा
आवृत है उसे जिस मुनिने इन
अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों-
से असंस्पृष्ट अर्थात् अस्ति-नास्ति
आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा
है, यानी उसे वेदान्तोंमें [प्रतिपादित]
औपनिषद पुरुषरूपसे जाना है वही
सर्वदृक्—सर्वज्ञ अर्थात् परमार्थको
जाननेवाला है ॥ ८४ ॥

ज्ञानीका वैष्कर्म्य

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् ।

अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८५ ॥

इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [वह विवेकी पुरुष] फिर कोई चेष्टा करता है ? ॥८५॥

प्राप्यैतां यथोक्तां कृत्स्नां
समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं
“स ब्राह्मणः” (बृ० उ०
३।८।१०) “एष नित्यो
महिमा ब्राह्मणस्य” (बृ० उ०
४।४।२३) इति श्रुतेः;
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति-
लया अनापन्ना अप्राप्ता यस्याद्-
यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना-
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्,
तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः
परमस्वादात्मलामादूर्ध्वमीहिते चे-
ष्टते निष्प्रयोजनमित्यर्थः । “नैव
तस्य कृतेनार्थः” (गीता ३।१८)
इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥

इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता और “[जो इस अक्षरको जानकर इस लोकसे जाता है] वह ब्राह्मण है” “वह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार ब्राह्मण्यपदको प्राप्तकर—जिस अद्वय पदके आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन्न—अप्राप्त हैं अर्थात् नहीं हैं वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद है, उसीको पाकर इससे पीछे—इस आत्मलामके अनन्तर कोई प्रयोजन न रहनेपर भी क्या [वह विद्वान्] कोई चेष्टा करता है ? [अर्थात् नहीं करता] जैसा कि “उसका किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता” इस सृष्टिसे प्रमाणित होता है ॥८५॥




विप्राणां विलयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते ।

दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वान्शमं व्रजेत् ॥ ८६ ॥

[आत्मस्वरूपमें स्थित रहना] यह उन ब्राह्मणोंका विनय है, यही उनका स्वभाविक शान कहा जाता है तथा स्वभावसे ही दान्त (जितेन्द्रिय) होनेके कारण यहाँ उनका दम भी है । इस प्रकार विद्वान् शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ ॥

विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो
विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्म-
स्वरूपेणावस्थानम् । एष विनयः
शमोऽप्येव एव प्राकृतः स्वाभा-
विकोऽकृतक उच्यते । दमोऽप्येव
एव प्रकृतिदान्तत्वात्स्वभावत एव
चोपशान्तरूपत्वाद्ब्रह्मणः । एवं
यथोक्तं स्वभावोपशान्तं ब्रह्म
विद्वाञ्छममुपशान्तिं स्वाभाविकीं
ब्रह्मस्वरूपां ब्रजेद्ब्रह्मस्वरूपेणाव-
तिष्ठत इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

ब्राह्मणोंका जो यह आत्मस्वरूपसे
स्थित होनारूप विनय-विनीतत्व है
वह स्वाभाविक है । उनका यह
विनय और यही प्राकृत-स्वाभाविक
अर्थात् अकृतक शम भी कहा जाता
है । ब्रह्मस्वभावसे ही उपशान्तरूप
है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके
कारण यही उनका दम भी है ।
इस प्रकार उपर्युक्त स्वभावतः शान्त
ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष शम-ब्रह्म-
स्वरूपा स्वाभाविकी उपशान्तिको
प्राप्त हो जाता है, अर्थात् ब्रह्मरूपसे
स्थित हो जाता है ॥ ८६ ॥



त्रिविध ज्ञेय

एवमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसार-
कारणानि रागद्वेषदोषास्पदानि
ग्रावादुकानां दर्शनानि । अतो
मिथ्यादर्शनानि तानीति तद्यु-
क्तिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटि-
वर्जितत्वाद्वागादिदोषानास्पदं
स्वभावशान्तमद्वैतदर्शनमेव स-
म्यदर्शनमित्युपसंहृतम् । अथे-
दानीं स्वप्रक्रियाप्रदर्शनार्थं
आरम्भः—

इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध
होनेके कारण प्रावादुकों (वादियों)
के दर्शन संसारके कारणस्वरूप
राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं । अतः
वे मिथ्या दर्शन हैं—यह बात
उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों
कोटियोंसे रहित होनेके कारण
रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत
स्वभावतः शान्त अद्वैतदर्शन ही
सम्यग्दर्शन है—इस प्रकार उपसंहार
किया गया । अब यहाँसे अपनी
प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ
किया जाता है—

सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते ।

अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते ॥ ८७ ॥

वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो द्वैत है उसे लौकिक (जाग्रत्) कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तुके विना केवल उपलब्धिके सहित है उसे शुद्ध लौकिक (स्वप्न) कहते हैं ॥ ८७ ॥

सवस्तु संवृत्तिसता वस्तुना

लौकिकम् सह वर्तत इति
सवस्तु, तथा चो-

पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वर्तत
इति सोपलम्भं च शास्त्रादिसर्व-
व्यवहारास्पदं ग्राह्यग्राहकलक्षणं
द्वयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं
जागरितमित्येतत् । एवंलक्षणं
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु ।

अवस्तु संवृत्तेरप्यभावात् ।

शुद्धलौकिकम् सोपलम्भं वस्तुनदु-
पलम्भनमुपलम्भो-

ऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्तत
इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं
प्रविभक्तं जागरितात्स्थूलाह्लौ-
किकं सर्वप्राणिसाधारणत्वादि-
ष्यते स्वप्न इत्यर्थः ॥ ८७ ॥

सवस्तु—व्यावहारिक सत् वस्तुके
सहित रहता है, इसलिये जो
सवस्तु है तथा उपलम्भ यानी उप-
लब्धिके सहित है, इसलिये जो
'सोपलम्भ' है ऐसा शास्त्रादि
सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत ग्राह्य-
ग्रहणरूप जो द्वैत है वह 'लौकिक'—
लोकसे दूर न रहनेवाला अर्थात्
जाग्रत् कहलाता है । वेदान्तोंमें
जागरितको ऐसे लक्षणोंवाला
माना है ।

संवृत्तिका भी अभाव होनेके
कारण जो 'अवस्तु' है—किन्तु
'सोपलम्भ' है—वस्तुके न
होनेपर भी वस्तुके समान उपलब्धि
हाना 'उपलम्भ' कहलाता है
उसके सहित होनेके कारण जो
'सोपलम्भ' है वह सम्पूर्ण प्राणियों-
के लिये साधारण होनेके कारण शुद्ध—
केवल अर्थात् जागरितरूप स्थूल
लौकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता
है; अर्थात् वह स्वप्नावस्था है ॥ ८७ ॥

अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम् ।

ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् ॥ ८८ ॥

जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर (सुप्रति) मानी गयी है । इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [अवस्था-त्रयरूप] ज्ञान और ज्ञेय तथा [तुरीयरूप] विज्ञेयका निरूपण किया है ॥८८॥

अवस्त्वनुपलम्भं च ग्राह्य-
 लोकोत्तरम् ग्रहणवर्जितमित्ये-
 तत्, लोकोत्तरम् अत एव लोकातीतम् । ग्राह्यग्रहण-
 विषयो हि लोकस्तदभावात्सर्व-
 प्रवृत्तिबीजं सुषुप्तमित्येतदेवं
 स्मृतम् ।

अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात् ग्राह्य और ग्रहणसे रहित जो अवस्था है वह 'लोकोत्तर' अतएव 'लोका-तीत' कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य और ग्रहणका विषय ही लोक है । उसका अभाव होनेके कारण वह सुषुप्त अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी बीजभूता है—ऐसा माना गया है ।

सोपायं परमार्थतत्त्वं लौकिकं
 शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण
 येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम् ।
 ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि । एतद्व्यति-
 रेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सर्वप्रावादुक-
 कल्पितवस्तुनोऽत्रैवान्तर्भावात् ।
 विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्व-
 यमजमात्मतत्त्वमित्यर्थः । सदा

उपायके सहित परमार्थतत्त्व तथा लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे 'ज्ञान' कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएँ ही 'ज्ञेय' हैं, क्योंकि समस्त वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओंका इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ सत्य तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा आत्मतत्त्व है वही 'विज्ञेय' है । ऐसा इसका अभिप्राय है ।

सर्वदा एतल्लौकिकादिविज्ञेयान्तं
बुद्धैः परमार्थदर्शिभिर्ब्रह्मविद्भिः
प्रकीर्तितम् ॥ ८८ ॥

उन लौकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त
सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थदर्शी
विद्वानोंने सदा—सर्वदा ही निरूपण
किया है ॥ ८८ ॥



त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है

ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् ।

सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधिपः ॥ ८९ ॥

ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान लेनेपर इसलोकमें
उस महाबुद्धिमानको स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥

ज्ञाने च लौकिकादिविषये,
ज्ञेये च लौकिकादौ त्रिविधे—
पूर्वं लौकिकं स्थूलम्, तदभावेन
पश्चाच्छुद्धं लौकिकम्, तदभावे-
न लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्या-
नत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये-
ऽद्वयेऽजेऽभये विदिते स्वयमेवात्म-
स्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वथास्तौ
ज्ञश्च सर्वज्ञस्तद्भावः सर्वज्ञता,
इहास्मिँल्लोके भवति महाधिप्यो
महाबुद्धेः । सर्वलोकातिशय-
वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वज्ञः

लौकिकादिविषयक ज्ञान और
लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको
जान लेनेपर, अर्थात् पहले स्थूल
लौकिकको, फिर उसके अभावमें
शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी
अभावमें लोकोत्तरको—इस प्रकार
क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभाव-
द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा
और अभयरूप तुरीयको जान
लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्धिको
सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप
ही सर्वज्ञता—जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी)
हो उसे 'सर्वज्ञ' कहते हैं उसीकी
भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है,
क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि
सम्पूर्ण लोकसे बड़ी हुई वस्तुको
विषय करनेवाली होती है । तात्पर्य

सर्वदा भवति । सकृद्विदिते स्वरूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः । न हि परमार्थविदो ज्ञानोद्भवामिभवौ स्तो यथान्येषां प्रावादुकानाम् ॥ ८९ ॥

यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार न होनेके कारण [उसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है], क्योंकि जिस प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय और अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥



लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशादस्तित्वाशङ्का परमार्थतो मा भूदित्याह—

[उपर्युक्त श्लोकमें] लौकिकादिको क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी आशंका न हो जाय—इसलिये कहते हैं—

हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः ।

तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः ॥ ९० ॥

[जाग्रदादि] हेय, [सत्यब्रह्मरूप] ज्ञेय, [पाण्डित्यादि] प्राप्तव्य साधन और [राग-द्वेषादि] प्रशमनीय दोष—ये सबसे पहले जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय (ब्रह्म) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल उपलम्भ (अविद्याकल्पितत्व) ही माना गया है ॥९०॥

हेयानि च लौकिकादीनि त्रीणि जागरितस्वप्नसुषुप्तान्यात्मन्यसत्त्वेन रज्ज्वां सर्पवद्वातव्यानीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि-


लौकिकादि तीन हेय हैं । तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ रज्जुमें सर्पके समान आत्मामें अस्त होनेके कारण त्यागने योग्य हैं । चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व

वर्जितं परमार्थतत्त्वम् । आप्या-
न्याप्तव्यानि त्यक्तवाह्यैषणाश्रयेण
भिक्षुणा पाण्डित्यशाल्यमौना-
ख्यादि साधनानि । पाक्यानि
रागद्वेषमोहादयो दोषाः कृपाया-
ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये-
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे-
यानि भिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः,
अग्रयाणतः प्रथमतः ।

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे-
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं
वर्जयित्वा, उपलम्भनमुपल-
म्भोऽविद्याकल्पनामात्रम् । हेया-
प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्म-
विद्धिर्न परमार्थसत्यता त्रयाणा-
मित्यर्थः ॥ ९० ॥

ही यहाँ हेय माना गया है । ब्राह्म
तीनों एतदाशेषो त्याग देनेवाले
सुमुमुक्षुके लिये पाण्डित्य, वात्य और
नैन नामक तीन साधन ही आप्य
—प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और
मोह आदि कर्मायत्तंजनक दोष ही
[उसके लिये] पाक्य—पाक (जीर्ण)
करने योग्य हैं । तात्पर्य यह है कि
सुमुमुक्षुको हेय, हेय, आप्य और
पाक्य इन सत्रको ही अग्रयाणतः—
सबसे पहले अपने साधनरूपसे
जानना चाहिये ।

उन हेय आदिमेंसे केवल एक
परमार्थ सत्य हेय ब्रह्मको छोड़कर
दोष हेय, आप्य और पाक्य—इन
तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताशेषोंके केवल उपलम्भ
—उपलम्भन यानी अविद्यामय
कल्पनानात्र ही माना है, अर्थात् इन
तीनोंकी परमार्थ सत्यता स्वीकार
नहीं की है ॥ ९० ॥



जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न हैं

परमार्थतस्तु—

वास्तवमें तो—

प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः ।

विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन ॥ ९१ ॥

सम्पूर्ण जीवोंको लभावने ही आकाशके समान और अनादि जानना
चाहिये । उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है ॥ ९१ ॥

प्रकृत्या स्वभावत आकाश-
वदाकाशतुल्याः सूक्ष्मनिरञ्जन-
सर्वगतत्वैः सर्वे धर्मा आत्मानो
ज्ञेया मुमुक्षुभिरनादयो नित्याः ।
बहुवचनकृतभेदाशङ्कां निरा-
कुर्वन्नाह—कचन किंचन किंचि-
दणुमात्रमपि तेषां न विद्यते
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥

मुमुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निरञ्जनत्व
और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी
धर्मों—जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्
स्वभावतः आकाशवत्—आकाशके
समान और अनादि यानी नित्य
जानना चाहिये । यहाँ बहुवचनके
कारण होनेवाले जीवात्माओंके भेदकी
आशंकाका निराकरण करते हुए
कहते हैं— 'उनका कचन—कहीं,
किञ्चन—कुछ भी अर्थात् अणुमात्र
भी नानात्व नहीं है' ॥ ९१ ॥



आत्मतत्त्वानिरूपण

ज्ञेयतापि धर्माणां संबृत्यैव न
परमार्थत इत्याह—

आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी
व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं—
इसी अभिप्रायसे कहते हैं—

आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः ।

यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९२ ॥

सम्पूर्ण आत्मा स्वभावसे ही नित्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित हैं—
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व (मोक्ष) प्राप्तिमें समर्थ
होता है ॥ ९२ ॥

यस्मादादौ बुद्धा आदिबुद्धाः
प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा
नित्यप्रकाशस्वरूपः सवितैवं
नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः सर्वे
धर्माः सर्व आत्मानः । न च


क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य
प्रकाशस्वरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण
धर्म यानी आत्मा प्रकृति—स्वभावसे ही
आदिबुद्ध—आरम्भमें ही जाने हुए
अर्थात् नित्य बोधस्वरूप हैं । उनका

तेषां निश्चयः कर्तव्यो नित्य-
निश्चितस्वरूपा इत्यर्थः। न संदि-
ह्यमानस्वरूपा एवं नैवं चेति।

यस्य मुमुक्षोरेवं यथोक्तप्रका-
रेण सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता-
त्मार्थं परार्थं वा यथा सविता
नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थं
परमार्थं चेत्येवं भवति क्षान्ति-
बोधकर्तव्यतानिरपेक्षता सर्वदा
स्वात्मनि सौमृतत्वामृत-
भावाय कल्पते मोक्षाय समर्थो
भवतीत्यर्थः ॥९२॥

निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्
वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं—'ऐसे
हैं अथवा नहीं हैं' इस प्रकार
सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं।

जिस मुमुक्षुको इस तरह—
उपर्युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये-
लिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी
निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य
अपने अथवा परायेलिये सदा ही
प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता
उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने
आत्मामें क्षान्ति—बोधकर्तव्यताकी
निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व—
अमृतभाव अर्थात् मोक्षके लिये
समर्थ होता है ॥९२॥



तथा नापि शान्तिकर्तव्यता-
त्मनीत्याह—

इसी प्रकार आत्मामें शान्ति-
कर्तव्यता भी नहीं है—इसी आशयसे
कहते हैं—

आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः ।

नर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् ॥ ९३ ॥

सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, स्वभावसे ही अत्यन्त उपरत
तथा सन्न और अभिन्न हैं। [इस प्रकार क्योंकि] आत्मतत्त्व अज,
समतात्त्व और विशुद्ध है [इसलिये उत्तमी शान्ति अथवा मोक्ष
कर्तव्य नहीं है] ॥९३॥

यस्मादादिशान्ता नित्यमेव
शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकृ-
त्यैव सुनिर्वृताः सुष्ट्रपरतखभावा
इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाभाभि-
न्नाश्च समाभिन्नाः, अजं साख्यं
विशारदं विशुद्धमात्मतत्त्वं यस्मा-
त्तस्माच्छान्तिमोक्षो वा नास्ति
कर्तव्य इत्यर्थः, न हि नित्यैक-
स्वभावस्य कृतं किञ्चिदर्थवत्स्यात्
॥ ९३ ॥

क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि-
शान्त-सर्वदा ही शान्तस्वरूप,
अनुत्पन्न-अजन्मा, स्वभावसे ही
सुनिर्वृत अर्थात् अत्यन्त उपरत
स्वभाववाले हैं; तथा सम और
अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि
आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और
विशुद्ध है इसलिये उसकी शान्ति
अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है—
यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि
उस नित्य एकस्वभावके लिये
कुछ भी करना सार्थक नहीं
हो सकता ॥ ९३ ॥



आत्मज्ञ ही अकृपण है

ये यथोक्तं परमार्थतत्त्वं प्रति-
पन्नास्ते एवाकृपणा लोके कृपणा
एवान्य इत्याह—

जो लोग उपर्युक्त परमार्थतत्त्वको
समझते हैं लोकमें वे ही अकृपण हैं,
उनके सिवा और सब तो कृपण
ही हैं—इसी भावको लेकर कहते हैं—

वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा ।

भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः ॥ ९४ ॥

जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी
विशुद्धि नहीं होती । द्वैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं;
इसलिये वे कृपण (दीन) माने गये हैं ॥९४॥

यस्माद्भेदनिष्ठा भेदानुया-
यिनः संसारानुगा इत्यर्थः; के?
पृथग्वादाः पृथङ्नाना वस्त्व-
त्येवं वदनं तेषां ते पृथग्वादा
द्वैतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः
क्षुद्राः स्मृताः; यस्माद्द्वैशरद्यं वि-
शुद्धिर्नास्ति तेषां भेदे विचरतां
द्वैतमार्गेऽविद्याकल्पिते सर्वदा
वर्तमानानामित्यर्थः । अतो
युक्तमेव तेषां कार्पण्यमित्य-
भिप्रायः ॥ ९४ ॥

क्योंकि वे भेदनिष्ठ-भेदानुयायी
अर्थात् संसारके अनुगामी हैं,
कौन लोग ? पृथक्वादी-‘पृथक्
अर्थात् नाना वस्तु है’-ऐसा जिन-
का कथन है वे पृथक्वादी अर्थात्
द्वैतीलोग, इसलिये वे कृपण-क्षुद्र
माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्
अविद्यापरिकल्पित द्वैतमार्गमें सर्वदा
विचरनेवाले उन लोगोंका वैशरद्य
अर्थात् विशुद्धि नहीं होती । अतः
उनका कृपण होना ठीक ही है-
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ ॥



आत्मज्ञका महाज्ञानित्त्व

यदिदं परमार्थतत्त्वममहात्म-
भिरपण्डितैर्वेदान्तबहिःप्रेतैः क्षुद्रैर-
ल्पप्रज्ञैरनवगाह्यमित्याह—

यह जो परमार्थतत्त्व है वह
क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके
अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि
पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता-
इस आशयसे कहते हैं—

अजे साम्ये तु ये केचिद्भ्रविष्यन्ति सुनिश्चिताः ।

ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥ ९५ ॥

जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित
होंगे वे ही लोकमें परम ज्ञानी हैं । उस तत्त्वका सामान्य लोक अवगाहन
नहीं कर सकता ॥ ९५ ॥

अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एव-
मेवेति ये केचित्स्र्यादयोऽपि
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव
हि लोके महाज्ञाना निरतिशय-
तत्त्वविषयज्ञाना इत्यर्थः ।

तच्च तेषां वर्त्म तेषां विदितं
परमार्थतत्त्वं सामान्यबुद्धिरन्यो
लोको न गाहते नावतरति न
विषयीकरोतीत्यर्थः । “सर्व-
भूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च ।
देवा अपि मार्गे सुह्यन्त्यपदस्य
पदैषिणः । शकुनीनामिवाकाशे
गतिर्नैवोपलभ्यते” (महा० शा०
२३९ । २३, २४) इत्यादि-
स्मरणात् ॥ ९५ ॥

उस अज और साम्यरूप परमार्थ-
तत्त्वमें जो कोई—स्त्री आदि भी
‘यह ऐसा ही है’ इस प्रकार
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लोकमें
महाज्ञानी अर्थात् निरतिशय तत्त्व-
विषयक ज्ञानवाले हैं ।

उस—उनके मार्ग अर्थात् उन्हें
विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य
साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन
—अवतरण नहीं करता अर्थात् उसे
विषय नहीं कर सकता । “जो
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और
सब प्राणियोंका हितकारी है उस
पदरहित (प्राप्य पुरुषार्थहीन)
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा-
वाले देवता भी उसके मार्गमें मोहको
प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाशमें
जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिलता
उसी प्रकार उसकी गतिका पता
नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे
भी यही प्रमाणित होता है ॥९५॥

कथं महाज्ञानत्वमित्याह—

उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार
है ? सो बतलाते हैं—

अजेष्वजमसंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते ।

यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥ ९६ ॥

अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज (नित्य) ज्ञान असंक्रान्त (अन्य
विषयोंसे न मिलनेवाला) माना जाता है । क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयोंमें
संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतलाया गया है ॥९६॥

अजेष्वनुत्पन्नेष्वचलेषु धर्मेष्व्वात्मस्वजमचलं च ज्ञानमिष्यते सवितरीवौष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्तस्मादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमजमिष्यते । यस्मान्न क्रमतेऽर्थान्तरे ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीर्तितमाकाशकल्पमित्युक्तम् ॥९६॥

क्योंकि अज-अनुत्पन्न यानी अचल धर्मों-आत्माओंमें सूर्यमें उष्णता और प्रकाशके समान अज अर्थात् अचल ज्ञान माना जाता है अतः अर्यान्तरमें असंक्रान्त (अनुत्पन्निष्ठ) ज्ञानको अजन्मा (नित्य) स्वीकार किया जाता है । क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा गया है; अर्थात् वह आकाशके समान है-ऐसा कहा है ॥९६॥

जातवादमें दोषप्रदर्शन

अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपश्चितः ।

असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥ ९७ ॥

[अन्य वादियोंके मतानुसार] किसी अणुमात्र भी विधर्मों वस्तुकी उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥

इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये वस्तुनि वहिरन्तर्वा जायमान उत्पाद्यमानेऽविपश्चितोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं सदा नास्ति किमुत वक्तव्यसावरणच्युतिर्वन्धनाशो नास्तीति ॥९७॥

इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात् थोड़ी-सी भी विधर्मों वस्तुके बाहर या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अविपश्चित-अविवेकी पुरुषकी कभी असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर उसकी आवरणच्युति अर्थात् बन्धनाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥

आत्माका स्वाभाविक स्वरूप

तेपामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्रु-
वतां स्वसिद्धान्तेऽभ्युपगतं तर्हि
धर्माणामावरणम् । नेत्युच्यते ।

उनकी आवरणच्युति नहीं होती—
ऐसा कहकर तो तुमने अपने
सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण
स्वीकार कर लिया [—ऐसा यदि
कोई कहे तो] इसपर हमारा कहना
है—नहीं,

अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः ।

आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥ ६८ ॥

समस्त आत्मा आवरणशून्य, स्वभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध
और मुक्त हैं । तथापि स्वामीलोग (वेदान्ताचार्यगण) 'वे जाने जाते हैं'
ऐसा [उनके विषयमें कहते हैं] ॥९८॥

अलब्धावरणाः—अलब्धम-
प्राप्तमावरणमविद्यादिवन्धनं येषां
ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन-
रहिता इत्यर्थः, प्रकृतिनिर्मलाः
स्वभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा
मुक्ता यस्मान्नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-
स्वभावाः ।

यद्येवं कथं तर्हि बुध्यन्त
इत्युच्यते ?

नायकाः स्वामिनः समर्था
बोद्धुं बोधशक्तिमत्स्वभावा

'अलब्धावरणाः'—जिन्हें आवरण
अर्थात् अविद्यादिरूप बन्धन लाभ
अर्थात् प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म
अलब्धावरण अर्थात् बन्धनरहित,
प्रकृति-निर्मल—स्वभावसे ही शुद्ध
और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए
तथा मुक्तस्वरूप हैं, क्योंकि वे नित्य
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हैं ।

शंका—यदि ऐसी बात है तो
उनके विषयमें 'वे जाने जाते हैं'
ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान—नायक—स्वामी लोग
—जाननेमें समर्थ अर्थात् बोधशक्ति-

इत्यर्थः, यथा वा नित्यनिवृत्त-
स्वरूपोऽपि सा प्रकाश-
इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त-
गतयोऽपि नित्यमेव शैलास्तिष्ठ-
न्तीत्युच्यते तद्वत् ॥ ९८ ॥

उसके विषयमें
उसा प्रकार एसा कहते हैं जैसे कि
नित्य प्रकाशस्वरूप होनेपर भी
सूर्यके विषयमें 'सूर्य प्रकाशमान
है' ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा
गतिशून्य होनेपर भी 'पर्वत खड़े
है' ऐसा कहा जाता है ॥ ९८ ॥

अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है

क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः ।

सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् ॥ ९९ ॥

अखण्ड प्रज्ञानवान् परमार्थदर्शिका ज्ञान धर्मो (विषयों) में संक्रमित नहीं होता और न [उसके मतमें] सम्पूर्ण धर्म (आत्मा) ही कहीं जाते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्ध करने नहीं कहा [अर्थात् यह बौद्ध सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद् दर्शन है] ॥ ९९ ॥

यस्मान्न हि क्रमते बुद्धस्य
परमार्थदर्शिनो ज्ञानं विषयान्त-
रेषु धर्मेषु धर्मसंस्थं सवितरीव
प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति
तायी, संतानवतो निरन्तरस्या-
काशकल्पस्येत्यर्थः, पू-त्वतो
वा प्रज्ञावतो वा, धर्मा
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानं वदेवा-
काशकल्पस्यात्र क्रमन्ते क्वचिद-
प्यर्थान्तर इत्यर्थः ।


तायी—जिसका ताय यानी
(विस्तार) हो उसे तायी कहते हैं ।
क्योंकि तायी—सन्तानवान्—निरन्तर
अर्थात् आकाशसदृश पूजावान्
अथवा प्रज्ञावान् बुद्ध—परमार्थदर्शिका
ज्ञान धर्मोंमें—विषयान्तरोंमें संक्रमित
नहीं होता अपितु सूर्यमें प्रकाशकी
भाँति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार
सम्पूर्ण धर्म अर्थात् आत्मा भी
ज्ञानके समान ही आकाशसदृश
होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें
संक्रमित नहीं होते अर्थात् नहीं जाते ।

यदादाबुपन्यस्तं ज्ञानेनाकाशकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाशकल्पस्य तायिनोबुद्धस्य तदनन्यत्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते क्वचिदप्यर्थान्तरे । तथा धर्मा इति । आकाशमिवाचलमविक्रियं निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्गमदृश्यमग्राह्यमशनायाद्यतीतं ब्रह्मात्मतत्त्वम् । “न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते” (बृ० उ० ४।३।२३) इति श्रुतेः ।

ज्ञानज्ञेयज्ञातृभेदरहितं परमार्थतत्त्वमद्वयम् एतन्न बुद्धेन भाषितम् । यद्यपि बाह्यार्थनिराकरणं ज्ञानमात्रकल्पना चाद्वयवस्तुसामीप्यमुक्तम् । इदं तु परमार्थतत्त्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेव विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९ ॥

इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका ‘ज्ञानेनाकाशकल्पेन’ इत्यादि श्लोकद्वारा उपन्यास किया गया है, आकाशसदृश निरन्तर बोधवान्का-उससे अभिन्न होनेके कारण-वही यह आकाशसदृश ज्ञान कभी अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होता; और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात् वे भी आकाशके समान अचल, अविक्रिय, निरवयव, नित्य, अद्वितीय, असंग, अदृश्य, अग्राह्य और क्षुधा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मात्मतत्त्व ही हैं; जैसा कि “द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित इस अद्वय परमार्थतत्त्वका बुद्धने निरूपण नहीं किया; यद्यपि उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्वय वस्तुके समीपवर्ती ही विषय कहे हैं; तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत परमार्थतत्त्वको तो वेदान्तका ही विषय जानना चाहिये ॥९९॥



परमार्थपद-वन्दना

शास्त्रसमाप्तौ परमार्थतत्त्व-
स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते—

अब शास्त्रकी समाप्ति होनेपर
परमार्थतत्त्वकी स्तुतिके लिये नमस्कार
कहा जाता है—

दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् ।

बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम् ॥१००॥

दुर्दर्श, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥

दुर्दर्शं दुःखेन दर्शनमस्येति
दुर्दर्शम्, अस्ति नास्तीति चतु-
ष्कोटिवर्जितत्वाद्दुर्विज्ञेयमित्य-
र्थः । अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेशं
महासमुद्रवदकृतप्रज्ञैः, अजं
साम्यं विशारदम्, ईदृक्पदम-
नानात्वं नानात्ववर्जितं बुद्ध्वा-
वगम्य तद्भूताः सन्तो नमस्कुर्म-
स्तस्मै पदाय, अव्यवहार्यसपि
व्यवहारगोचरमापाद्य यथाबलं
यथाशक्तीत्यर्थः ॥ १०० ॥

जिसका कठिनतासे दर्शन हो
सकता है ऐसे दुर्दर्श अर्थात् अस्ति-
नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित
होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति
गम्भीर—मन्दबुद्धियोंके लिये महा-
समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा
अजन्मा, साम्यरूप (निर्विशेष) और
विशुद्ध—ऐसे पदको भेदरहित जान-
कर तद्रूप हो और उस अव्यवहार्य-
पदको भी व्यवहारका विषय बना-
कर हम उसको यथाबल—यथाशक्ति
नमस्कार करते हैं ॥१००॥



साध्यकारकर्तृक वन्दना

अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा-

दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् ।

विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धेक्षणानां

प्रणतभयविहन्तु ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १ ॥

जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीयशक्तिके योगसे जन्म ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति स्वीकारकी तथा जो नाना प्रकारके विषयरूप धर्मोंको ग्रहण करनेवाले मूढदृष्टि लोगोंके विचारसे एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागतभयहारी है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

प्रज्ञावैशाखवेधक्षुभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थं

भूतान्यालोक्य मग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे ।

कारुण्यादुद्गधारासृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतो-

र्यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुमसुं पादपातैर्नतोऽस्मि ॥२॥

जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक हैं ऐसे संसारसागरमें जीवोंको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्रके भीतर स्थित इस देवदुर्लभ अमृतको प्राणियोंके कल्याणके लिये निकाला है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु (श्रीगौडपादाचार्य) को मैं उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥२॥

यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिभगमत्स्वान्तमोहान्धकारो

मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृदुपजनोदन्वति त्रासने मे ।

यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्रथा ह्यमोघा

तत्पादौ पावनीयौ भवभयचिनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये ॥३॥

जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें वारम्बार

डूवना-उच्छलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका आश्रय लेनेवालोंके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होनेवाली है उन (श्रीगुरुदेवके) भवभयहारी परम पवित्र चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥३॥



इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्य
शङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रविवरणेऽलातशान्त्याख्यं
चतुर्थं प्रकरणम् ॥ ४ ॥



ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



ॐ

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ५ सस्तनूभि-

र्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

—ॐॐॐॐॐॐॐ—

॥ हरिः ॐ तत्सव ॥ ॐ ॥

श्रीहरिः

गौडपादीयकारिकानुक्रमणिका

कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठम्
अकल्पकमजं ज्ञानम्	... ३	३३	१५७
अकारो नयते विश्वम्	... १	२३	६०
अजः कल्पितसंवृत्या	... ४	७४	२४४
अजमनिद्रमस्वप्नम्	... ३	३६	१६१
अजमनिद्रमस्वप्नम्	... ४	८१	२५०
अजातं जायते यस्मात्	... ४	२९	२१०
अजातस्यैव धर्मस्य	... ४	६	१८४
अजातस्यैव भावस्य	... ३	२०	१४१
अजातेस्त्रसतां तेषाम्	... ४	४३	२२१
अजाद्वै जायते यस्य	... ४	१३	१९०
अजेध्वजमसंक्रान्तम्	... ४	९६	२६५
अजे साम्ये तु ये केचित्	... ४	९५	२६४
अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये	... ४	९७	२६६
अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम्	... ३	२	११०
अदीर्घत्वाच्च कालस्य	... २	२	६९
अद्वयं च द्वयाभासम्	... ३	३०	१५४
अद्वयं च द्वयाभासम्	... ४	६२	२३७
अद्वैतं परमार्थो हि	... ३	१८	१३८
अनादिमायया सुतः	... १	१६	४८
अनादेरन्तवस्त्वं च	... ४	३०	२११
अनिमित्तस्य चित्तस्य	... ४	७७	२४७
अनिश्चिता यथा रज्जुः	... २	१७	८४
अन्तःस्थानात्तु भेदानाम्	... २	४	७१
अन्यथा गृह्यतः स्व १ः	... १	१५	४७
अपूर्वं स्थानिषमो हि	... २	८	७५
अभावश्च रथादीनाम्	... २	३	७०

कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठम्
अभूताभिनिवेशाद्धि	... ४	७९	२४८
अभूताभिनिवेशोऽस्ति	... ४	७५	२४५
अमात्रोऽनन्तमात्रश्च	... १	२९	६५
अन्वधावरणाः सर्वे	... ४	९८	२६७
अल्पाते स्पन्दमाने वै	... ४	४९	२२७
अवस्त्वनुपलम्भं च	... ४	८८	२५७
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु	... २	१५	८२
अशक्तिरपरिज्ञानम्	... ४	१९	१९४
असजागरिते दृष्ट्वा	... ४	३९	२१७
असतो मायया जन्म	... ३	२८	१५३
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति	... ४	८३	२५१
अस्पन्दमानमलातम्	... ४	४८	२२६
अस्पश्योगो वै नाम	... ३	३९	१६७
अस्पश्योगो वै नाम	... ४	२	१८०
आत्मसत्त्वानुबोधेन	.. ३	३२	१५६
आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः	... ३	३	११२
आदायन्ते च यन्नास्ति	... ४	३१	२१२
आदायन्ते च यन्नास्ति	... २	६	७२
आदिवुद्धाः प्रकृत्यैव	... ४	९२	२६१
आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः	... ४	९३	२६२
आश्रमास्त्रिविधा हीन०	... ३	१६	१३५
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः	... १	८	३१
उत्पादस्याप्रसिद्धत्वात्	.. ४	३८	२१६
उत्सेक उदधेर्यद्वत्	... ३	४९	१६९
उपलम्भात्समाचारात्	... ४	४२	२२०
उपलम्भात्समाचारात्	... ४	४४	२२३
उपायेन निगृह्णीयात्	... ३	४२	१७०
उपासनाश्रितो धर्मः	... ३	१	१०८
उभयोरपि वैतथ्यम्	... २	११	७८
उभे ह्यन्योन्यदृश्ये ते	... ४	६७	२३९
ऋषुवक्रादिकाभासम्	... ४	४७	२२६
एतैरेषोऽपृथग्भावैः	... २	३०	९१
एवं न चित्तजा धर्माः	... ४	५४	२३०

कारिकाश्रीकार्त्तव	प्रकरणङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठम्
एवं न जायते चित्तम्	... ४	४६	२२५
ओङ्कारं पादशो विद्यात्	... १	२४	६२
कल्पयत्यात्मनात्मानम्	... २	१२	७९
कारणं यस्य वै कार्यम्	... ४	११	१८८
कारणाद्यद्यन्यत्वम्	... ४	१२	१८९
कार्यकारणद्वौ तौ	... १	११	४३
काल इति कालविदः	... २	२४	८८
क्रोध्यश्चतन् एतास्तु	... ४	८४	२५३
कृन्ते न हि दृढस्य	... ४	९९	२६८
ख्याप्यनानाम्जाति तैः	... ४	५	१८३
ग्रहणाच्चारितवत्	... ४	३७	२१५
ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः	... ३	३८	१६५
ग्रथादिषु प्रलीनेषु	... ३	४	११३
चरञ्जानरिते जाग्रत्	... ४	६५	२३८
चित्तं न संतृप्त्यर्थम्	... ४	२६	२०६
चित्तकाला हि वेऽन्तस्तु	... २	१४	८१
चित्ततरङ्गितमेवेदम्	... ४	७२	२४२
जगामरणनिर्मुक्ताः	... ४	१०	१८५
जाग्रद्विषयक्षणायास्ते	... ४	६६	२३८
जाग्रद्बुद्ध्यादपि त्वन्तः	... २	१०	७७
जात्याभासं जलाभासम्	... ४	४५	२२४
जीवं कल्पयते पूर्वम्	... ३	६६	८३
जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्	... ३	१४	१२८
जीवात्मनोरनन्यत्वम्	... ३	१३	१२७
ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये	... ४	८९	२५८
ज्ञानेनाकाशकल्पेन	... ४	१	१७८
तत्रमाव्यात्मिकं दृष्ट्वा	... २	३८	१०६
तस्मादेवं विदित्वैनम्	... २	३६	१०४
तस्माच्च जायते चित्तम्	... ४	२८	२०८
तत्रज्ञत्वोत्वविज्ञाने	... १	२०	५८
त्रिषु वामसु यस्तुल्यम्	... १	२२	५९

कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठम्
त्रिषु धामसु यद्भोज्यम्	... १	५	२६
दक्षिणाक्षिणुखे विश्वः	... १	२	२०
दुःखं सर्वगतस्मृत्य	... ३	४३	१७१
दुर्दर्शगतिगम्भीरम्	... ४	७०	२७०
दृश्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यात्	... ४	५३	२३०
द्वयोर्द्वयोर्गंधुज्ञाने	... ३	१२	१२६
द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम्	... १	१३	४५
धर्मा य इति जायन्ते	... ४	५८	२३४
न कश्चिज्जायते जीवः	... ३	४८	१७५
न कश्चिज्जायते जीवः	... ४	७१	२४१
न निरोधो न चोत्पत्तिः	... २	३२	९४
न निर्गता अलातात्ते	... ४	५०	२२८
न निर्गतास्ते विशानात्	... ४	५२	२२९
न भवत्यमृतं मर्त्यम्	... ३	२१	१४१
न भयत्यमृतं मर्त्यम्	... ४	७	१८४
न युक्तं दर्शनं गत्वा	... ४	३४	२१३
नाकाशस्य घटाकाशः	... ३	७	१२१
नाजेपु गर्बधर्मेषु	... ४	६०	२३६
नात्मभावेन नानेदम्	... २	३४	१०१
नात्मानं न परं चैव	... १	१२	४४
नास्त्यसद्धेतुकमसत्	... ४	४०	२१८
नास्वादयेत्सुखं तत्र	... ३	४५	१७२
निःस्तुतिर्निर्ममस्कारः	... २	३७	१०४
निगृहीतस्य मनसः	... ३	३४	१५९
निमित्तं न सदा चित्तम्	... ४	२७	२०७
निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य	... ४	८०	२४९
निवृत्तेः सर्वदुःखानाम्	... १	१०	४२
निश्चितायां यथा खल्वाम्	... २	१८	८५
नेह नानेति चाग्नायात्	... ३	२४	१४५
पञ्चविशक इत्येके	... २	२६	८९
पादा इति पादविदः	... २	२१	८७
पूर्वापरापरिज्ञानम्	... ४	२१	१९८

कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठन्
प्रकृत्याकाशवज्जेयाः	४	९१	२६०
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्	४	२४	२०२
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्	४	२५	२०४
प्रणवं हीश्वरं विद्यात्	१	२८	६५
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म	१	२६	६३
प्रपञ्चो यदि विचेत	१	१७	५०
प्रभवः सर्वभावानाम्	१	६	२७
प्राण इति प्राणविद्ः	२	२०	८७
प्राणादिभिरनन्तैश्च	२	१९	८६
प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नाम्	४	८५	२५३
फलादुत्पद्यमानः सन्	४	१७	१९३
वह्निःप्रज्ञो विभुर्विश्वः	१	१	१९
वीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः	४	२०	१९६
बुद्ध्या निमित्ततां सत्याम्	४	७८	२४८
भावैरसद्भिरेवायम्	२	३३	१००
भूतं न जायते किञ्चित्	४	४	१८२
भूततोऽभूततो वापि	३	२३	१४४
भूतस्य जातिमिच्छन्ति	४	३	१८१
भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये	१	९	३१
मकारभवे प्राज्ञस्य	१	२१	५९
मन इति मनोविद्ः	२	२५	८९
मनसो निग्रहायत्तन्	३	४०	१६८
मनोदृश्यमिदं द्वैतम्	३	३१	१५५
मरणे सम्भवे चैव	३	९	१२४
मायया मिद्यते ह्येतत्	३	१९	१३९
मित्राद्यैः सह संमन्वय	४	३५	२१३
मूर्च्छादिवत्कृत्स्नज्ञाद्यैः	३	१५	१३२
यं भावं दृशयेद्यस्य	२	२९	१९०
यथा निर्मितको जावः	४	७०	२४१
यथा भवति बालानाम्	३	८	२२२
यथा मायामयाद्री जात्	४	५९	२३५
यथा माशमयो जीवः	४	६९	२४१

कारिकाप्रतीकानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठम्
यथा स्वप्नमथो जीवः	... ४	६८	२४०
यथा स्वप्ने द्रव्याभासम्	... ३	२९	१५३
यथा स्वप्ने द्रव्याभासम्	... ४	६१	२३६
यथैकस्मिन्घटाकाशे	... ३	५	११४
यदा न लभते हेतून्	... ४	७६	२४५
यदा न लीयते चित्तम्	... ३	४६	१७३
यदि हेतोः फलात्सिद्धिः	... ४	१८	१९४
यावद्धेतुफलावेशः	... ४	५६	२३२
यावद्धेतुफलावेशः	... ४	५५	२३१
युद्धीत प्रणवे चेतः	... १	२५	६३
योऽन्ति कल्पितसंवृत्या	... ४	७३	२४३
रसादयो हि ये कोशाः	... ३	११	१२५
रूपकार्यसमाख्याश्च	... ३	६	१२०
लये सम्योघयेच्चित्तम्	... ३	४४	१७१
लीयते हि सुपुप्ते तत्	... ३	३५	१६०
लोकाँल्लोकविदः प्राहुः	... २	२७	८९
विकरोत्यपरान्भावान्	... २	१३	७९
विकल्पो विनिवर्तेत	... १	१८	५१
विज्ञाने स्पन्दमाने वै	... ४	५१	२२८
विपर्यासाद्यथा जाग्रत्	... ४	४१	२१९
विप्राणां विनयो ह्येषः	... ४	८६	२५४
विभूर्ति प्रसवं त्वन्ये	... १	७	२९
विश्वस्यात्वविवक्षायाम्	... १	१९	५७
विश्वो हि स्थूलभुङ् नित्यम्	... १	३	२६
वीतरागभयक्रोधैः	... २	३५	१०३
वेदा इति वेदविदः	... २	२२	८८
वैतथ्यं सर्वभावानाम्	... २	१	६७
वैशारद्यं तु वै नास्ति	... ४	९४	२६३
स एष नेति नेतीति	... ३	२६	१५०
संश्रुताः स्वप्नवत्सर्वे	... ३	१०	१२४
सम्भवे हेतुफलयोः	... ४	१६	१९२
सम्भूतेरपवादाच्च	... ३	२५	१४७

कारिकाप्रतीक्षानि	प्रकरणाङ्कः	कारिकाङ्कः	पृष्ठम्
संनृत्या जायते सर्वम्	... ४	५७	२३३
सतो हि सायद्या जन्म	... ३	२७	१५१
सप्रयोजनता तेषाम्	... २	७	७३
सप्रयोजनता तेषाम्	... ४	३२	२१३
गर्भस्य प्रणवो ह्यादिः	... १	२७	६४
सर्वाभिलाषविधयः	... ३	३७	१६३
सर्ते धर्मा नृपा स्वप्ने	... ४	३३	२१२
सद्यस्तु शोपलम्भं च	... ४	८७	२५६
सांनिद्धिको स्वाभाविकी	... ४	९	१८५
सुखमाश्रित्यते नित्यम्	... ४	८२	२५०
गूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः	... २	२३	८८
सृष्टिरिति सृष्टिविदः	... २	२८	८९
स्थूलं तपेदने विश्वम्	... १	४	२६
स्यतो वा परतो वापि	... ४	२२	१९९
स्वाप्नागोचरितत्वात्	... २	५	७१
स्वप्नदृष्टिदृष्टदृष्ट्यास्तौ	... ४	६४	२३८
स्वप्नदृष्टप्रवरन्स्वप्ने	... ४	६३	२३७
सोऽनिद्रायुतावाद्यौ	... १	१४	४६
सदस्योऽपि यथा दृष्टे	... २	३१	९३
स्वप्नसुप्तावपि त्वन्तः	... २	९	७६
स्वप्ने चावस्तुक्तः कावः	... ४	३६	२१४
स्वभावेनामृतो यस्य	... ३	२२	१४२
स्वभावेनामृतो यस्य	... ४	८	१८४
सर्वादिद्वान्धवयस्त्रानु	... ३	१७	१३७
स्वप्ने क्षान्तां सनिर्वाणम्	... ३	४७	१७४
हेतोरितिः फलं वेपाम्	... ४	१४	१९१
हेतोरितिः फलं वेपाम्	... ४	१५	१९२
हेतुं जायतेऽनादिः	... ४	२३	२०१
हेतोरितिः फलं वेपाम्	... ४	९०	२५९



श्रीहरिः

मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	मन्त्राङ्कः	पृष्ठम्
भस्मात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः	...	१२
इयं सवैश्वरः	...	६
भोमित्येतदश्रमिदं सर्वम्	...	१
गारितस्थानो वहिःप्रज्ञः	...	३
तागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः	...	९
गान्तःप्रज्ञम्	...	७
इत्र सुतः	...	५
इर्वं स्योतद्	...	२
पुप्तस्थानः	...	११
त्रोऽवमात्मा	...	८
वप्रस्थानस्तैजसः	...	१०
वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञः	...	४

१४
१४२
१८४
१३७
१७४
१९१
१९२
२०१
२५९

